

Date: 09/09/2023

To, The Listing Compliance Department, BSE Limited, P. J. Tower, Dalal Street, Mumbai – 400001 Scrip Code: 534809 To,

The Listing Compliance Department, National Stock Exchange of India Limited, Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400051 Symbol: PCJEWELLER

Sub.: Newspaper publications

Dear Sir / Ma'am,

Please find enclosed herewith the publications made by the Company on September 9, 2023 in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) newspapers, titled as "NOTICE OF THE 18TH ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION".

In Hindi Notice published in Jansatta, in the fourth line of second para inadvertently 7 September 2023 is mentioned in place of 8 September 2023. The revised ad with correct date i.e. 8 September 2023 will be published again on September 10, 2023.

Kindly take the same on record.

Thanking you, For PC Jeweller Limited VIJAY PANWAR PANWAR (VIJAY PANWAR) (VIJAY PANWAR) Company Secretary

Encl.: As above

PC Jeweller Limited

REGD. & CORPORATE OFF : C - 54, PREET VIHAR, VIKAS MARG, DELHI - 110 092 PH.: 011 - 49714971 FAX : 011 - 49714972

13

FINANCIAL EXPRESS

TRANSMISSION CORPORATION OF TELANGANA LIMITED e - TENDER NOTICE

The TS Transco invites online Bids on e-procurement for supply of the following equipment Tender Specification No.: TSPMM21-31/2023, Description Equipment : Supply or 220V, 200Ah VRLA Battery Sets.

Tender Specification No.: TSPMM22- 32/2023, Description Equipment: Supply o 70kN & 120kN Normal Disc Insulators

 Tender Specification No.: TSPMM41- 33/2023, Description Equipment: 33kV CTs Tenderers can have further details and download the tender schedule from e procurement market place i.e., www.tender.telangana.gov.in. Contact Nos.: CHIEF ENGINEER/P&MM, TSTransco Phone: 040-23396000 (Extn.:3487/3583/3460 /3332/3670/ 3276/3522) 040-23303736 www.tstransco.in RO: 22/23

Sd/- Chief Engineer/P&MM

KERALA WATER AUTHORITY e-Tender Notice

JJM-1.CWSS to Kavilumpara & Maruthonkara - Construction of Check Dam, RWGM, 75kL GLSR cum Filte tank, 50kL and 25kL GLSR, CWGM, Distribution system and Providing FHTCs in Kavilumpara GP, 2. WSS to Thiruvallur, Avancheri, Manivur and Cheruvannur Pts -WSS to Cheruvannur - Construction of 13 LL GLSR Supplying and Laying CWGM and CWPM, Construction of Booster Pump House, Supply and Erection of Pumpsets 3. AMRUT-UWSS TO MUKKAM-Providing FHTC by laying Distribution network from Ellangal reservoir, EMD : Rs. 2,00,000/-(for each), Tender fee : Rs. 11025+18%GST(for each), Last Date for submitting Tender: 21-09-2023 04:00:pm, Phone: 0495-2371046, Website: www.kwa.kerala.gov.ir

www.etenders.kerala.gov.in **Superintending Engineer** KWA-JB-GL-6-1154-2023-24 PH circle Kozhikode

OPAKKA Packaging with a Soul PAKKA LIMITED (FORMERLY KNOWN AS YASH PAKKA LIMITED) Regd. Office : 2nd Floor, 24/57, Birhana Road, Kanpur, Uttar Pradesh - 208 001 Corp. Office : Yash Nagar, Ayodhya - 224135, Uttar Pradesh CIN: L24231UP1981PLC005294 I T: +91 5278 258174 E: connect@pakka.com I Website : www.pakka.com

NOTICE

- 1. Notice of the meeting, setting out the resolutions proposed to be transacted thereat, along with the Audited financial statements for the year ended at March 31, 2023, Auditors' Report and Directors' Report as on that date, has been sent to all the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). The aforesaid documents are also available on the website of the Company at https://pakka.com/, website of BSE Limited at https://bseindia.com/, website of National Stock Exchange of India Limited at https://nseindia.com/ and on the website of National Securities Depositories Limited (NSDL) (agency for providing the Remote e-Voting facility and e-voting system during the AGM i.e. https://www.evoting.nsdl.com/.
- 2. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (LODR), 2015, the Company is providing remote e-voting facility to its members to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be transacted at the 43rd Annual General Meeting. The Company has arranged remote e-voting facility through NSDL e-Voting system.
- Only a member whose name appears in the register of members as on cut-off date i.e. Friday, 22nd September, 2023 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the annual general meeting. Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Annual Report including Notice of the meeting and are holding shares on Friday, 22nd September, 2023, can use their existing user ID and password otherwise follow the detailed procedure mentioned in the Notice of Meeting.
- 4. Remote e-voting facility shall commence Tuesday, 26th September, 2023 (09.00 AM) to Thursday, 28th September, 2023 (5.00 P.M.) (both days Inclusive). The remote e-voting will be disabled by the NSDL after the said date and time.
- 5. The Company has appointed Mr. Amit Gupta, Practicing Company Secretary, Lucknow as the scrutinizer to scrutinize the e-voting process in fair and transparent manner.
- 6. If members have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, they may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at https://www.evoting.nsdl.com/, under help section or write an email at helpdesk evoting@nsdl.co.in, or contact at toll free number 1800 1020 990 and

Tranway TRANWAY TECHNOLOGIES LIMITED L74900KA2015PLC079480 Reg Office: Gf-01, Pallavi Enclave 26th Main 17th Cross, J P Nagar 6th Phase, Bangalore Ka 560078 Email Id: hr.ind@tranwayinc.com website: www.tranwayinc.com

Shareholders are hereby informed that the Eighth (08^{th)} Annual General Meeting (AGM) of the company will be held on Saturday, 30th September 2023 at 11:00 AM (IST) through Video Conferencing(VC)/other Audio-Visual means (OVAM) to transact the business as set forth in the Notice of the AGM which will be sent to the shareholders for convening the AGM of the Company.

In view of the outbreak of the Covid- 19 pandemic and pursuant to General Circular No's 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 dated 8th April 2020, 13th April 2020, 5th May 2020 and 13th January 2021 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 12th May 2020 and 15th January 2021 respectively issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars") and in compliance with the provisions of the Companies Act 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") the 08th AGM of the Company is being conducted through VC/OAVM, which does not require physical presence of members at a common venue. Shareholders will be able to attend the AGM of the company through VC and their presence through VC facility shall be reckoned for the purpose of quorum under section 103 of the Act.

In compliance with the above provisions and the circulars, the notice of the AGM and the Annual Report for the Financial Year 2022-23 will be sent to all the shareholders of th company whose email addresses are registered with the company/depository Participant(s)/Registrar and Transfer Agent (RTA).

The Notice and Annual Report will also be available on Company's website a www.tranwayinc.com and on the stock exchange website at www.bseindia.com. Manner of registering/updating email addresses

Those shareholders who are holding shares in dematerialized mode and have not registered/updated their email addresses with their depository participant(s) are requested to register/update their email addresses with the relevant depository participant(s).

Manner of casting vote through e-voting

The Company will be providing remote e-voting facility to all its shareholders to cast their votes on the business as set forth in the notice of the AGM and the facility of voting through e-voting would also be made available during the AGM. The login credentials for casting votes through remote e-voting and e-voting during AGM shall be provided in the Notice of the AGM. The details will also be available on the website of the company a www.tranwayinc.com and on the website of CDSL at https://www.evotingindia.com

By Order of the Board of Directors For Tranway Technologies Limited

Sd/-

of the interest

SALE NOTICE LANCO VIDARBHA THERMAL POWER LIMITED (IN LIQUIDATION) CIN: U40100TG2005PLC045445 Registered Office: Plot No. 4, Software Units Layout, Hitec City, Madhapur, Hyderabad-500081, Telangan

11th E-AUCTION SALE NOTICE UNDER INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE, 2016 Notice is hereby given to the public in general under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and the regulations made thereunder that the assets of M/s Lanco Vidarbha Thermal Power Limited (in Liquidation) ("Corporate Debtor") is being proposed to be sold collectively / on parcel basis under Regulation 32 (a) to (d) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process Regulations, 2016, on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS", "WHATEVER THERE IS", "NO COMPLAINT BASIS" AND "WITHOUT RECOURSE BASIS" through e-auction platform. The said proposition for disposition is without any kind of warranties and indemnities

The bidding of the assets stated in the below table shall take place through online e-auction service provider, M/s MSTC Limited (MSTC) via website www.mstcecommerce.com.

Submission of Requisite Forms, Affidavits, Declaration etc. alongwith Refundable Deposit by the Prospective Bidder*	
---	--

Government of India **Public Enterprises Selection Board** invites applications for the post of

Chairman & Managing Director

Balmer Lawrie & Co. Ltd.


Last date of submission of application by the applicant is

03rd October, 2023

Last date of forwarding of applications by the Nodal officers to PESB is

12th October, 2023

For details login to website http://www.pesb.gov.in



NOTICE OF THE 18TH ANNUAL GENERAL MEETING AND **REMOTE E-VOTING INFORMATION**

Notice is hereby given that the 18" Annual General Meeting ("AGM") of PC Jeweller Limited (the "Company") will be held on Saturday, September 30, 2023 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act") and the Rules made thereunder read with General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 (in continuation to the circulars issued earlier in this regard) issued by Ministry of Corporate Affairs (hereinafter referred to as "MCA Circulars") and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") to transact the business specified in the Notice of the 18" AGM ("AGM Notice").

Pursuant to MCA Circulars and SEBI Circular SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023, AGM Notice along with Annual Report 2022-23 have been sent only by electronic mode to those Members whose e-mail address is registered with Depository Participants ("DP") / Company / Registrar & Transfer Agent - KFin Technologies Limited ("KFintech"). The Company has completed their dispatch on September 8, 2023. The same are also available on the Company's website and can be accessed through the link https://corporate.pcjeweller.com/annual-report/ as well as the websites of BSE Limited, National Stock Exchange of India Limited and KFintech at https://www.bseindia.com/, https://www.nseindia.com/ and https://evoting.kfintech.com/respectively.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of Listing Regulations, the Company is providing to its Members the facility to exercise their right to vote by electronic means on the business specified in AGM Notice through e-voting facility. The Company has engaged the services of KFintech as the Agency to provide facility for participation of Members in the AGM through VC / OAVM, remote e-voting and e-voting at the AGM. Members are requested to carefully read the "Instructions for attending the 18" AGM, remote e-voting and e-voting at the 18" AGM mentioned in AGM Notice. Remote e-voting facility shall commence from Wednesday. September 27, 2023 at 9:00 A.M. (IST) and end on Friday, September 29, 2023 at 5:00 P.M. (IST) and no remote e-voting shall be allowed thereafter. Only those Members, whose names appear in Register of Members / List of Beneficial Owners as on Saturday, September 23, 2023 ("Cut-off Date") shall be entitled to vote (through remote e-voting and at the AGM) and their voting rights shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the Cut-off Date. A person who is not a Member as on the Cut-off Date should treat this Notice for information only. The Company shall also provide e-voting facility at the AGM and Members attending the AGM through VC / OAVM, who have not cast their votes through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting at the AGM. Members, who have cast their votes by remote e-voting can also attend the AGM through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their votes again. Any person who becomes Member of the Company after despatch of the AGM Notice and holds shares as on the Cut-off Date may obtain the User ID and Password in the manner as specified in the AGM Notice, which amongst others also prescribes that Member may call KFintech's Toll Free No.: 1800-309-4001 or send an e-mail request to evoting@kfintech.com.

1800 22 44 30.

Place : Ayodhya Date : 07.09.2023

LIBERTY SHOES LIMITED

CIN: L19201HR1986PLC033185

Registered Office: Libertypuram, 13th Milestone, G.T. Karnal Road, Kutail, P.O. Bastara, Dist. Karnal - 132114, Haryana

Corporate Office: Ground Floor, Tower A, Building No. 8, DLF Cyber City, Phase - II, Gurugram-122002, Haryana Tel.: (+91) 0124-4616200, Fax: (+91) 0124-4616222

E-mail: investorcare@libertyshoes.com Website: www.libertyshoes.com

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF LIBERTY SHOES LIMITED

A) ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that pursuant to the applicable provisions of Companies Act. 2013, read with General Circular No.14/2020 dated 8" April 2020, General Circular No.17/2020 dated 13" April, 2020, General Circular No.20/2020 dated 5" May 2020, General Circular No. 02/2021 dated 13th January 2021, General Circular No.19/2021 dated 8th December, 2021, General Circular No.21/2021 dated 14" December, 2021, General Circular No.02/2022 dated 5" May, 2022 and General Circular No.10/2022 dated 28" December, 2022 respectively and other applicable Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and SEBI, the Board of Directors decided to convene the 37th Annual General Meeting (37th AGM) of the Company on Saturday, September 30, 2023 at 11:00 A.M. through VC /OAVM facility, without the physical presence of the Members at a common venue.

In Compliance with the provisions of SEBI and MCA Circulars, the Notice of 37th AGM along with Annual Report for the Financial year ended 31st March, 2023 has been sent on 8th September 2023 electronically only to those members who have registered their email IDs with the Company/Depository Participants or the Company's Registrar and Share Transfer Agent on 1st September 2023 for attending and participating in the 37th AGM through VC/OAVM facility including e-voting on the business set out in the Notice of 37th AGM of the Company (AGM Notice).

Members can join and participate in the 37th AGM through VC/OAVM facility only. Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the guorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Notice of the 37th AGM and Annual report for the Financial year 2022-23 are also being made available on the website of the Company i.e., www.libertyshoes.com, the website of Company's Registrar and Share Transfer Agent M/s Link Intime India Private Limited instavote.linkintime.co.in and also website of BSE Limited www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited www.nseindia.com.

B) BOOK CLOSURE

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 (Act) read with Rule 10 of the Companies Management and Administration) Rules, 2014 (Rules) as amended from time to time and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Sunday, September 24, 2023 to Saturday, September 30, 2023 (Both days inclusive) for the purpose of 37th AGM.

C) E-VOTING

Notice is further given pursuant to the applicable provisions of Companies Act. 2013. MCA Circulars. SEBI Circular and Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing remote e-voting (prior to AGM) and e-voting (during the AGM) facility to all its Members holding shares either in physical or in dematerialized form as on the cut-off date i.e. Saturday September 23, 2023 to cast their votes on all the resolutions set out in the Notice of 37th AGM. The details and Instructions to attend, vote and view the proceedings of the 37th AGM will be provided in the AGM Notice. The remote e-voting period will commence from Wednsday, 27th September 2023 (9:00 AM IST) and ends on Friday 29th September 2023 (5:00 PM IST) The remote e-voting module shall be disabled by Link Intime India Private Limited for e-voting thereafter. The Members not casting their vote on the resolutions through remote e-voting may only cast their vote during the 37th AGM through e-voting facility which shall be made available by the Company in compliance with the MCA Circulars and SEBI Circular. Members holding shares in physical form who have not registered their e-mail address with the Company, can register their e-mail address for receipt of Notice of 37th AGM, Annual Report and login details for attending, participating in the 37th AGM through VC/OAVM facility including e-voting by sending a request in writing to Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) M/s Link Intime India Private Limited at delhi@linkintime.co.in or to the Company at investorcare@libertyshoes.com mentioning the name, folio number, no. of shares held and complete postal address along with self attested copy of the PAN Card and self attested copy of any document (such as Aadhar Card, driving license, Election Identity Card, Passport etc.) in support of the address of the Member for registration of their e-mail address. Members holding shares in demat form whose e-mail addresses are not registered, are requested to register their e-mail address for receipt of Notice of 37th AGM, Annual Report and login details for attending and participating in the 37th AGM through VC / OAVM facility including e-voting with their DP only, as per the process advised by their DP. The registered e-mail address will also be used for sending future communications.

	fundable Deposit Amount to be submitted alongwith Application Form	in number of lot(s) expressed for		
Sit	e visit / Inspection Date :	From 27.09.2023 to 03.10.2023		
La	st Date for Submission of EMD	06.10.2023 On 09.10.2023 tentatively from 01:00 P.M. to 05:00 P.M		
Da	te and Time of Auction			
SI. No	Following group / lot of assets available for sale in e-auction:	Reserve Price (in INR)	EMD (in INR)	
1.	Lot 5: GRP Pipes 1100 mm Diameter	37,39,770.00 Plus 18% GST	3,73,980.00	
2.	Lot 7: 765 KV Switchyard Material	2,63,75,220.00 Plus 18% GST	26,37,520.00	
3.	Lot 11:	10,00,000.00	1,00,000.00	

10,00,000.00 3. Lot 11: Plus 18% GST Steel Material to be extracted from foundations like ESP. DM PLANT.etc. at the LVTPL Project Site

All those applicants who have earlier submitted the Bid Application Form in any of the earlier e auctions need only to send an undertaking confirmation by email and hard copy that new schedule and terms & conditions of the 11th E-Auction Sale are acceptable to them. They should also indicate afresh the Lots for which they are now applying alongwith the Refundable Deposit of Rs. 1 Lac. nterested applicant may refer to complete 11th E-Auction Process Information Document containing

letails with respect to e-auction Bid Application Form. Declaration and Undertakings. Other Forms. Term ind Conditions with respect to the sale of assets and its online auction sale available on the e-auction platformwww.mstcecommerce.com and also on the website of the Corporate Debtor a http://www.lancov/darbha.com. The Liquidator has the right to accept or reject or cancel any bid or extend o nodify any terms of the E-Auction at any time without assigning any reason. For any query regarding e-auction bidding, Contact: Ms. Unneti Saini at +91-7471118456 or MSTC Limited Helpdesk Nos. 011-23212357/23215163/23217850 E-mail: nroopn7@mstcindia.in and for asset / sale related issues please contact Mr. Vijay Kumar Garg, Liguidator at +91-9611938833 or e-mail a iquidation_lvtpl@sumedhamanagement.com or contact Ms. Sukhjit Kaur at Mob: +91 9038685318.

Date: 09.09.2023 Place: New Delhi	Vijay Kumar Garg, Liquidato In the matter of Lanco Vidarbha Thermal Power Limited Reg. No. : IBBI/IPA-002/IP-N00359/2017-18/1106
Res. Address: Flat No. 1402, Tower GPL Eden Heights, Sector 70, Darba Road, Gurugram – 122101, Haryana. Reg. Email : gargvijay1704@gmail.c Mobile No.: +91 9611938833	ripur C/o Sumedha Management Solutions Private Limiter 8-1/12, 2nd Floor, Safdarjung Enclave,

In case of any query on e-voting, Members may visit Help and FAQs section available at KFintech's website https://evoting.kfintech.com/ or e-mail at evoting@kfintech.com or call on their Toll Free No.: 1800-309-4001.

Members, who have not yet registered their e-mail address, are requested to do the same by following the procedure given below:

- i) Members holding shares in demat form can register their e-mail address with their respective DP; and
- ii) Members holding shares in physical form can register their e-mail address in the prescribed Form ISR-1 with KFintech. Members may download Form ISR-1 from the Company's website at https://www.pcjeweller.com/ and are requested to forward the duly filled in Form to KFintech.

For PC Jeweller Limited
Sd/-
(VIJAY PANWAR)
Company Secretary

Parsvnaths

Parsvnath Developers Limited

Place: Delhi

Date: September 8, 2023

Registered & Corporate Office: Parsvnath Tower, Near Shahdara Metro Station, Shahdara, Delhi - 110032 CIN: L45201DL1990PLC040945; Phone No: 011-43010500, 011-43050100; Fax No: 011-43050473 e-mail address: secretarial@parsvnath.com; Website: www.parsvnath.com

NOTICE REGARDING 32ND ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Parsynath Developers Limited will be held on Saturday, September 30, 2023 at 2:30 P.M. through video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the ordinary and special businesses as stated in the Notice convening the AGM. As per the various Circular issued by MCA and SEBI, the Notice of the AGM together with the Annual Report of the Company for the Financial Year 2022-23 has been sent to the Members of the Company by e-mail to their registered e-mail addresses. The Company has completed the mailing of Notice convening the AGM alongwith the aforesaid Annual Report on September 08, 2023.

The Members, who have not registered their e-mail addresses so far, are requested to register their e-mail addresses with their concerned Depository Participant (in respect of shares held in demat form) or with Mas Services Limited, Registrar & Share Transfer Agent (RTA) of the Company (in respect of shares held in physical form).

Members are hereby informed that the notice of the 32nd AGM and the Annual Report of the Company are also available on the Company's website (www.parsvnath.com). Notice of AGM is also available on the e-voting website of National Securities Depository Limited at www.evoting.nsdl.com.

Members are also informed that pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013("the Act") read with the relevant rules made thereunder, as amended from time to time, alongwith Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and the aforesaid Circulars, the Company is providing remote e-voting (prior to the AGM) and e-voting during AGM to its members to cast their votes electronically on the resolutions to be passed at the 32nd AGM. The Members are further informed that the cut-off date for the purpose of ascertaining the members eligible for e-voting facility has been fixed as Friday, September 22, 2023. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on

LIBERTY

For Pakka Limited

FCS No.11111

Sachin Kumar Srivastava

Company Secretary & Legal Head

Sd/-

Any person, who acquire shares and become Member of the Company after the date of electronic dispatch of Notice of 37th AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Saturday, 23rd September, 2023, may obtain the Login ID and Password by following the instructions as mentioned in the Notice of 37th AGM or sending a request at delhi@linkintime.co.in or to the Company at investorcare@libertyshoes.com.

In case the Shareholders have any query or issue regarding e-voting, they can Contact Mr. Raieev Ranian, Asst. vice President, Link Intime India Pvt. Ltd at e-mail id enotices@linkintime.co.in or call on Tel:- 022 - 4918 6000

The above information is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company and is in compliance with the MCA Circulars and SEBI Circular.

By Order of the Board For Liberty Shoes Ltd. Sd/-

Place: Gurugram, Harvana Dated: Friday, 8th September, 2023

financialexp.epapr.in

CS Munish Kakra CFO & Company Secretary M.No. ACS 6262 the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting during AGM

The Members are requested to note that remote e-voting process shall commence on Wednesday, September 27, 2023 at 9:00 a.m. and will remain open upto Friday, September 29, 2023 till 5:00 p.m. Thereafter, the remote e-voting module shall be disabled by NSDL. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he / she / it shall not be allowed to change it subsequently. The Members who have not cast their vote through remote e-voting can exercise their voting rights electronically during AGM. The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM, but shall not be entitled to cast their vote again during AGM

The Company has appointed Mr. Ashok Tyagi (Membership No. F2968, C.P. No. 7322), Practising Company Secretary, New Delhi, as the scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

The detailed procedure/instructions for remote e-voting and e-voting during AGM are contained in the Notice of 32ndAGM.

The remote e-voting facility is available to the members to cast their votes at the following link: www.evoting.nsdl.com or the Member may refer Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call 022-48867000 or 022-24997000 or send a request at evoting@nsdl.co.in,

Any query or grievance in relation to e-voting may be addressed to Mr. Mandan Mishra, Company Secretary, e-mail address: secretarial@parsvnath.com, Address: Parsynath Tower, Near Shahdara Metro Station, Shahdara, Delhi - 110032, Contact No.: 011-43010500 / 43050100.

Any person who becomes a Member after sending the Notice and Annual Report through e-mail but who holds shares as on cut-off date can attend the AGM through VC / OAVM. Such Member can exercise his voting right through remote e-voting or e-voting during AGM and send a requisition for a copy of the Annual Report and Notice convening the AGM through e-mail communication to RTA at investor@masserv.com / Company at secretarial@parsvnath.com, alongwith his / her / its relevant particulars i.e. DP ID & Client ID / Folio No. to obtain User Id and Password for e-voting.

Since the 32nd AGM will be held pursuant to the aforesaid Circulars through VC / OAVM, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Members will not be available.

Notice is also hereby given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Act and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 23, 2023 to Saturday, September 30, 2023 (both days inclusive) for the purpose of 32ndAGM.

> By order of the Board of Directors For Parsynath Developers Limited Sd/-(Mandan Mishra) **Company Secretary & Compliance Officer** Membership No. A14374


Date : September 08, 2023 Place : Delhi











रजिस्ट्रार-दिल्ली के समक्ष

सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा(3) तथा सीमित दायित्व भागीदारी नियमावली 2009 के नियम 17 के मामले में

सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम. 2008 की धारा 13 की उप-धारा(3) तथा

काउण्टरटॉप इंडिया बेवरेज सर्विसेस एलएलपी,

LLPIN:AAT-6238

जिसका पंजीकृत कार्यालय जे-1895, प्रथम तल, सीआर पार्क, नई दिल्ली 110019 में है, के मामले मेंआवेदक

एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "रा.रा. क्षेत्र दिल्ली"से" महाराष्ट्र राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने की स्वीकृति प्राप्त करने के लिये शुक्रवार, 8 सितम्बर, 2023 को आयोजित विनिर्दिष्ट भागीदार की बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार तथा सीमित दायित्व भागी दी अधिनियम, 2008 की धारा 13(3) के अंतर्गत एलएलपी कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 21 (इक्कीस) दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली, 4 था तल, आईएफसीआई टावर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019 के पास जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

जे-1895, प्रथम तल, सीआर पार्क, नई दिल्ली 110019

कुत्ते एवं के लिये, काउण्टरटॉप इंडिया बेवरेज सर्विसेस एलएलपी

हस्ता.⁄

साक्षी सैगल

(विनिर्दिष्ट पार्टनर)

DPIN: 07776483

तिथि : ९ सितम्बर, 2023

स्थान : मुम्बई

लक्ष्मण इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

सीआईएन : U31909DL1962PL0003741 पंजीकृत कार्यालय : 15/1 आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002, इण्डिया दूरभाष : 011-23234846, ई-मेल : laxmangroup@gmail.com

सदस्यों के लिए सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी की 60वीं वार्षिक आम बैठक सोवार, 25 सितम्बर, 2023 को पंजीकृत कार्यालय 15/1, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 पर आयोजित की जानी है और कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 91 के अनुसार वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अन्तरण पुस्तिकाएँ सोमवार, 18 सितम्बर, 2023 से सोमवार, 25 सितम्बर, 2023 (दोनों तिथियाँ शामिल) तक बन्द रहेंगी।

एतदुद्वारा कम्पनी के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की

सार्वजनिक सूचना फॉर्म संख्या. वाईएनसी-28 (कंपनी (निगमन) निवम, 2014 के निवम 30 के अनुसरण में]

क्षेत्रीय निदेशक के समझ उत्तरी क्षेत्र, नई विल्ली

कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 13 की उप-धारा (4), और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (ए) के मामलें में

6

Enter a better life

लाहम एक्सपोद्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (U51909DL2004PTC128786) जिसका पंजीकृत कार्यालय त्ती--108, एन.डी.एस.ई--2, नई दिल्ली--110049 मेंयाचिकाकर्ता है, के मामले में, एतदद्वारा आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि कंपनी केन्द्रीय सरकार के समझ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकत कार्यालय **"राष्टीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी)** विल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए 26 अगस्त, 2023 को आयोजित असाधारण आम समा बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के बहिनियम में संबोधन

की पृष्टि की मांग की गई है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत फॉर्म फाइल कर एमसीए--21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हिंत का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित करके अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से बौदह दिनों के भीतर क्षेत्रीय निवेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, वूसरा फलोर, मं. दीनदयाल अन्त्वोदय भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली- 110003, भारत के पते पर पंजीकत डाक द्वारा भेज सकते हैं या जमा

कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भेज सकते हैं: पंजीकृत कार्यालयः सी–108. एन.वी.एच.ई–2. नई

दिल्ली-110049 कृते और लाहम एक्सपोद्र्स इंडिया प्राइवेट

सिमिटेड की ओर से हस्ता/-स्थानः नई विल्ली मोहम्मद इमरान कुरैश तिथिः 08.09.2023 **निदेशक** DIN: 01334918

पताः ३, काजीवारा खुर्जा, जिला. बुलन्दशहर, खुर्जा-203131, उत्तर प्रवेश, भारत

अभिगतन व्यक्ति

9 सितंबर, 2023 जनसता

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड कार्पोरेट कार्यालय : नंबर 2, डेयर हाउस, प्रथम तल, एन.एस.सी. बोस रोड, चेन्नई-600 001.

शाखा कार्यालय : प्रथम एवं द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 6, मेन पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली—110005 कॉन्टैक्ट नंबर : श्री विनय कुमार गौतम, मोबाइल नंबर 8287233717

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए प्राइवेट ट्रीटी द्वारा बिक्री

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(5)(डी) के तहत प्राइवेट ट्रीटी द्वारा अचल आस्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से कर्जदार/सह–कर्जदार/बंधकदता(ओं) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक निम्नवर्णित अचल सम्पत्तियां, जिनका सांकेतिक/भौतिक कब्जा चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड इसमें आगे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड कही जाएगी, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है। प्रतिभूत आस्तियां "जैसा है जहां है", "जो है जैसा है" तथा "जो भी है वहां हे" आधार पर प्राइवेट ट्रीटी द्वारा बिक्री के माध्यम से बेची जाएंगी। एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि हम अचल सम्पत्ति का बिक्री प्राइवेट ट्रीटी द्वारा बिक्री के माध्यम से करेंगे।

क्र.		संख्या तथा कर्जदार,		धारा 13(2) व		•	सुरक्षित मूल्य, धरो		ई—नीलामी की
सं.		र, बंधकदाताओं का नाम		मांग सूचन तिथि एवं	राशि राग्याराया	का वर्णन	जमा एवं बोली वृति (रू. में)	द्धे राशि	तिथि एवं समय
1.	ऋण खाता सं. X0HEDHE00001 1. राजेश कुमार यादव पुत्र हरपाल fि मकान नंबर 164–पी, सेक्टर 15–2, अन्य पता : राजेश कुमार यादव पुत्र 11, आकाशनीम मार्ग, डीएलएफ फेज 2. रेवती यादव पुत्री प्रमु दयाल मकान नंबर 164–पी, सेक्टर 15–2,	सिंह गुरूग्राम, हरियाणा–122002 हरपाल सिंह ा–।।, गुरूग्राम–122002 गुरूग्राम, हरियाणा–122002	0001239641	24—10—2 रू. 4,95,16,310 कब्जा का भारतव	0.8/- द्वितीय तल, गुरू प्रकार 122002, परिमाप	ग्राम, हरियाण	、 で、60,00,000/ で、15,00,000/	-	20—09—2023 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे तक
	 नीतू यादव पत्नी राजेश कुमार या नीतू यादव पत्नी राजेश कुमार या नीतू यादव पत्नी राजेश कुमार या राजेश कुमार यादव/रेवती यादव श्रीमती सरिता श्रीमती सरोज 	ादव पः ा∕ नीतू यादव पः पः पः	ता : प्लॉट नंबर 6 रोड ता : जे–3/32/डीएलप ता : प्लॉट नंबर 11, आ ता : प्लॉट नंबर 11, आ	नंबर एन 12, उ एफ— , द्वितीय काशनीम मार्ग, काशनीम मार्ग,	2, गुरूग्राम, हरियाणा–122002 डीएलएफ सिटी फेज–।।, गुरूग्राम, । तल, गुरूग्राम, हरियाणा–122002 डीएलएफ फेज–।।, गुरूग्राम–12200 डीएलएफ फेज–।।, गुरूग्राम–12200)2)2			
स्थान	न : दिल्ली, एनसीआर दिनांक	~ ~ ~			2002 के नियम 8(5)(र हस्त	-	ा अधिकारी, चोलामंडल 		ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमि
						(Property Date)			
			NOTICE OF LOS		A Sector sector and a sector sec	्भारताय	ादपाला जार राषिण जवन मना अमाधान प्रतित्राभे तिनि	ता बाड (कापार रामातनी २०१४	रेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध
		Registered C	RIDWELL NO Office: 148, Mahatma	ORTON a Gandhi Roa	LTD. Id, Mumbai-40001	ें अक्ष	मता समाधान प्रक्रिया) विनि गि लैंड डेवलपर्स प्रा ह्	ायमावली, २०१९ चेट लिमिटेः	
	ग़जिरी की द्घोषणा	Registered C NOTICE is hereby given Company has/have be applicant[s] has/have ap Any person who has a c	RIDWELL NO Office: 148, Mahatma in that the certificate[s en lost/misplaced a oplied to the Compan claim in respect of the ts Registered Office	Gandhi Roa a Gandhi Roa a] for the unde nd the holde ty to issue du e said securi within 15 da	LTD. ad, Mumbai-40001 ermentioned securities of the er[s] of the said securities / plicate certificate[s], ties should lodge such claim avs from this date, else the	अक्ष उदाउदा 1. कार्पोरे 2. कार्पोरेट वे 3. प्राधिकरण	मता समाधान प्रक्रिया) विनि रि देंडडिवलपर्स्त प्राह सं बंधि ट देनदार का नाम नदार के निगमन की तिथि (जिसके अधीन कार्पोरेट	विमावली, 2016 वेट लिमिटे त विवरण लवलक्ष्मी लै 13 जून, 19	रेट व्यक्तियों के लिए ऋण शो 3 के विनियम 6 के अधीन] डाको लेनावाची को ज्यापा 1ंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमि
उ देखि	द्घोषणा _{बए}	Registered C NOTICE is hereby given Company has/have be applicant[s] has/have ap Any person who has a c with the Company at it	RIDWELL NO Office: 148, Mahatma in that the certificate[s en lost/misplaced a oplied to the Compan claim in respect of the ts Registered Office	Gandhi Roa a Gandhi Roa a] for the unde nd the holde ty to issue du e said securi within 15 da	LTD. ad, Mumbai-40001 ermentioned securities of the er[s] of the said securities / plicate certificate[s], ties should lodge such claim ays from this date, else the nout further intimation. Distinctive number[s]	अक्ष द्वाराजस्य 1. कार्पोरेट 2. कार्पोरेट 3. प्राधिकरण देनदार नि 4. कार्पोरेट वे	मता समाधान प्रक्रिया) विनि रा दोंड डेवाल पर्त्ता प्राह सं बंधि ट देनदार का नाम नदार के निगमन की तिथि ाजिसके अधीन कार्पोरेट गमित / पंजीकृत है रनदार की कार्पोरेट पहचान	विमावली, 2016 दोट लिमिटे त विवरण लवलक्ष्मी लै 13 जून, 19 रजिस्ट्रार अं	रेट व्यक्तियों के लिए ऋण शो 5 के विनियम 6 के अधीन] डाको लेखाला सो को प्रयाज 15 डेवलपर्स प्राइवेट लिमि 183
उ देखि मेयुक	द्घोषणा	Registered C NOTICE is hereby giver Company has/have be applicant[s] has/have ap Any person who has a c with the Company at it Company will proceed to Name of holder	RIDWELL NO Office: 148, Mahatma in that the certificate[s in lost/misplaced a pplied to the Compan claim in respect of the ts Registered Office o issue duplicate cert Kind of Securities	Gandhi Roa a Gandhi Roa a) for the unde nd the holde ty to issue du e said securi within 15 da tificate[s] with No. of	LTD. ad, Mumbai-40001 ermentioned securities of the er[s] of the said securities / plicate certificate[s]. ties should lodge such claim ays from this date, else the nout further intimation. Distinctive number[s]	अक्ष दिखादादाय 1. कार्पोरेट वे 3. प्राधिकरण देनदार नि 4. कार्पोरेट वे संख्या / र	मता समाधान प्रक्रिया) विनि दिंडि डेवाल पर्स्त प्राह सं बंधि ट देनदार का नाम नवार के निगमन की तिथि ाजिसके अधीन कार्पोरेट गमित / पंजीकृत है	विमावली, 2016 दोटा लिमिटे त विवरण लवलक्ष्मी लै 13 जून, 19 रजिस्ट्रार अं U45201UP पंजीकृत कार	रेट व्यक्तियों के लिए ऋण शो 5 के विनियम 8 के अधीन] उदने चेनवारों को प्याना 15 डेवलपर्स प्राइवेट लिमि 983 ॉफ कम्पनीज, कानपुर

एतद्द्वारी कम्पनी के सदस्यों की सूचित किया जाती है कि कम्पनी आधानयम, 2013 की धारी 108 तथा अन्य प्रयोज्य प्रावधानों, कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) संशोधन नियम,	अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की	Company has/have been lost/misplaced and the holder[s] of the said securities / applicant[s] has/have applied to the Company to issue duplicate certificate[s].	1. कार्पो रेट देनदार का नाम लवलक्ष्मी लैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
2014 के नियम 20 के अनुसार कम्पनी ने इस वार्षिक आम बैठक की सूचना भेजे जाने का	अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा	Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the Company at its Registered Office within 15 days from this date, else the	 कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, कानपुर
कार्य सोमवार, 25 सितम्बर, 2023 को पूरा कर लिया है, कम्पनी इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा		Company will proceed to issue duplicate certificate[s] without further intimation.	३. प्राधकरणाजसंकअधानकापारट राजस्ट्रार आफ कम्पनाज, कानपुर देनदारनिगमित∕पंजीकृतहै
60वीं वार्षिक आम बैठक में प्रस्तावित होने वाले सभी संकल्पों पर अपना मताधिकारों के	धारा 82 Cr, P, C, देखिए	Name of holder Kind of Securities No. of Distinctive number[s] and Jt. holder and face value Securities From to	4. कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान U45201UP1983PTC111850
उपयोग करने तथा एजीएम स्थल के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग	मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त आशीष पुत्र अविनाश,	Ganesh Das Katyal Physical and 400 55427593 - 55427992	संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या 5. कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा पंजीकृत कार्यालयः 57—58 पटेल नगर कॅंट
सिस्टम (''रिमोट ई–वोटिंग'') का प्रयोग करते हुए सदस्यों द्वारा मतदान करने की सुविधा	निवासी L-216, कैम्प नंबर 3, नांगलोई, दिल्ली। ने FIR	Rs.5 face value	प्रधान कार्यालय (यदिकोई) का पता नादर वाराणसी, यू.पी.–221002
सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।	No.752/21 U/s 356/379/411 IPC., के अंतर्गत थानाः नांगलोई,	Date : 09.09.2023 Name of holder/ Applicant Place : R-175, Greater Kailash, Delhi-110048 Puneet Katyal	 कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध 01 सितंबर, 2023
 सदस्यों के रजिस्टर तथा शेयर अन्तरण रजिस्टर 18 सितम्बर, 2023 से 25 सितम्बर, 2023, दोनों तिथियाँ शामिल, तक बन्द रहेंगे। 	दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने		अक्षमता आरंभन तिथि (आदेश 06 सितंबर 2023 को प्राप्त हुआ) 7. ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के 28 फरवरी, 2024
• रिमोट ई-वोटिंग अवधि 22 सितम्बर, 2023 को 9.00 बजे पूर्वा. से प्रारम्भ होगी और	किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट को यह लिख	मर्यादा कॉमर्शियल एंटरप्राइजेज ऐंड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड	 ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के 28 फरवरी, 2024 समापन की पूर्वानुमानित तिथि
24 सितम्बर, 2023 को 5 बजे अप. समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान कट–ऑफ	कर लौटा दिया गया है कि उक्त आशीष मिल नही रहा है और मुझे	पंजी. कार्यालय : 106, (प्रथम तल), मधुबन टावर, ए-1, वी.एस. ब्लॉक, राकरपुर क्रॉसिंग, नई दिल्ली-110092	8 अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में सीए (आई पी) राकेश जिंदल
तिथि अर्थात 18 सितम्बर, 2023 तक भौतिक प्रारूप या अभौतिक प्रारूप में शेयर धारण	समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त आशीष फरार	फोन : 91.11.49901667 वेबसाइट : www.maryadainvestment.in	कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल पंजी. सं.:IBBI/IPA-001/IP-P00375/2017-18/10632 का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर
करने वाले कम्पनी के शेयरधारक अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकते हैं।	हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने	सीआईएन : L65993DL1982PLC013738	 अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और पंजीकृत पताः II/E-64 नेहरू नगर, गाजियाबाद, यू.पी.
इसके पश्चात सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जायेगा और 24	आपको छिपा रहा है)	सूचना	ई—मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है ईमेल :ca.rakeshjindal@gmail.com
सितम्बर, 2023 को 5.00 बजे अप. के उपरान्त ई−वोटिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी।	इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि FIR No.752/21	यह सूचना दी जाती है कि कम्पनी की 41वीं एजीएम (वार्षिक सामान्य बैठक) शनिवार, 30 सितम्बर, 2023 को अप. 4.30 बजे, सूचना में सूचीबद्ध साधारण और विशेष व्यवसाय के निष्पादन हेतु, कार्पोरेट	10. अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पंजीकृत पताः II/E-64 नेहरू नगर, गाजियाबाद, यू.पी.
सदस्य द्वारा किसी संकल्प पर एक बार मतदान कर लेने पर बाद में इसमें परिवर्तन की	U/s 356/379/411 IPC., थानाः नांगलोई, दिल्ली के उक्त अभियुक्त	मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी जनरल	पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई—मेल ईमेल : cirp.lavlaxmi@gmail.com
अनुमति नहीं होगी।	आशीष से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या	सर्कुलर नंबर 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021 तथा 21/2021 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 08 दिसम्बर, 2021, 14 दिसम्बर,	12 अंतरिम समाधानप्रोपेशनल द्वाराधारा 21 की कछ नही
 सदस्यों के मताधिकार कट-ऑफ तिथि 18 सितम्बर, 2023 तक कम्पनी प्रदत्त शेयर पूँजी के उनके शेयरों के अनुपात में होंगे। 	मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 13.10.2023	अप्रेल, 2020, 13 अप्रेल, 2020, 5 मंइ, 2020, 13 जनवरा, 2021, 08 दिसम्बर, 2021, 14 दिसम्बर, 2022, 2021 तथा 5 मई, 2022 और तदनुवर्ती सर्कुलर नंबर 10 / 2022 दिनांकित 28 दिसम्बर, 2022 (सामूहिक	4 उप–धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत
पूर्णा के उनके शयरा के अनुपात में होगे। ● कोई व्यक्ति जो कम्पनी के शेयर अर्जित करता है और सूचना भेजे जाने के उपरान्त	को या इससे पहले हाजिर हो। आदेशानुसार	रूप से "एमसीए सर्कुलर्स" कहे गए हैं) तथा सेबी सर्कुलर नंबर सेबी/एचओ/सीएफडी	अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई ^{13,} किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के लागू नहीं
कम्पनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ अर्थात 18 सितम्बर, 2023 तक शेयर	श्री शभम देवदिया, (Ld. MM),	/पीओडी–2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांकित 5 जनवरी, 2023 एवं अन्य सभी लागू सर्कुलर्स के अनुपालन में वीडियो कॉन्फ्रेन्स अथवा अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित	रेण किसी अंगी न लगवारी के आवकृत प्रतिनिध के लिग गूनाह। रूप में कार्य करने हेतु बिहिनत ऋण शोध अक्षमता
धारण करता है, वह कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेन्ट, अलंकित	DP/9742/OD/2023 कमरा नंबर 336, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली	की जाएगी।	प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)
एसाइनमेंट्स लिमिटेड के पास लिखें या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर		उपरिवर्णित सर्कुलर्स के अनुसरण में, एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु वार्षिक रिपोर्ट,	14. (क) संबंधित प्रपन्न और (क) वेब लिंक: https://ibbi.gov.in/home/downloads. (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण (ख) लागू नही
ई-मेल भेजें।	SMFG SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED	केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा उन सदस्यों को भेजी जाएंगी, जिनकी ई–मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट्स के पास पंजीबद्ध है। कम्पनी अपने सभी सदस्यों को पूर्व की भांति	यहां उपलेख है:
● एजीएम के दौरान बैलट पेपर के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी	IndiaCredit (formerly Fullerton India Credit Company Limited) निगमित कार्यालय : 10वां तल, कार्यालय सं. 101, 102 एवं 103, 2 नॉर्थ एवेन्यु.	ई–वोटिंग तथा रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध करा रही है।	एतदहारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण ने दिनांक 01 सितबर, 2023 को लवलक्ष्मी लैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है।
और बैठक में भाग लेने वाले वे सदस्य जिन्होंने ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान नहीं किया	मेकर मैक्सिटी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.), मुंबई–400051	यदि आपकी ई—मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी के पास पहले से पंजीबद्ध है, तो एजीएम की सूचना,	(आदेश 06 सितंबर 2023 को प्राप्त हुआ)
है वे बैलट पेपर के माध्यम से बैठक में अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे।	अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु)	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु वार्षिक रिपोर्ट और ई–वोटिंग के लिए लॉगइन विवरण आपके पंजीकृत ई–मेल पते पर भेजा जाएगा। यदि आपने अपनी ई–मेल आईडी कम्पनी ⁄ डिपॉजिटरी के पास पंजीबद्ध	लवलस्मी लैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्वारा अपने दावों का प्रमाण 20 सितबर 2023 को
● जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर लिया है वे भी	[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 (1) के अंतर्गत] जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (पूर्ववर्ती फुलरटन इंडिया	नहीं कराई है, तो वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु वार्षिक रिपोर्ट और ई–वोटिंग के लिए लॉगइन विवरण	अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है ।
एजीएम में भाग ले सकेंगे किन्तु वे पुनः मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।	क्रेडिट कंपनी लिमिटेड), जिसका पंजीकृत कार्यालय ः मेघ टॉवर्स, तृतीय तल, पुरानी सं. 307, नई सं.	प्राप्त करने के लिए कृपया उसके पंजीकरण हेतु निम्नवर्णित अनुदेशों का पालन करें :	वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार
 संवीक्षक की रिपोर्ट सहित घोषित परिणाम चेयरमैन या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा लिखित में परिणाम घोषित करने के तुरन्त बाद सीडीएसएल की वेबसाइट पर अपलोड 	165, पूनामलाई हाई रोड मदुरावोयल, चेन्नई, तमिल नाडु–600095 तथा कॉर्पोरेट कार्यालय : 10वां तल, कार्यालय सं. 101, 102 एवं 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, मार्किट मैक्सिटी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.),	कृपया, ई—मेल पता पंजीकृत करवाने हेतु, कम्पनी के रजिस्ट्रार ऐंड ट्रांसफर एजेन्ट्स,	अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों प्रस्तुत कर सकते हैं। दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी ।
ालाखत में परिणाम धाषित करने के तुरन्त बाद साडाएसएल का वबसाइट पर अपलाड कर दिये जायेंगे।	मुंबई-400051 में स्थित है, के प्राधिकृत अधिकारों के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं	स्काईलाइन फाइनैंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को admin@skylinerta.com भौतिक पर एक अनुरोध पत्र, फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम के उल्लेख, शेयर प्रमाणपत्र	दाव के फंजा अथवा ग्रामक प्रमाण का प्रस्तुति दढना व होगा । सीए (आईपी) राकेश जिंदल अंतरिम समाधान प्रोफेशनल, लवलक्ष्मी लैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
कर ।दय जायग । रिमोट ई–वोटिंग से सम्बन्धित किसी पूछताछ⁄शिकायत के लिए सम्पर्क करें :	पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित	धारण की स्कैन की गई प्रति (फ्रंट और बैंक), पैन (पैन कार्ड की स्कैन की गई स्व सत्यापित	दिनांक : 09.09.2023 पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-001/IP-P00375/2017-18/10632
श्री वेनसेसलौस फुर्तादो, उपप्रबन्धक, सीडीएसएल, 16वीं मंजिल, पी.जे. टॉवर्स, दलाल	(प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, मांग सूचना दिनांकित 07–06–2023 निर्गत की थी, जिसमें उधारकर्ता(ओं) : (1) टूल टेक	प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्कैन की गई स्व सत्यापित प्रति) के साथ भेजें। कृपया उसको 23–09–2023 को अथवा पूर्व अद्यतन करवाएं।	स्थानः गाजियाबाद एएफए: AA1/10632/02/180624/105825 वैधताः 18 जून 2024 तक
स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई-400001, ई-मेल : helpdesk.evoting@cdslindia.com,	इंडस्ट्रीज, (2) करम चंद, 3) अनीता चंदेल, ऋण खाता संख्या(यें) 212220910731875 के अंतर्गत, सूचना	कृपया उसका 23–09–2023 का अथवा पूर्व अद्यतन करवाए। कृपया डीमैट खाता विवरण (सीडीएसएल–16 डिजिट लाभार्थी आईडी अथवा	शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड
सम्पर्क नं. : 18002005533.	में अंकित राशि रु. 25,78,532.63/- (रुपये पच्चीस लाख अट्ठहत्तर हजार पांच सौ बत्तीस एवं तिरेसठ पैसे मात्र) का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभूगतान करने को कहा	अमौतिक एनएसडीएल–16 डिजिट डीपीआईडी + सीएलआईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर अथवा	पंजीकृत कार्यालय : 501, सालकॉन ऑरम, जसोला जनपद केंद्र, नई दिल्ली — 110025
कृते लक्ष्मण इण्डस्ट्रीज लिमिटेड –	नत्त नात्र) प्य, जपत त्तूयना का प्राप्त का ताथ स 60 दिवसा के अदर प्रातभुगताने करने का कहा गया था।	धारण समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्कैन की गई स्व सत्यापित प्रति),	सीआईएन : यू६५९००डीएल२०२०भीएलसी३६६०२७
<u></u>	चूंकि ऋणकर्ता(गण) निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा	आधार (आधार कार्ड की स्कैन की गई स्व सत्यापित प्रति) उपलब्ध कराएं। कृपया उसको 23–09–2023 को अथवा पूर्व अद्यतन करवाएं।	पर्जीकृत डाक ए/डी एव स्पीड पोस्ट/कूरियर/ई-मेल वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा
तिथि : 09 सितम्बर, 2023 अशोक कुमार अग्रवाल हर्ष अग्रवाल स्थान : नई दिल्ली (निदेशक) (निदेशक)	ऋणकर्ता(ओं) को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त		प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनिंगम 2002 की धारा 13(2)
स्थान : नई दिल्ली (निदेशक) (निदेशक)	अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, 05 सितंबर	एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.maryadainvestment.in पर तथा स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट www.msei.in	के अंतर्गत मांग सूचना
	2023 को, सांकेतिक अधिग्रहण कर लिया है। ऋणकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है	पर भी उपलब्ध होंगी। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले	दिनांक : 11–08–2023 1. स्वर्गीय सुधीर कुमार पुत्र श्री धर्मपाल सिंह अपने कानूनी उत्तराधिकारियों (उधारकर्ता) निवासी मकान
10	क संपत्ति का लेग-देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेग-देन.	सदस्यों की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत गणपूर्ति के प्रयोजनार्थ	नंबर 111, नूर नगर–1, सिहानी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201001 के माध्यम से
	रु. 25,78,532.63/- (रुपये पच्चीस लाख अट्ठहत्तर हजार पांच सौ बत्तीस एवं तिरेसठ पैसे मात्र) की	की जाएगी। शेयरधारकों को आगे सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ	2. श्रीमती मुनेश देवी पत्नी स्व. सुधीर कुमार (कानूनी उत्तराधिकारी) निवासी मकान नंबर 111, नूर नगर–1, सिहानी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201001
🖉 🐂 पीसी ज्वैलर लिमिटेड	एक राशि तथा राशि पर ब्याज हेतु एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (पूर्ववर्ती फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड) के प्रभाराधीन होगा।	पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014, समय समय पर संशोधित, के नियम	3. श्री अंकित कुमार पुत्र स्वर्गीय सुधीर कुमार (कानूनी उत्तराधिकारी)
	ऋणकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों को ऋणमुक्त कराने के उद्देश्य से उपलब्ध समय के संदर्भ	10 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम	निवासी मकान नंबर 111, नूर नगर–1, सिंहानी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201001
ि ि ि ि े कोन: 011-49714971, फैक्स: 011-49714972,	में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।	42 के अनुसरण में सदस्यों की पंजिका तथा शेयर अंतरण बहियां दिनांक 24 सितम्बर, 2023 से 30 सितम्बर, 2023 तक (दोनों तिथियों सहित) वीडियो कॉन्फ्रेन्स अथवा अन्य ऑडियो	4. श्री आकाश कुमार पुत्र स्वर्गीय सुधीर कुमार (कानूनी उत्तराधिकारी) निवासी मकान नंबर 111, नूर नगर–1, सिहानी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201001
ई—गेलः info@pcjeweller.com, वेवसाइटः www.pcjeweller.com निगमित प्रहचान संख्याः L36911DL2005PLC134929	अचल संपत्ति का विवरण : संपत्ति सं. भू तल (टेरेस अधिकार के बिना), संपत्ति नगर पालिका सं. 74–ए के समस्त वह भाग तथा अंश जो गली सं. 2 (अर्थात् 2 ⁄ 74–ए), भूखंड सं. 346 व 347 पर	विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से शनिवार, 30 सितम्बर, 2023 को अप. 4.30 बजे	5. श्री दीपक कुमार पुत्र स्वर्गीय सुधीर कुमार (कानूनी उत्तराधिकारी)
1-14144 4841: L36911DL2005PLC134929	निर्मित, भूमि क्षेत्र मापन 69.5 वर्ग गज, खसरा सं. 550 / 431 / 164 मिन., पुराना पेशावर नगर, ग्राम	आयोजनार्थ निर्धारित कम्पनी की 41वीं वार्षिक सामान्य बैठक के प्रयोजनार्थ बंद रहेंगी।	निवासी मकान नंबर 111, नूर नगर–1, सिंहानी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201001
18वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और	धीरपुर की क्षेत्र में, जिसे वर्तमान में निरंकारी कॉलोनी के नाम से जाना जाता है, दिल्ली–110009 में स्थित है।	वास्ते मर्यादा कॉमर्शियल एंटरप्राइजेज ऐंड इब्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड	6. श्री विकास कुमार पुत्र स्वर्गीय सुधीर कुमार (कानूनी उत्तराधिकारी) निवासी मकान नंबर 111, नूर नगर–1, सिहानी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201001
रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी	ास्थत है। इस्ता./— प्राधिकृत अधिकारी,	हस्ता./- स्थान : दिल्ली (सती नाथ दास)	7. स्वर्गीय धर्मपाल सिंह पुत्र श्री तेज राम इसके कानूनी उत्तराधिकारी
एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कॉपोरेंट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक	स्थान : दिल्ली, एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड	तिथि : 07-09-2023 निदेशक	(सह—उधारकर्ता ∕ बंधककर्ता) के माध्यम से निवासी मकान नंबर 111, नूर नगर—1, सिहानी गाजियाबाद यूपी 201001
28 दिसंबर, 2022 (इस संबंध में पहले जारी किए गए परिपत्रों के क्रम में) (इसके बाद 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के लाग प्रावधानों और उसके	दिनांक : 09-09-2023 (पूर्ववर्ती फुलरटन इंडिया क्रेडिट कं. लि.)		8. श्री श्री ओम पुत्र स्वर्गीय धर्म पाल सिंह (कानूनी उत्तराधिकारी)
। के रूप में संदामते के साथ पाठत केपना आवानवमें. 2015 (आवानवमें) के लोग प्राववानी और उसके			निवासी मकान नंबर 111, नुर नगर–1, सिहानी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201001
	(a) COONINCY ग्राटलक रंटिंगा लिमिटेट	। " भी जी " NATIONAL GENERAL INDUSTRIES LTD.	
तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के अनुपालन में 18वीं एजीएम के नोटिस ('एजीएम नोटिस') में निर्दिष्ट	🖉 G CODLUCK गुडलक इंडिया लिमिटेड	" গা জা " NATIONAL GENERAL INDUSTRIES LTD. CIN No.: L74899DL1987PLC026617	9. श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री पारस नाथ श्रीवास्तव (गारंटर) निवासी मकान नं. 10, सादिक नगर, सिहानी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201001
तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015	रजि. कार्यालयः 509, अरुणाचल बिल्डिंग, बाराखंभा रोड,	CIN No.: L74899DL1987PLC026617 Regd. Office : 3rd Floor, Surya Plaza, K-185/1, Sarai Julena, New Friends Colony, New Delhi – 110025, E-mail : cs@modisteel.net,	9. श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री पारस नाथ श्रीवास्तव (गारंटर) निवासी मकान नं. 10, सादिक नगर, सिंहानी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201001 श्री / श्रीमती,
तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (' सूचीबद्धता विनियम ') के अनुपालन में 18वीं एजीएम के नोटिस (' एजीएम नोटिस') में निर्दिष्ट व्यवसाय को संचालित करने के लिए पीसी ज्वैलर लिमिटेड ('कंपनी') की 18वीं वार्षिक आम बैठक (' एजीएम ') शनिवार, 30 सितंबर, 2023 को सुबह 11:00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग	रजि. कार्यालयः 509, अरुणाचल बिल्डिंग, बाराखंमा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली—110001 वेबसाइटः www.goodluckindia.com, ई—मेलः goodluck@goodluckindia.com	CIN No.: L74899DL1987PLC026617 Regd. Office : 3rd Floor, Surya Plaza, K-185/1, Sarai Julena, New Friends Colony, New Delhi – 110025, E-mail : cs@modisteel.net, Website : www.modisteel.com Phone : 011-49872442, 19.	 9. श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री पारस नाथ श्रीवास्तव (गारंटर) निवासी मकान नं. 10, सादिक नगर, सिहानी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201001 श्री / श्रीमती, यह, आपके ऋण खाता संख्या – 100741007316 के संदर्भ में है।
तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के अनुपालन में 18वीं एजीएम के नोटिस ('एजीएम नोटिस') में निर्दिष्ट व्यवसाय को संचालित करने के लिए पीसी ज्वैलर लिमिटेड ('कंपनी') की 18वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शनिवार, 30 सितंबर, 2023 को सुबह 11:00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधन ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी।	रजि. कार्यालयः 509, अरुणाचल बिल्डिंग, बाराखंभा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली—110001 वेबसाइटः www.goodluckindia.com, ई—मेलः goodluck@goodluckindia.com सीआईएन : L74899DL1986PLC050910	CIN No.: L74899DL1987PLC026617 Regd. Office : 3rd Floor, Surya Plaza, K-185/1, Sarai Julena, New Friends Colony, New Delhi – 110025, E-mail : cs@modisteel.net, Website : www.modisteel.com Phone : 011-49872442, 19. NOTICE OF 37th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION	9. श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री पारस नाथ श्रीवास्तव (गाएंटर) निवासी मकान नं. 10, सादिक नगर, सिहानी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201001 श्री / श्रीमती, यह, आपके ऋण खाता संख्या – 100741007316 के संदर्भ में है। इनके नाम से खाता है स्वर्गीय सुधीर कुमार
तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के अनुपालन में 18वीं एजीएम के नोटिस ('एजीएम नोटिस') में निर्दिष्ट व्यवसाय को संचालित करने के लिए पीसी ज्वैलर लिमिटेड ('कंपनी') की 18वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शनिवार, 30 सितंबर, 2023 को सुबह 11:00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधन ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 5 जनवरी,	रजि. कार्यालयः 509, अरुणाचल बिल्डिंग, बाराखंमा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली—110001 वेबसाइटः www.goodluckindia.com, ई—मेलः goodluck@goodluckindia.com सीआईएन : L74899DL1986PLC050910 37वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, बुक क्लोजर और	CIN No.: L74899DL1987PLC026617 Regd. Office : 3rd Floor, Surya Plaza, K-185/1, Sarai Julena, New Friends Colony, New Delhi – 110025, E-mail : cs@modisteel.net, Website : www.modisteel.com Phone : 011-49872442, 19. NOTICE OF 37th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OVAM") on	 9. श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री पारस नाथ श्रीवास्तव (गारंटर) निवासी मकान नं. 10, सादिक नगर, सिहानी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201001 श्री / श्रीमती, यह, आपके ऋण खाता संख्या – 100741007316 के संदर्भ में है।
तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के अनुपालन में 18वीं एजीएम के नोटिस ('एजीएम नोटिस') में निर्दिष्ट व्यवसाय को संचालित करने के लिए पीसी ज्वैलर लिमिटेड ('कंपनी') की 18वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शनिवार, 30 सितंबर, 2023 को सुबह 11:00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधन ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी।	रजि. कार्यालयः 509, अरुणाचल बिल्डिंग, बाराखंभा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 वेबसाइटः www.goodluckindia.com, ई–मेलः goodluck@goodluckindia.com सीआईएन : L74899DL1986PLC050910 37वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, बुक क्लोजर और रिमोट ई–वोटिंग की जानकारी	CIN No.: L74899DL1987PLC026617 Regd. Office : 3rd Floor, Surya Plaza, K-185/1, Sarai Julena, New Friends Colony, New Delhi – 110025, E-mail : cs@modisteel.net, Website : www.modisteel.com Phone : 011-49872442, 19. NOTICE OF 37th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OVAM") on Saturday, 30th September, 2023 at 01.30 PM, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities	9. श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री पारस नाथ श्रीवास्तव (गारंटर) निवासी मकान नं. 10, सादिक नगर, सिहानी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201001 श्री / श्रीमती, यह, आपके ऋण खाता संख्या – 100741007316 के संदर्भ में है। इनके नाम से खाता है स्वर्गीय सुधीर कुमार ऋण खाता सं.: 100741007316
तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के अनुपालन में 18वीं एजीएम के नोटिस ('एजीएम नोटिस') में निर्दिष्ट व्यवसाय को संचालित करने के लिए पीसी ज्वैलर लिमिटेड ('कंपनी') की 18वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शनिवार, 30 सितंबर, 2023 को सुबह 11:00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधन ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के साथ एजीएम नोटिस केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक	रजि. कार्यालयः 509, अरुणाचल बिल्डिंग, बाराखंमा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली—110001 वेबसाइटः www.goodluckindia.com, ई—मेलः goodluck@goodluckindia.com सीआईएन : L74899DL1986PLC050910 37वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, बुक क्लोजर और	CIN No.: L74899DL1987PLC026617 Regd. Office : 3rd Floor, Surya Plaza, K-185/1, Sarai Julena, New Friends Colony, New Delhi – 110025, E-mail : cs@modisteel.net, Website : www.modisteel.com Phone : 011-49872442, 19. NOTICE OF 37th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OVAM") on Saturday, 30th September, 2023 at 01.30 PM, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 read with General Circular No. dated April 8, 2020,	9. श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री पारस नाथ श्रीवास्तव (गाएंटर) निवासी मकान नं. 10, सादिक नगर, सिंहानी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201001 श्री / श्रीमती, यह, आपके ऋण खाता संख्या – 100741007316 के संदर्भ में है। इनके नाम से खाता है स्वर्गीय सुधीर कुमार ऋण खाता सं: 100741007316 इस तिथि को एनपीए घोषित 28–07–2023
तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के अनुपालन में 18वीं एजीएम के नोटिस ('एजीएम नोटिस') में निर्दिष्ट व्यवसाय को संचालित करने के लिए पीसी ज्वैलर लिमिटेड ('कंपनी') की 18वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शनिवार, 30 सितंबर, 2023 को सुबह 11:00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधन ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के साथ एजीएम नोटिस केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भेजा गया है जिनके ई-मेल पता डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ('डीपी')/कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट-केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('केफिनटेक') के साथ पंजीकृत है। कंपनी ने 7 सितंबर 2023 को इनका डिस्पैच पूरा कर लिया है। ये कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं और	रजि. कार्यालयः 509, अरुणाचल बिल्डिंग, बाराखंभा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 वेबसाइटः www.goodluckindia.com, ई–मेलः goodluck@goodluckindia.com सीआईएन : L74899DL1986PLC050910 37वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, बुक क्लोजर और रिमोट ई–वोटिंग की जानकारी एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि गुडलक इंडिया लिमिटेड के सदस्यों की 37वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शनिवार, 30 सितंबर 2023 पूर्वाह्न 11:00 बजे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/ अन्य ऑडियो वें विजुअल माध्यम ("ओएवीएम") के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों,सेबी (सूचीबद्धता दायित्व	CIN No.: L74899DL1987PLC026617 Regd. Office : 3rd Floor, Surya Plaza, K-185/1, Sarai Julena, New Friends Colony, New Delhi – 110025, E-mail : cs@modisteel.net, Website : www.modisteel.com Phone : 011-49872442, 19. NOTICE OF 37th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OVAM") on Saturday, 30th September, 2023 at 01.30 PM, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 read with General Circular No. dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, 8th December, 2021, 14th December,	9. श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री पारस नाथ श्रीवास्तव (गारंटर) निवासी मकान नं. 10, सादिक नगर, सिंहानी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201001 श्री / श्रीमती, यह, आपके ऋण खाता संख्या – 100741007316 के संदर्भ में है। इनके नाम से खाता है स्वर्गीय सुधीर कुमार ऋण खाता सं: 100741007316 इस तिथि को एनपीए घोषित 28–07–2023 संस्वीकृत ऋण सुविधायें पीएल–एलएपी–टीएल
तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के अनुपालन में 18वीं एजीएम के नोटिस ('एजीएम नोटिस') में निर्दिष्ट व्यवसाय को संचालित करने के लिए पीसी ज्वैलर लिमिटेड ('कंपनी') की 18वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शनिवार, 30 सितंबर, 2023 को सुबह 11:00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधन ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के साथ एजीएम नोटिस केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भेजा गया है जिनके ई-मेल पता डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ('डीपी')/कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट-केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('केफिनटेक') के साथ पंजीकृत है। कंपनी ने 7 सितंबर 2023 को इनका डिस्पैच पूरा कर लिया है। ये कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं और लिंक https://corporate.pcjeweller.com/annual-report/ के साथ-साथ बीएसई लिमिटेड,	रजि. कार्यालयः 509, अरुणाचल बिल्डिंग, बाराखंभा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 वेबसाइटः www.goodluckindia.com, ई–मेलः goodluck@goodluckindia.com सीआईएन : L74899DL1986PLC050910 37वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, बुक क्लोजर और रिमोट ई–वोटिंग की जानकारी एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि गुडलक इंडिया लिमिटेड के सदस्यों की 37वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शनिवार, 30 सितंबर 2023 पूर्वाह्न 11:00 बजे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो वें विजुअल माध्यम ('ओएवीएम'') के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों,सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	CIN No.: L74899DL1987PLC026617 Regd. Office : 3rd Floor, Surya Plaza, K-185/1, Sarai Julena, New Friends Colony, New Delhi – 110025, E-mail : cs@modisteel.net, Website : www.modisteel.com Phone : 011-49872442, 19. NOTICE OF 37th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OVAM") on Saturday, 30th September, 2023 at 01.30 PM, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 read with General Circular No. dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, 8th December, 2021, 14th December, 2021, May 5, 2022 and 28th December, 2022 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as	9. श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री पारस नाथ श्रीवास्तव (गाएंटर) निवासी मकान नं. 10, सादिक नगर, सिंहानी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201001 श्री / श्रीमती, यह, आपके ऋण खाता संख्या – 100741007316 के संदर्भ में है। इनके नाम से खाता है स्वर्गीय सुधीर कुमार ऋण खाता सं: 100741007316 इस तिथि को एनपीए घोषित 28–07–2023 संस्वीकृत ऋण सुविधायें पीएल-एलएपी–टीएल संस्वीकृत तराशि रु. 17,00,000 / - (रुपये सत्रह लाख मात्र) बकाया / पेऑफ राशि रु. 17,75,000 / - (रुपये सत्रह लाख पिचहत्तर हजार मात्र)
तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के अनुपालन में 18वीं एजीएम के नोटिस ('एजीएम नोटिस') में निर्दिष्ट व्यवसाय को संचालित करने के लिए पीसी ज्वैलर लिमिटेड ('कंपनी') की 18वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शनिवार, 30 सितंबर, 2023 को सुबह 11:00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधन ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के साथ एजीएम नोटिस केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भेजा गया है जिनके ई-मेल पता डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ('डीपी')/कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट-केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('केफिनटेक') के साथ पंजीकृत है। कंपनी ने 7 सितंबर 2023 को इनका डिस्पैच पूरा कर लिया है। ये कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं और लिंक https://corporate.pcjeweller.com/annual-report/ के साथ-साथ बीएसई लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और केफिनटेक की वेबसाइट	रजि. कार्यालयः 509, अरुणाचल बिल्डिंग, बाराखंभा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 वेक्साइटः www.goodluckindia.com, ई–मेलः goodluck@goodluckindia.com सीआईएन : L74899DL1986PLC050910 37वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, बुक क्लोजर और रिमोट ई–वोटिंग की जानकारी एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि गुडलक इंडिया लिमिटेड के सदस्यों की 37वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शनिवार, 30 सितंबर 2023 पूर्वाह्न 11:00 बजे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी'')/ अन्य ऑडियो वें विजुअल माध्यम ("ओएवीएम") के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों,सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य नंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं.10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022के साथ पठित दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 08 दिसंबर, 2021, 14 दिसंबर, 2021 और 05 मई, 2022 के	CIN No.: L74899DL1987PLC026617 Regd. Office : 3rd Floor, Surya Plaza, K-185/1, Sarai Julena, New Friends Colony, New Delhi – 110025, E-mail : cs@modisteel.net, Website : www.modisteel.com Phone : 011-49872442, 19. NOTICE OF 37th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OVAM") on Saturday, 30th September, 2023 at 01.30 PM, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 read with General Circular No. dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, 8th December, 2021, 14th December, 2021, May 5, 2022 and 28th December, 2022 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business as set out in the Notice of AGM. Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM or view the live webcast	9. श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री पारस नाथ श्रीवास्तव (गाएंटर) निवासी मकान नं. 10, सादिक नगर, सिंहानी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201001 श्री / श्रीमती, यह, आपके ऋण खाता संख्या – 100741007316 के संदर्भ में है। इनके नाम से खाता है स्वर्गीय सुधीर कुमार ऋण खाता सं: 100741007316 इस तिथि को एनपीए घोषित 28–07–2023 संस्वीकृत ऋण सुविधायें पीएल–एलएपी–टीएल संस्वीकृत राशि रु. 17,00,000 / – (रुपये सन्नह लाख मान्न) बकाया / पेऑफ राशि रु. 17,75,000 / – (रुपये सन्नह लाख पिचहत्तर हजार मान्न) उपरोक्त खातों को नोएडा–18 स्थित शाखा से प्राप्त संस्वीकृति पत्र के माध्यम से रु. 17,00,000 / –
तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के अनुपालन में 18वीं एजीएम के नोटिस ('एजीएम नोटिस') में निर्दिष्ट व्यवसाय को संचालित करने के लिए पीसी ज्वैलर लिमिटेड ('कंपनी') की 18वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शनिवार, 30 सितंबर, 2023 को सुबह 11:00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधन ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के साथ एजीएम नोटिस केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भेजा गया है जिनके ई-मेल पता डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ('डीपी')/कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट-केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('केफिनटेक') के साथ पंजीकृत है। कंपनी ने 7 सितंबर 2023 को इनका डिस्पैच पूरा कर लिया है। ये कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं और लिंक https://corporate.pcjeweller.com/annual-report/ के साथ-साथ बीएसई लिमिटेड,	रजि. कार्यालयः 509, अरुणाचल बिल्डिंग, बाराखंभा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 वेबसाइटः www.goodluckindia.com, ई–मेलः goodluck@goodluckindia.com सीआईएन : L74899DL1986PLC050910 37वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, बुक क्लोजर और रिमोट ई–वोटिंग की जानकारी एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि गुडलक इंडिया लिमिटेड के सदस्यों की 37वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शनिवार, 30 सितंबर 2023 पूर्वाह्न 11:00 बजे, वीडियो कॉन्फ्रोंसेंग ('वीसी'') / अन्य ऑडियो वें विजुअल माध्यम (''ओएवीएम'') के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों,सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं.10 / 2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022के साथ पठित दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 08 दिसंबर, 2021, 14 दिसंबर, 2021 और 05 मई, 2022 के परिपत्र और सेबी परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021,13 मई, 2022 और 05 जनवरी, 2023 के	CIN No.: L74899DL1987PLC026617 Regd. Office : 3rd Floor, Surya Plaza, K-185/1, Sarai Julena, New Friends Colony, New Delhi – 110025, E-mail : cs@modisteel.net, Website : www.modisteel.com Phone : 011-49872442, 19. NOTICE OF 37th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OVAM") on Saturday, 30th September, 2023 at 01.30 PM, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 read with General Circular No. dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, 8th December, 2021, 14th December, 2021, May 5, 2022 and 28th December, 2022 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business as set out in the Notice of AGM. Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM or view the live webcast at https https://www.evotingindia.com. Members participating through the VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the	9. श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री पारस नाथ श्रीवास्तव (गाएंटर) निवासी मकान नं. 10, सादिक नगर, सिंहानी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201001 श्री / श्रीमती, यह, आपके ऋण खाता संख्या – 100741007316 के संदर्भ में है। इनके नाम से खाता है स्वर्गीय सुधीर कुमार ऋण खाता सं: 100741007316 इस तिथि को एनपीए घोषित 28–07–2023 संस्वीकृत ऋण सुविधायें पीएल-एलएपी–टीएल संस्वीकृत तराशि रु. 17,00,000 / - (रुपये सत्रह लाख मात्र) बकाया / पेऑफ राशि रु. 17,75,000 / - (रुपये सत्रह लाख पिचहत्तर हजार मात्र)
तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के अनुपालन में 18वीं एजीएम के नोटिस ('एजीएम नोटिस') में निर्दिष्ट व्यवसाय को संचालित करने के लिए पीसी ज्वैलर लिमिटेड ('कंपनी') की 18वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शनिवार, 30 सितंबर, 2023 को सुबह 11:00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधन ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के साथ एजीएम नोटिस केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भेजा गया है जिनके ई-मेल पता डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ('डीपी')/कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट-केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('केफिनटेक') के साथ पंजीकृत है। कंपनी ने 7 सितंबर 2023 को इनका डिस्पैच पूरा कर लिया है। ये कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं और लिंक https://corporate.pcjeweller.com/annual-report/ के साथ-साथ बीएसई लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और केफिनटेक की वेबसाइट क्रमशः https://www.bseindia.com/, https://www.nseindia.com/ तथा https://evoting.kfintech.com/ से एक्सेस किया जा सकता है। कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 44 के	रजि. कार्यालयः 509, अरुणाचल बिल्डिंग, बाराखंमा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 वेबसाइटः www.goodluckindia.com, ई–मेलः goodluck@goodluckindia.com सीआईएन : L74899DL1986PLC050910 37वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, बुक क्लोजर और रिमोट ई–वोटिंग की जानकारी एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि गुडलक इंडिया लिमिटेड के सदस्यों की 37वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शनिवार, 30 सितंबर 2023 पूर्वाह्न 11:00 बजे, वीडियो कॉन्फ्रॉर्सेग ("वीसी")/ अन्य ऑडियो वें विजुअल नाध्यम ("ओएवीएम") के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों,सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं.10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022के साथ पठित दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 08 दिसंबर, 2021, 14 दिसंबर, 2021 और 05 मई, 2022 के परिपत्र और सेबी परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021,13 मई, 2022 और 05 जनवरी, 2023 के प्रावधानों के अनुपालन में, एजीएम के नोटिस में निर्धारित साधारण और विशेष व्यवसाय को निपटाने के लिए आयोजित की जाएगी। बैठक की सूचना,31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट और दूरस्थ	CIN No.: L74899DL1987PLC026617 Regd. Office : 3rd Floor, Surya Plaza, K-185/1, Sarai Julena, New Friends Colony, New Delhi – 110025, E-mail : cs@modisteel.net, Website : www.modisteel.com Phone : 011-49872442, 19. NOTICE OF 37th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OVAM") on Saturday, 30th September, 2023 at 01.30 PM, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 read with General Circular No. dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, 8th December, 2021, 14th December, 2021, May 5, 2022 and 28th December, 2022 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business as set out in the Notice of AGM. Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM or view the live webcast at https https://www.evotingindia.com. Members participating through the VC /	9. श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री पारस नाथ श्रीवास्तव (गाएंटर) निवासी मकान नं. 10, सादिक नगर, सिंहानी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201001 श्री / श्रीमती, यह, आपके ऋण खाता संख्या – 100741007316 के संदर्भ में है। इनके नाम से खाता है स्वर्गीय सुधीर कुमार ऋण खाता सं: 100741007316 इस तिथि को एनपीए घोषित 28-07-2023 संस्वीकृत ऋण सुविधायें पीएल-एलएपी-टीएल संस्वीकृत त्रहण सुविधायें एल-एलएपी-टीएल संस्वीकृत तराशि रु. 17,75,000 / - (रुपये सत्रह लाख मात्र) बकाया / पेऑफ राशि उपरोक्त खातों को नोएडा–18 स्थित शाखा से प्राप्त संस्वीकृत की गई है, यह ऋण खातो काफी समय से असंतोषजनक ढंग से परिचालित हो रहे हैं और इसलिये आप इस त्रुटि के तहत यहां इसमें ऊपर बताए अनुसार ऐसे ऋण के संबंध में अपने खाते को नियमित / समायोजित करने के लिए कदम उठाने
तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दयित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के अनुपालन में 18वीं एजीएम के नोटिस ('एजीएम नोटिस') में निर्दिष्ट व्यवसाय को संचालित करने के लिए पीसी ज्वैलर लिमिटेड ('कंपनी') की 18वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शनिवार, 30 सितंबर, 2023 को सुबह 11:00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधन ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के साथ एजीएम नोटिस केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भेजा गया है जिनके ई-मेल पता डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ('डीपी')/कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट-केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('केफिनटेक') के साथ पंजीकृत है। कंपनी ने 7 सितंबर 2023 को इनका डिस्पैच पूरा कर लिया है। ये कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं और लिंक https://corporate.pcjeweller.com/annual-report/ के साथ-साथ बीएसई लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और केफिनटेक की वेबसाइट क्रमशः https://www.bseindia.com/, https://www.nseindia.com/ तथा https://evoting.kfintech.com/ से एक्सेस किया जा सकता है। कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 44 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को ई-वोटिंग	रजि. कार्यालयः 509, अरुणाचल बिल्डिंग, बाराखंभा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 वेबसाइटः www.goodluckindia.com, ई–मेलः goodluck@goodluckindia.com सीआईएन : L74899DL1986PLC050910 37वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, बुक क्लोजर और रिमोट ई–वोटिंग की जानकारी एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि गुडलक इंडिया लिमिटेड के सदस्यों की 37वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम') शनिवार, 30 सितंबर 2023 पूर्वाह्न 11:00 बजे, वीडियो कॉन्फ्रॉरेसेंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो वें विजुअल माध्यम ("ओएवीएम") के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों,सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं.10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022के साथ पठित दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 08 दिसंबर, 2021, 14 दिसंबर, 2021 और 05 मई, 2022 के परिपत्र और सेबी परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021,13 मई, 2022 और 05 जनवरी, 2023 के प्रावधानों के अनुपालन में, एजीएम के नोटिस में निर्धारित साधारण और विशेष व्यवसाय को निपटाने के लिए	CIN No.: L74899DL1987PLC026617 Regd. Office : 3rd Floor, Surya Plaza, K-185/1, Sarai Julena, New Friends Colony, New Delhi – 110025, E-mail : cs@modisteel.net, Website : www.modisteel.com Phone : 011-49872442, 19. NOTICE OF 37th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OVAM") on Saturday, 30th September, 2023 at 01.30 PM, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 read with General Circular No. dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, 8th December, 2021, 14th December, 2021, May 5, 2022 and 28th December, 2022 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business as set out in the Notice of AGM. Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM or view the live webcast at https://www.evotingindia.com. Members participating through the VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. In compliance with the relevant circulars, the electronic copy of Notice of the AGM alongwith Annual Report for the year 2022-23, have been sent on September 6, 2023	9. श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री पारस नाथ श्रीवास्तव (गारंटर) निवासी मकान नं. 10, सादिक नगर, सिंहानी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201001 श्री / श्रीमती, यह, आपके ऋण खाता संख्या – 100741007316 के संदर्भ में है। इनके नाम से खाता है स्वर्गीय सुधीर कुमार ऋण खाता सं: 100741007316 इस तिथि को एनपीए घोषित 28–07–2023 संस्वीकृत ऋण सुविधायें पीएल–एलएपी–टीएल संस्वीकृत राशि रु. 17,00,000 / – (रुपये सत्रह लाख मात्र) बकाया / पेऑफ राशि रु. 17,75,000 / – (रुपये सत्रह लाख पीचहत्तर हजार मात्र) उपरोक्त खातों को नोएडा–18 स्थित शाखा से प्राप्त संस्वीकृति पत्र के माध्यम से रु. 17,00,000 / – (रुपये सन्नह लाख मात्र) के तहत यहां इसमें ऊपर असंतोषजनक ढंग से परिचालित हो रहे हैं और इसलिये आप इस त्रुटि के तहत यहां इसमें ऊपर बताए अनुसार ऐसे ऋण के संबंध में अपने खाते को नियमित / समायोजित करने के लिए कदम उठाने में विफल रहे हैं। उक्त त्रुटि के दृष्टिगत, आपके खाते को व्यापार के नियमित अनुक्रम में अनुरक्षितानुसार
तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के अनुपालन में 18वीं एजीएम के नोटिस ('एजीएम नोटिस') में निर्दिष्ट व्यवसाय को संचालित करने के लिए पीसी ज्वैलर लिमिटेड ('कंपनी') की 18वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शनिवार, 30 सितंबर, 2023 को सुबह 11:00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधन ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के साथ एजीएम नोटिस केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भेजा गया है जिनके ई-मेल पता डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ('डीपी')/कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट-केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('केफिनटेक') के साथ पंजीकृत है। कंपनी ने 7 सितंबर 2023 को इनका डिस्पैच पूरा कर लिया है। ये कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं और लिंक https://corporate.pcjeweller.com/annual-report/ के साथ-साथ बीएसई लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और केफिनटेक की वेबसाइट क्रमशः https://www.bseindia.com/, https://www.nseindia.com/ तथा https://evoting.kfintech.com/ से एक्सेस किया जा सकता है। कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 44 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से एजीएम नोटिस में निर्दिष्ट व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट देने के अपने अधिकार	रजि. कार्यालयः 509, अरुणाचल बिल्डिंग, बाराखंमा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 वेबसाइटः www.goodluckindia.com, ई–मेलः goodluck@goodluckindia.com सीआईएन : L74899DL1986PLC050910 37वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, बुक क्लोजर और रिसोट ई–वोटिंग की जानकारी एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि गुडलक इंडिया लिमिटेड के सदस्यों की 37वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएन) शनिवार, 30 सितंबर 2023 पूर्वाह 11:00 बजे, वीडियो कॉनफ्रेंसिंग ("वीसी")/ अन्य ऑडियो वें विजुअल माध्यम ("ओएवीएन") के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों,सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों,सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं.10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022के साथ पठित दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 08 दिसंबर, 2021, 14 दिसंबर, 2021 और 05 मई, 2022 के परिपत्र और सेबी परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021,13 मई, 2022 और 05 जनवरी, 2023 के प्रावधानों के अनुपालन में, एजीएम के नोटिस में निर्धारित साधारण और विशेष व्यवसाय को निपटाने के लिए आयोजित की जाएगी। बैठक की सूचना,31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट और दूरस्थ ई–वोटिंग विवरण उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेज दिए गए हैं जिनकी ई–मेल आईडी कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। शेयरधारकों को नोटिस ईमेल भेजने की अंतिम तिथि 05 सितंबर, 2023 है। ये दस्तावेज सदस्यों द्वारा डाउनलोड करने के लिए कंपनी की वेबसाइट	CIN No.: L74899DL1987PLC026617 Regd. Office : 3rd Floor, Surya Plaza, K-185/1, Sarai Julena, New Friends Colony, New Delhi – 110025, E-mail : cs@modisteel.net, Website : www.modisteel.com Phone : 011-49872442, 19. NOTICE 0F 37th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OVAM") on Saturday, 30th September, 2023 at 01.30 PM, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 read with General Circular No. dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, 8th December, 2021, 14th December, 2021, May 5, 2022 and 28th December, 2022 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business as set out in the Notice of AGM. Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM or view the live webcast at https://www.evotingindia.com. Members participating through the VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. In compliance with the relevant circulars, the electronic copy of Notice of the AGM alongwith Annual Report for the year 2022-23, have been sent on September 6, 2023 to all the members of the Company whose email address are registered with the Company / Depository Participant(s) / RTA (Skyline Financial Services Pvt. Ltd). The	9. श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री पारस नाथ श्रीवास्तव (गाएंटर) निवासी मकान नं. 10, सादिक नगर, सिंहानी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201001 श्री / श्रीमती, यह, आपके ऋण खाता संख्या – 100741007316 के संदर्भ में है। इनके नाम से खाता है स्वर्गीय सुधीर कुमार ऋण खाता सं: 100741007316 इस तिथि को एनपीए घोषित 28-07-2023 संस्वीकृत ऋण सुविधायें पीएल-एलएपी-टीएल संस्वीकृत त्रहण सुविधायें एल-एलएपी-टीएल संस्वीकृत तराशि रु. 17,75,000 / - (रुपये सत्रह लाख मात्र) बकाया / पेऑफ राशि उपरोक्त खातों को नोएडा–18 स्थित शाखा से प्राप्त संस्वीकृत की गई है, यह ऋण खातो काफी समय से असंतोषजनक ढंग से परिचालित हो रहे हैं और इसलिये आप इस त्रुटि के तहत यहां इसमें ऊपर बताए अनुसार ऐसे ऋण के संबंध में अपने खाते को नियमित / समायोजित करने के लिए कदम उठाने
तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दयित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के अनुपालन में 18वीं एजीएम के नोटिस ('एजीएम नोटिस') में निर्दिष्ट व्यवसाय को संचालित करने के लिए पीसी ज्वैलर लिमिटेड ('कंपनी') की 18वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शनिवार, 30 सितंबर, 2023 को सुबह 11:00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधन ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के साथ एजीएम नोटिस केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भेजा गया है जिनके ई-मेल पता डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ('डीपी')/कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट-केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('केफिनटेक') के साथ पंजीकृत है। कंपनी ने 7 सितंबर 2023 को इनका डिस्पैच पूरा कर लिया है। ये कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं और लिंक https://corporate.pcjeweller.com/annual-report/ के साथ-साथ बीएसई लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और केफिनटेक की वेबसाइट क्रमशः https://www.bseindia.com/, https://www.nseindia.com/ तथा https://evoting.kfintech.com/ से एक्सेस किया जा सकता है। कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 44 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को ई-वोटिंग	रजि. कार्यालयः 509, अरुणाचल बिल्डिंग, बाराखंमा रोड, कर्नॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 वेबसाइटः www.goodluckindia.com, ई–मेल: goodluck@goodluckindia.com सीआईएन : L74899DL1986PLC050910 37वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, बुक क्लोजर और रिमोट ई–वोटिंग की जानकारी एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि गुडलक इंडिया लिमिटेड के सदस्यों की 37वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शनिवार, 30 सितंबर 2023 पूर्वाह्न 11:00 बजे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/ अन्य ऑडियो वें विजुअल माध्यम ('ओएवीएम') के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों,सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के साथ पठित कॉर्पारेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं.10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022के साथ पठित दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 08 दिसंबर, 2021, 14 दिसंबर, 2021 और 05 मई, 2022 के परिपत्र और सेबी परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021,13 मई, 2022 और 05 जनवरी, 2023 के प्रावधानों के अनुपालन में, एजीएम के नोटिस में निर्धारित साधारण और विशेष व्यवसाय को निपटाने के लिए आयोजित की जाएगी। बैठक की सूचना,31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट और दूरस्थ ई–वोटिंग विवरण जन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक नोड में भेज दिए गए हैं जिनकी ई–मेल आईडी कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत है। शेयरधारकों को नोटिस ईमेल भेजने की अंतिम तिथि 05 सितंबर, 2023 है। ये दस्तावेज़ सदस्यों द्वारा डाजनलोड करने के लिए कंपनी की वेबसाइट www.goodluckindia.com पर भी उपलब्ध है।	CIN No.: L74899DL1987PLC026617 Regd. Office : 3rd Floor, Surya Plaza, K-185/1, Sarai Julena, New Friends Colony, New Delhi – 110025, E-mail : cs@modisteel.net, Website : www.modisteel.com Phone : 011-49872442, 19. NOTICE OF 37th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OVAM") on Saturday, 30th September, 2023 at 01.30 PM, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 read with General Circular No. dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, 8th December, 2021, 14th December, 2021, May 5, 2022 and 28th December, 2022 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business as set out in the Notice of AGM. Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM or view the live webcast at https https://www.evotingindia.com. Members participating through the VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. In compliance with the relevant circulars, the electronic copy of Notice of the AGM alongwith Annual Report for the year 2022-23, have been sent on September 6, 2023 to all the members of the Company whose email address are registered with the Company / Depository Participant(s) / RTA (Skyline Financial Services Pvt. Ltd). The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.modisteel.com and on the website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at	9. श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री पारस नाथ श्रीवास्तव (गारंटर) निवासी मकान नं. 10, सादिक नगर, सिंहानी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201001 श्री / श्रीमती, यह, आपके ऋण खाता संख्या – 100741007316 के संदर्भ में है। इनके नाम से खाता है स्वर्गीय सुधीर कुमार ऋण खाता सं: 100741007316 इस तिथि को एनपीए घोषित 28–07–2023 संस्वीकृत ऋण सुविधायें पीएल-एलएपी-टीएल संस्वीकृत त्राशि रु. 17,00,000/- (रुपये सत्रह लाख मात्र) बकाया / पेऑफ राशि रु. 17,75,000/- (रुपये सत्रह लाख पिचहत्तर हजार मात्र) उपरोक्त खातों को नोएडा–18 स्थित शाखा से प्राप्त संस्वीकृत की गई है, यह ऋण खातो काफी समय से असंतोषजनक ढंग से परिचालित हो रहे हैं और इसलिये आप इस त्रुटि के तहत यहां इसमें ऊपर बताए अनुसार ऐसे ऋण के संबंध में अपने खाते को नियमित / समायोजित करने के लिए कदम उठाने मं विफल रहे हैं। उक्त त्रुटि के दृष्टिगत, आपके खाते को व्यापार के नियमित अनुक्रम में अनुरक्षितानुसार खातों की बहियों में और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बँक के निर्देशों व दिशानिर्देशों के अनुसार 28–07–2023 को एक गेर–निष्पादित परिसंपति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। तदनुसार, हम एतदद्वारा उपरोक्त सभी ऋण /अग्रिम ऋण सुविधाओं को वायस लेते हैं और आप सभी से संयुक्त
तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दयित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के अनुपालन में 18वीं एजीएम के नोटिस ('एजीएम नोटिस') में निर्दिष्ट व्यवसाय को संचालित करने के लिए पीसी ज्वैलर लिमिटेड ('कंपनी') की 18वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शनिवार, 30 सितंबर, 2023 को सुबह 11:00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधन ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के साथ एजीएम नोटिस केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भेजा गया है जिनके ई-मेल पता डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ('डीपी')/कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट-केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('केफिनटेक') के साथ पंजीकृत है। कंपनी ने 7 सितंबर 2023 को इनका डिस्पैच पूरा कर लिया है। ये कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं और लिंक https://corporate.pcjeweller.com/annual-report/ के साथ-साथ बीएसई लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और केफिनटेक की वेबसाइट क्रमशः https://www.bseindia.com/, https://www.nseindia.com/ तथा https://evoting.kfintech.com/ से एक्सेस किया जा सकता है। कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 44 के साथ पटित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से एजीएम नोटिस में निर्दिष्ट व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने वीसी/ओएवीएम, रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम	रजि. कार्यालय: 509, अरुणाचल बिल्डिंग, बाराखंमा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 वेबसाइट: www.goodluckindia.com, ई—मेल: goodluck@goodluckindia.com सीआईएन : L74899DL1986PLC050910 37वी वार्षिक आम बैठक की सूचना, बुक क्लोजर और रिमोट ई—वोटिंग की जानकारी एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि गुडलक इंडिया लिमिटेड के सदस्यों की 37वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शनिवार, 30 सितंबर 2023 पूर्वाह 11:00 बजे, वीडियो कॉनफ्रेंसिंग ("वीसी")/ अन्य ऑडियो वें विजुअल माध्यम ("ओएबीएम") के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 और जसके तहत बनाए गए नियमों,सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2013 और जसके तहत बनाए गए नियमों,सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2013 (सूचीबद्धता विनियम) के साथ पठित कॉर्फोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं.10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022के साथ पठित कॉर्फोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं.10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2021, 14 दिसंबर, 2021 और 05 मई, 2022 के परिपत्र और सेबी परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021, 13 मई, 2022 और 05 जनवरी, 2023 के प्रावधानों के अनुपालन में, एजीएम के नोटिस में निर्धारित साधारण और विशेष व्यवसाय को निपटाने के लिए आयोजित की जाएगी। बैठक की सूचना,31 मार्च, 2023 को समाप्त वितीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट और दूरस्थ ई—वोटिंग विवरण उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेज दिए गए हैं जिनकी ई—मेल आईडी कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। शेयरधारकों को नोटिस ईमेल भेजने की अंतिम तिथि 05 सितंबर, 2023 है। ये दस्तावेज सदस्यों द्वारा डाउनलोड करने के लिए कंपनी की वेबसाइट www.goodluckindia.com पर भी उपलब्ध हैं। यदि आपने कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, तो कृपया वित वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने और ई—वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए अपनी ईमेल	CIN No.: L74899DL1987PLC026617 Regd. Office : 3rd Floor, Surya Plaza, K-185/1, Sarai Julena, New Friends Colony, New Delhi – 110025, E-mail : cs@modisteel.net, Website : www.modisteel.com Phone : 011-49872442, 19. NOTICE OF 37th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OVAM") on Saturday, 30th September, 2023 at 01.30 PM, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 read with General Circular No. dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, 8th December, 2021, 14th December, 2021, May 5, 2022 and 28th December, 2022 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business as set out in the Notice of AGM. Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM or view the live webcast at https https://www.evotingindia.com. Members participating through the VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. In compliance with the relevant circulars, the electronic copy of Notice of the AGM alongwith Annual Report for the year 2022-23, have been sent on September 6, 2023 to all the members of the Company whose email address are registered with the Company Depository Participant(s) / RTA (Skyline Financial Services Pvt. Ltd). The aforesaid documents are also available on the Company's website at	9. श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री पारस नाथ श्रीवास्तव (गाएंटर) निवासी मकान नं. 10, सादिक नगर, सिंहानी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201001 श्री/श्रीमती, यह, आपके ऋण खाता संख्या – 100741007316 के संदर्भ में है। इनके नाम से खाता है स्वर्गीय सुधीर कुमार ऋण खाता सं: 100741007316 इस तिथि को एनपीए घोषित 28–07–2023 संस्वीकृत ऋण सुविधायें पीएल-एलएपी-टीएल संस्वीकृत तराशि रु. 17,00,000/- (रुपये सन्नह लाख मात्र) बकाया / पेऑफ राशि रु. 17,75,000/- (रुपये सन्नह लाख पिचहत्तर हजार मात्र) उपरोक्त खातों को नोएडा–18 स्थित शाखा से प्राप्त संस्वीकृति पत्र के माध्यम से रु. 17,00,000/- (रुपये सन्नह लाख मात्र) क. 17,75,000/- (रुपये सन्नह लाख पिचहत्तर हजार मात्र) उपरोक्त खातों को नोएडा–18 स्थित शाखा से प्राप्त संस्वीकृति पत्र के माध्यम से रु. 17,00,000/- (रुपये सन्नह लाख मात्र) के रा, रें हैं और इसलिये आप इस न्नुटि के तहत यहां इसमें ऊपर बताए अनुसार ऐसे ऋण के संबंध में अपने खाते को नियमित/समायोजित करने के लिए कदम उठाने में विफल रहे हैं। उक्त त्रुटि के दृष्टिगत, आपके खाते को व्यापार के नियमित अनुक्रम में अनुरक्षितानुसार खातों की बहियों में और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बँक के निर्देशों व दिशानिर्देशों के अनुसार 28–07–2023 को एक गैर–निष्पादित परिसंपति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। तदनुसार, हम एतदद्वारा उपरोक्त सभी ऋण/अग्निम/ऋण सुविधाओं को वापस लेते हैं और आप सभी से संयुक्त रूप में और अलग–अलग आहवन करते हैं कि आप इस नोटिस की प्रारित की तारीख से 60 दिनों
तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकर्ताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के अनुपालन में 18वीं एजीएम के नोटिस ('एजीएम नोटिस') में निर्दिष्ट व्यवसाय को संचालित करने के लिए पीसी ज्वैलर लिमिटेड ('कंपनी') की 18वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शनिवार, 30 सितंबर, 2023 को सुबह 11:00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रोंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधन ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के साथ एजीएम नोटिस केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भेजा गया है जिनके ई–मेल पता डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ('डीपी')/कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट–केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('केफिनटेक') के साथ पंजीकृत है। कंपनी ने 7 सितंबर 2023 को इनका डिस्पैच पूरा कर लिया है। ये कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं और लिंक https://corporate.pcjeweller.com/annual-report/ के साथ–साथ बीएसई लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और केफिनटेक की वेबसाइट क्रमशः https://www.bseindia.com/, https://www.nseindia.com/ तथा https://evoting.kfintech.com/ से एक्सेस किया जा सकता है। कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 44 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से एजीएम नोटिस में निर्दिष्ट व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने वीसी/ओएवीएम, रिमोट ई–वोटिंग और एजीएम में ई–वोटिंग के माध्यम से सदस्यों की भागीदारी की सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में केफिनटेक की सेवाएं ली हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम नोटिस में उल्लिखित ''18वीं एजीएम में भाग लेने, रिमोट ई–वोटिंग और 18वीं एजीएम में 'ई–वोटिंग' के लिए निर्देश'' को ध्यान से पढ़ें। रिमोट	रजि. कार्यालयः 509, अरुणाचल बिल्डिंग, बाराखंमा रोड, कनॉट फोस, नई दिल्ली–110001 वेबसाइटः www.goodluckindia.com, ई–मेल: goodluck@goodluckindia.com सीआईएन : L74899DL1986PLC050910 37वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, बुक क्लोजर और रिमोट ई–वोटिंग की जानकारी एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि गुडलक इंडिया लिमिटेड के सदस्यों की 37वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शनिवार, 30 सितंबर 2023 पूर्वाह 11:00 बजे, वीडियो कॉनफ्रॅंसिंग ('वीसी'')/ अन्य ऑडियो वें विजुअल माध्यम ('ओएवीएम') के माध्यम से कपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों,सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए गियमों,सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं.10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022के साथ पठित दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 08 दिसंबर, 2021, 14 दिसंबर, 2021 और 05 मई, 2022 के परिपत्र और सेबी परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021,13 मई, 2022 और 05 जनवरी, 2023 के प्रावधानों के अनुपालन में, एजीएम के नोटिस में निर्धारित साधारण और विरोध व्यवसाय को निपटाने के लिए आयोजित की जाएगी। बैठक की सूचना,31 मार्च, 2023 को समाप्त वितीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट और दूरस्थ ई–वोटिंग विवरण उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक नोड में भेज दिए गए हैं जिनकी ई–मेल आईडी कंपनी/आरटीए/(डिपॉजिटरी के साथ पजीकृत हैं। शेयरधारकों को नोटिस ईमेल भेजने की अतिम तिथि 05 सितंबर, 2023 है। ये दस्तावेज सदस्यों द्वारा डाउनलोड करने के लिए कंपनी की वेबसाइट www.goodluckindia.com पर भी उपलब्ध हैं। यदि आपने कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, तो कृपया वित्त वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने और ई–वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए अपनी ईनेल आईडी पंजीकृत करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें।	CIN No.: L74899DL1987PLC026617 Regd. Office : 3rd Floor, Surya Plaza, K-185/1, Sarai Julena, New Friends Colony, New Delhi – 110025, E-mail : Co@modisteel.net, Website : www.modisteel.com Phone : 011-49872442, 19. NOTICE OF 37th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OVAM") on Saturday, 30th September, 2023 at 01.30 PM, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 read with General Circular No. dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2022 and 28th December, 2022 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business as set out in the Notice of AGM. Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM or view the live webcast at https https://www.evotingindia.com. Members participating through the VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. In compliance with the relevant circulars, the electronic copy of Notice of the AGM alongwith Annual Report for the year 2022-23, have been sent on September 6, 2023 to all the members of the Company whose email address are registered with the Company / Depository Participant(s) / RTA (Skyline Financial Services Pvt. Ltd). The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.modisteel.com and on the website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.beindia.com. NOTICE is also hereby given pursuant to regulation 42 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015 and section 91	9. श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री पारस नाथ श्रीवास्तव (गाएंटर) निवासी मकान नं. 10, सादिक नगर, सिंहानी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201001 श्री / श्रीमती, यह, आपके ऋण खाता संख्या – 100741007316 के संदर्भ में है। इनके नाम से खाता है स्वर्गीय सुधीर कुमार ऋण खाता सं: 100741007316 इस तिथि को एनपीए घोषित 28–07–2023 संस्वीकृत ऋण सुविधायें पीएल–एलएपी–टीएल संस्वीकृत त्रहण सुविधायें पीएल–एलएपी–टीएल संस्वीकृत तराशि रु. 17,00,000/– (रुपये सत्रह लाख मात्र) बकाया / पेऑफ राशि रु. 17,75,000/– (रुपये सत्रह लाख पिचहत्तर हजार मात्र) उपरोक्त खातों को नोएडा–18 स्थित शाखा से प्राप्त संस्वीकृति पत्र के माध्यम से रु. 17,00,000/– (रुपये सत्रह लाख मात्र) के रा7,75,000/– (रुपये सत्रह लाख पिचहत्तर हजार मात्र) उपरोक्त खातों को नोएडा–18 स्थित शाखा से प्राप्त संस्वीकृति पत्र के माध्यम से रु. 17,00,000/– (रुपये सत्रह लाख मात्र) के रुक ऋण सुविधा संस्वीकृत की गई है, यह ऋण खातो काफी समय से असंतोषजनक ढंग से परिचालित हो रहे हैं और इसलिये आप इस त्रुटि के तहत यहां इसमें ऊपर बताए अनुसार ऐसे ऋण क संबंध में अपने खाते को नियमित / समायोजित करने के लिए कदम उठाने में विफल रहे हैं। उक्त त्रुटि के दृष्टिगत, आपके खाते को व्यापार के नियमित अनुक्रम में अनुरक्षितानुसार खातों की बहियों में और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बँक के निर्दशों व दिशानिर्देशां क अनुसार 28–07–2023 को एक गैर–निष्पादित परिसंपति के रुप में बर्गाकृत कर दिया गया है। तदनुसार, हम एतदद्वारा उपरोक्त सभी ऋण /अग्निम/ऋण सुविधाओं को वापस लेते हैं और आप सभी से संयुक रूप मे
तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के अनुपालन में 18वीं एजीएम के नोटिस ('एजीएम नोटिस') में निर्दिष्ट व्यवसाय को संचालित करने के लिए पीसी ज्वैलर लिमिटेड ('कंपनी') की 18वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शनिवार, 30 सितंबर, 2023 को सुबह 11:00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('चीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधन ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के साथ एजीएम नोटिस केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रोंनिक मोड द्वारा भेजा गया है जिनके ई-मेल पता डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ('डीपी')/कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट-केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('केफिनटेक') के साथ पंजीकृत है। कंपनी ने 7 सितंबर 2023 को इनका डिस्पैच पूरा कर लिया है। ये कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं और लिंक https://corporate.pcjeweller.com/annual-report/ के साथ-साथ बीएसई लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और केफिनटेक की वेबसाइट क्रमशः https://www.bseindia.com/, https://www.nseindia.com/ तथा https://evoting.kfintech.com/ से एक्सेस किया जा सकता है। कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 44 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से एजीएम नोटिस में निर्दिष्ट व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने वीसी/ओएवीएम, रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से सदस्यों की भागीदारी की सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में केफिनटेक की सेवाएं ली हैं। सदस्यों की भागीदारी की सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में केफिनटेक की सेवाएं ली हैं। सदस्यों स्व भराधि है कि वे एजीएम नोटिस में उल्लिखित ''18वीं एजीएम में भाग लेने, रिमोट ई-वोटिंग और 18वीं एजीएम में 'ई-वोटिंग' के लिए निर्देश''को ध्यान से पढ़ें। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा बुधवार, 27 सितंबर, 2023 सुबह 9:00 बजे (भा.मा.स.) से शुरू होगी और शुक्रवार,	रिज. कार्यालयः 509, अरुणाचल बिल्डिंग, बाराखंमा रोड, कर्नॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 वेबसाइटः www.goodluckindia.com, ई—मेलः goodluck@goodluckindia.com सीआईएन : L74899DL1986PLC050910 37वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, बुक क्लोजर और रिमोट ई—वोटिंग की जानकारी एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि गुडलक इंडिया लिमिटेड के सदस्यों की 37वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम') शनिवार, 30 सितंबर 2023 पूर्वांह 11:00 बजे, वीडियो कॉन्फ्रॉसेंग ('वीसी')/ अन्य ऑडियो वे विजुअल माध्यम ('ओएवीएम') के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों,सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों,सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य नंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं.10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022के साथ पठित दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 08 दिसंबर, 2021, 14 दिसंबर, 2021 और 05 मई, 2022 के परिपत्र और सेबी परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021,13 मई, 2022 और 05 जनवरी, 2023 के प्रावधानों के अनुपालन में, एजीएम के नोटिस में निधारित साधारण और विशंष व्यवसाय को निपटाने के लिए आयोजित की जाएगी। बैठक की सूचना,31 मार्च, 2023 को समाप्त वितीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट और दूरस्थ ई–वोटिंग विवरण उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक नोड ने भेज दिए गए हैं जिनकी ई–सेल आईडी कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत है। शेयस्थारकों को नोटिस ईमेल भेजने की अतित तिथि 05 सितंबर, 2023 है। ये दस्तावेज सदस्यों हारा डाउनलोड करने के लिए कंपनी की बेबसाइट www.goodluckindia.com पर भी उपलब्ध हैं। यदि आपने कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, तो कृपया वित वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रात्त करने और ई–वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण प्रात्त करने के लिए अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करने के लिए नीचे दिए गए नर्देशों का पालन करें। भौतिक धारिताः शेयरहारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी की 37वीं एजीएम (वार्षिक आन बैठक) के लिए अपनी ईनेत आईडी, नोबाइल नंबर, बँक खाता विवरण और/या फॉर्म आईएरसआर–1 और सेबी दारा निधारित जन्य	CIN No.: L74899DL1987PLC026617 Regd. Office : 3rd Floor, Surya Plaza, K-185/1, Sarai Julena, New Friends Colony, New Delhi – 110025, E-mail : cs@modisteel.net, Website : www.modisteel.com Phone : 011-49872442, 19. NOTICE OF 37th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OVAM") on Saturday, 30th September, 2023 at 01.30 PM, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 read with General Circular No. dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, 8th December, 2021, 14th December, 2021, May 5, 2022 and 28th December, 2022 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business as set out in the Notice of AGM. Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM or view the live webcast at https https://www.evotingindia.com. Members participating through the VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. In compliance with the relevant circulars, the electronic copy of Notice of the AGM alongwith Annual Report for the year 2022-23, have been sent on September 6, 2023 to all the members of the Company whose email address are registered with the Company / Depository Participant(s) / RTA (Skyline Financial Services Pvt. Ltd). The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.bseindia.com. NOTICE is also hereby given pursuant to regulation 42 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015 and section 91 of the Companies Act, 2013 readwith Rule 10 of the Companies (Management and A	9. श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री पारस नाथ श्रीवास्तव (गारंटर) निवासी मकान नं. 10, सादिक नगर, सिंहानी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201001 श्री/श्रीमती, यह, आपके ऋण खाता संख्या – 100741007318 के संदर्भ में है। इनके नाम से खाता है स्वर्गीय सुधीर कुमार ऋण खाता सं: 100741007316 इस तिथि को एनपीए घोषित 28–07–2023 संस्वीकृत ऋण सुविधायें पीएल-एलएपी-टीएल संस्वीकृत त्राशा रु. 17.00.000/- (रुपये सत्रह लाख मात्र) बकाया / पेऑफ राशा रु. 17.75.000/- (रुपये सत्रह लाख मात्र) उपरोक्त खातों को नोएडा-18 स्थित शाखा से प्राप्त संस्वीकृति पत्र के माध्यम से फ. 17.00,000/- (र्फपये सत्रह लाख मात्र) क. 17.75.000/- (रुपये सत्रह लाख मात्र) उपरोक्त खातों को नोएडा-18 स्थित शाखा से प्राप्त संस्वीकृति पत्र के माध्यम से फ. 17,00,000/- (र्फपये सत्रह लाख मात्र) क. 17.75.000/- (रुपये सत्रह लाख पात्र) उपरोक्त खातों को नोएडा-18 स्थित शाखा से प्राप्त संस्वीकृति पत्र के माध्यम से फ. 17,00,000/- (र्फपये सत्रह लाख मात्र) क. 17.75.000/- (रुपये सत्रह लाख पात्र) बताए अनुसार ऐसे ऋण के संबंध में आपने खाते को नियमित / समायोजित करने के लिए कदन उठाने में विफल रहे हैं । उक्त त्रुटि के दृष्टिगत, आपके खाते को व्यापार के नियमित अनुक्रम में अनुरक्षितानुसार खातों की बहियों में और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्दर्शो व दिशानिर्दशां के अनुसार 28–07–2023 को एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के ल्या परार ले निर्दान्र करे प्रादनुनुसार, हम एतदद्वारा उपरोक्त सभी ऋण /अग्रिम
तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के अनुपालन में 18वीं एजीएम के नोटिस ('एजीएम नोटिस') में निर्दिष्ट व्यवसाय को संचालित करने के लिए पीसी ज्वैलर लिमिटेड ('कंपनी') की 18वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शनिवार, 30 सितंबर, 2023 को सुबह 11:00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रोंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधन ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के साथ एजीएम नोटिस केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रोंनिक मोड द्वारा भेजा गया है जिनके ई-मेल पता डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ('डीपी')/कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट-केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('केफिनटेक') के साथ पंजीकृत है। कंपनी ने 7 सितंबर 2023 को इनका डिस्पैच पूरा कर लिया है। ये कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं और लिंक https://corporate.pcjeweller.com/annual-report/ के साथ-साथ बीएसई लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और केफिनटेक की वेबसाइट क्रमशः https://www.bseindia.com/, https://www.nseindia.com/ तथा https://evoting.kfintech.com/ से एक्सेस किया जा सकता है। कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 44 के साथ पटित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी अपने सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से एजीएम नोटिस में निर्दिष्ट व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने वीसी/ओएवीएम, रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से सदस्यों की भागीदारी की सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में केफिनटेक की सेवाएं ली हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम नोटिस में उल्लिखित '18वीं एजीएम में भाग लेने, रिमोट ई-वोटिंग और 18वीं एजीएम में 'ई-वोटिंग' के लिए नर्देश' को ध्यान से पढ़ें। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा बुथवार, 27 सितंबर, 2023 सुबह 9:00 बजे (भा.मा.स.) से शुरू होगी और शुकवार, 29 सितंबर, 2023 को शाम 5:00 बजे (भा.मा.स.) सामा होगी और उसके बाद किसी भी रिमेट ई-वोटिंग	रजि. कार्यालयः 509, अरुणाचल बिल्डिंग, बाराखंमा रोड, कर्नॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 वेक्साइट: www.goodluckindia.com, ई–मेल: goodluck@goodluckindia.com सीआईएन : L74899DL1986PLC050910 37वी वार्षिक आम बैठक की सूचना, बुक क्लोजर और रिमोट ई–वोटिंग की जानकारी एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि गुडलक इंडिया लिमिटेड के सवरस्यों की 37वी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शनिवार, 30 सितंबर 2023 पूर्वाह 11:00 बजे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/ अन्य ऑडियो ये विजुअल माध्यम ('ओएवीएम') के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों,सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों,सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों,सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों,सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों,सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों,सेबा, 2020, 13 प्रप्रित और सानान्य परिपत्र सं10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022के साथ पठित दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 14 दिसंबर, 2021 और 05 नई, 2023 के प्रावधानों के अनुपालन में, एजीएम के नोटिस में निर्धारित साधारण और विशेष व्यवसाय को निपटाने के लिए आयोजित की जाएगी। बैठक की सूचना,31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट और दूरस्थ ई–वोटिंग विवरण उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेज दिए गए हैं जिनकी ई–मेल आईडी कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी के साथ पप्तीकृत हैं। श्रेयरधारकों को नोटिस ईमेल मेजने की अंतिन तिथि 05 सितंबर, 2023 है। ये दस्तावेज सदस्यों द्वारा डाउनलोड करने के लिए कंपनी की वेक्साइट www.goodluckindia.com पर भी उपलब्ध है। यदि आपने कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, तो कृपया वित वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रारत करने और ई–वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने के तिए अपनी ईनेल आईडी पंजीकृत करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें। भौतिक धारिता: शेयरघारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी की 37वी एजीएम (वार्षिक आम बैठक) के लिए अपनी ईमेल आईडी, नोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण औ	CIN No.: L74899DL1987PLC026617 Regd. Office : 3rd Floor, Surya Plaza, K-185/1, Sarai Julena, New Friends Colony, New Delhi – 110025, E-mail : cs@modisteel.net, Website : www.modisteel.com Phone : 011-49872442, 19. NOTICE OF 37th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OVAM") on Saturday, 30th September, 2023 at 01.30 PM, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 read with General Circular No. dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, 8th December, 2021, 14th December, 2021, May 5, 2022 and 28th December, 2022 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business as set out in the Notice of AGM. Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM or view the live webcast at https https://www.evotingindia.com. Members participating through the VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. In compliance with the relevant circulars, the electronic copy of Notice of the AGM alongwith Annual Report for the year 2022-23, have been sent on September 6, 2023 to all the members of the Company whose email address are registered with the Company / Depository Participant(s) / RTA (Skyline Financial Services Pvt. Ltd). The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.modisteel.com and on the website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com. NOTICE is also hereby given pursuant to regulation 42 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015 and section 91	9. श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री पारस नाथ श्रीवास्तव (गारंटर) निवासी मकान नं. 10, सादिक नगर, सिंहानी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201001 श्री/श्रीमती, यह, आपके ऋण खाता संख्या – 100741007318 के संदर्भ में है। इनके नाम से खाता है स्वर्गीय सुधीर कुमार ऋण खाता सं: 100741007316 इस तिथि को एनपीए घोषित 28–07–2023 संस्वीकृत ऋण सुविधायें पीएल-एलएपी-टीएल संस्वीकृत त्राण सुविधा फ. 17.00.000/- (रुपये सत्रह लाख मात्र) बकाया / पेऑफ राशि फ. 17.75.000/- (रुपये सत्रह लाख मात्र) उपरोक्त खातों को नोएडा-18 स्थित शाखा से प्राप्त संस्वीकृति पत्र के माध्यम से फ. 17.00.000/- (एपये सत्रह लाख मात्र) फ. 17.75.000/- (रुपये सत्रह लाख मात्र) उपरोक्त खातों को नोएडा-18 स्थित शाखा से प्राप्त संस्वीकृति पत्र के माध्यम से फ. 17.00.000/- (एपये सत्रह लाख मात्र) फ. 17.75.000/- (रुपये सत्रह लाख पाय) उपरोक्त खातों को नोएडा-18 स्थित शाखा से प्राप्त संस्वीकृत की गई है. यह ऋण खातो काफी समय से असंतोषजनक ढंग से परिचालित हो रहे हँ और इसलिये आप इस त्रुटि के तहत यहा इसमें ऊपप बताए अनुसार एसे ऋण के संबंध में अपने खाते को नियमित / समायोजित करने के लिए कदन उठाने में विफल रहे हँ। उक्त त्रुटि के दृष्टिगत. आपके खाते को व्यापार के नियमित अनुक्रम में अनुरक्षितानुसार खातों की बहियों में और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बँक के निर्दर्श वि या या है। तदनुसार, हम एतदद्वारा उपरोक सभी ऋण /अग्रिम /ऋण सुविधाओं को वायस लेते हैं और आप सभी सं संयुक्त रूप में और अलग-अलग आहवान करते हँ कि आप इस नोटिस की प्राप्ति को आत्र को अक्रिमक व्ययों / लागत आदि के साथ, 10-08-202
तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के अनुपालन में 18वीं एजीएम के नोटिस ('एजीएम नोटिस') में निर्दिष्ट व्यवसाय को संचालित करने के लिए पीसी ज्वैलर लिमिटेड ('कंपनी') की 18वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शनिवार, 30 सितंबर, 2023 को सुबह 11:00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('चीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधन ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के साथ एजीएम नोटिस केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रोंनिक मोड द्वारा भेजा गया है जिनके ई-मेल पता डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ('डीपी')/कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट-केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('केफिनटेक') के साथ पंजीकृत है। कंपनी ने 7 सितंबर 2023 को इनका डिस्पैच पूरा कर लिया है। ये कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं और लिंक https://corporate.pcjeweller.com/annual-report/ के साथ-साथ बीएसई लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और केफिनटेक की वेबसाइट क्रमशः https://www.bseindia.com/, https://www.nseindia.com/ तथा https://evoting.kfintech.com/ से एक्सेस किया जा सकता है। कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 44 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से एजीएम नोटिस में निर्दिष्ट व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने वीसी/ओएवीएम, रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से सदस्यों की भागीदारी की सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में केफिनटेक की सेवाएं ली हैं। सदस्यों की भागीदारी की सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में केफिनटेक की सेवाएं ली हैं। सदस्यों स्व भराधि है कि वे एजीएम नोटिस में उल्लिखित ''18वीं एजीएम में भाग लेने, रिमोट ई-वोटिंग और 18वीं एजीएम में 'ई-वोटिंग' के लिए निर्देश''को ध्यान से पढ़ें। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा बुधवार, 27 सितंबर, 2023 सुबह 9:00 बजे (भा.मा.स.) से शुरू होगी और शुक्रवार,	रजि. कार्यालय: 509, अरुणाचल बिल्डिंग, बाराखंभा रोड, कर्नॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 वेबसाइट: www.goodluckindia.com, ई–मेल: goodluck@goodluckindia.com सीआईएन : L74899DL1986PLC050910 37वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, बुक क्लोजर और एमोट ई–वोटिंग की जानकारी एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि गुडलक इंडिया लिमिटेड के सदस्यों की 37वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएन)) शनिवार, 30 सितंबर 2023 पूर्वांड 1100 बजे, वीडियो कॉनफ्रॅसिंग ('वीसी')/ अन्य ऑडियो वें विजुअल मध्यम ('ओएवीएन) के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों,संबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों,संबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों,संबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम) के साथ पठित कॉर्पोरेंट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं.10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022के साथ पठित दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 08 दिसंबर, 2021, 14 दिसंबर, 2021 और 05 जनवरी, 2023 के परिपत्र और संबी परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021,13 मई, 2022 और 05 जनवरी, 2023 के प्रावधानों के अनुपालन में, एजीएम के नोटिस में निर्धारित साधारण और विशेष व्यवसाय को निपटाने के लिए आयोजित की जाएगी। बैठक की सूचना31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्थ की वार्षिक रिपोर्ट और दूरस्थ ई–वोटिंग विवरण उन सभी सदरयों को इलेक्ट्रॉलिक सोड में भेज दिए गए हैं जिनकी ई–मेल आईडी कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत है। शेयरधारकों को नोटिस ईमेल भेजने की अंतिन तिथि 06 सितंबर, 2023 है। ये दस्तावेज सदस्यों द्वारा डाउनलोड करने के लिए कंपनी की वेबसाइट www.goodluckindia.com पर भी उपलब्ध है। यदि आपने कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नही की है, तो कृपया वित वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने और ई–वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करने के लिए नोचे दिए गए निर्वेशों का पालन करें। भौतिक धारित: शेयरहार के साथ आता विवरण और रंपनी के शेयर ट्रांसफ संके द्वारा निधरित अन्य प्रार्सगिक रिपोर्ट या क चलन और बिवर्ग के देकरनी की अर्य एजीप्र संवी द्वारा निधरित जन्य प्रार्सगिक फॉनेन सं	CIN No.: L74899DL1987PLC026617 Regd. Office : 3rd Floor, Surya Plaza, K-185/1, Sarai Julena, New Friends Colony, New Delhi – 110025, E-mail : cs@modisteel.net, Website : www.modisteel.com Phone : 011-49872442, 19. NOTICE 0F37th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OVAM") on Saturday, 30th September, 2023 at 01.30 PM, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 read with General Circular No. dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, 8th December, 2021, 14th December, 2021, May 5, 2022 and 28th December, 2022 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business as set out in the Notice of AGM. Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM or view the live webcast at https https://www.evotingindia.com. Members participating through the VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. In compliance with the relevant circulars, the electronic copy of Notice of the AGM alongwith Annual Report for the year 2022-23, have been sent on September 6, 2023 to all the members of the Company whose email address are registered with the Company / Depository Participant(s) / RTA (Skyline Financial Services Pvt. Ltd). The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.bselindia.com. NOTICE is also hereby given pursuant to regulation 42 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015 and section 91 of the Companies Act, 2013 readwith Rule 10 of the Companies (Management and A	9. श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री पारस नाथ श्रीवास्तव (गाएंटर) निवासी मकान नं. 10, सादिक नगर, सिंहानी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201001 श्री/श्रीमती, यह, आपके ऋण खाता संख्या – 100741007316 के संदर्भ में है। इनके नाम से खाता है स्वर्गीय सुधीर कुमार ऋण खाता सं: 100741007316 इस तिथि को एनपीए घोषित 28–07–2023 संस्वीकृत ऋण सुविधायें पीएल-एलएपी-टीएल संस्वीकृत त्रहण सुविधायें पीएल-एलएपी-टीएल संस्वीकृत राशि रु. 17,75,000/- (रुपये संत्रह लाख मात्र) बकाया / पेऑफ राशि रु. 17,75,000/- (रुपये संत्रह लाख मात्र) उपरांत्त खा तों को नोएडा–18 स्थित शाखा से प्राप्त संस्वीकृति पत्र के माध्यम से रु. 17,00,000/- (एपये संत्रह लाख मात्र) रु. 17,75,000/- (रुपये संत्रह लाख पिवहत्तर हजार मात्र) उपरांत्त खा नो नो रहा–18 स्थित शाखा से प्राप्त संस्वीकृत की गई है. यह ऋण खाता काफी समय से असंतोषजनक ढंग से परिवालित हो रहे हैं और इसलिये आप इस चुटि के तहत यहां इसमें ऊपय बतार अनुसार एसे ऋण के संबंध में अपने खाते को वियमित/समायोजित करने के लिए कदम उठाने में विफल रहे हैं। उक चुटियत, आपके खाते को व्यापार के नियमित अनुक्रम में अनुरक्षितानुसार खातां की बहियों में और इस संबंध में भारतीय रिजर्प बैंक के निर्देशों व दिशानिर्देशों के अनुसार ट8–07–2023 को एक गैर–निष्पादित परिसंपतिये के रुप में वर्गीकृत कर दिया गया है। तदनुसार, हम एतदद्वारा उपरोक्त संगी ऋण /अग्रिम/ऋण सुविधाओं को वापस लेते हैं और आप सभी से संयुक्त रूप ने बैं अत्य देक जी त्रे स्ता से हा सा सो के स्वर्क रियान्य के खाते को त्रारिय के की तिर्मात के सा खा के अनुरात करे हि के आव इस नोटिस की तारिख के 60 दिनों की अव
तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के अनुपालन में 18वीं एजीएम के नोटिस ('एजीएम नोटिस') में निर्दिष्ट व्यवसाय को संचालित करने के लिए पीसी ज्वैलर लिमिटेड ('कंपनी') की 18वीं वार्षिक आम बैटक ('एजीएम') शनिवार, 30 सितंबर, 2023 को सुबह 11:00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रॅसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधन ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के साथ एजीएम नोटिस केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भेजा गया है जिनके ई-मेल पता डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ('डीपी')/कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट-केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('केफिनटेक') के साथ पंजीकृत है। कंपनी रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट-केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('केफिनटेक') के साथ पंजीकृत है। कंपनी रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट-केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('केफिनटेक') के साथ पंजीकृत है। कंपनी ने 7 सितंबर 2023 को इनका डिस्पैच पूरा कर लिया है। ये कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं और लिंक https://corporate.pcjeweller.com/annual-report/ के साथ–साथ बीएसई लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और केफिनटेक की वेबसाइट क्रमशः https://www.bseindia.com/, https://www.nseindia.com/ तथा https://evoting.kfintech.com/ से एक्सेस किया जा सकता है। कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 44 के साथ पटित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को ई-चोटिंग सुविधा के माध्यम से एजीएम नोटिस में निर्दिष्ट व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने चीसी/ओएवीएम, रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-चोटिंग के माध्यम से सदस्यों की भागीदारी की सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसो के रूप में केफिनटेक की सेवाए ली हैं। सदस्यों की भागीदारी की सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में ई-वोटिंग सुविधा बुधवार, 27 सितंबर, 2023 सुबह 9:00 बजे (भा.मा.स.) से शुरू होगी और शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 को शाम 5:00 बजे (भा.मा.स.) समास होगी और उसके बाद किसी भी रिमोट ई-वोटिंग की अनुपति नहीं द	रजि. कार्यालयः 509, अरुणाचल बिल्डिंग, बाराखंभा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली–110001 वेबसाइट: www.goodluckindia.com, ई–मेल: goodluck@goodluckindia.com सीआईएन : L74899DL1986PLC050910 37वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, बुक क्लोजर और रिमोट ई–वोटिंग की जानकारी एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि गुडलक इंडिया लिमिटेड के सदस्यों की 37वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएन)) शनिवार, 30 सितंबर 2023 पूर्वांड 1100 बजे, वीडियो कॉनफ्रॅसिंग ('वीसी')/ अन्य ऑडियो वें विजुअल माध्यम ('ओएवीएम') के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियनों,सेवी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियनों,सेवी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियनों,सेवी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के साथ पठित विनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 08 दिसंबर, 2021, 14 दिसंबर, 2021 और 05 मई, 2022 के परिपत्र और सेवी परिपत्र सिं.10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2021, 14 दिसंबर, 2021 और 05 जनवरी, 2023 के प्रावधानों के अनुपालन में, एजीएम के नोटिस में निर्धारित साधाएण और विशेष व्यवसाय को निपटाने के लिए आयोजित की जाएगी। बैठक की सूचना,31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट और दूरस्थ इं-वोटिंग विवरण उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक नो ड में भेज दिए गए हैं जिनकी ई-मेल आईबी कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत है। शेयरधारकों को नोटिस ईमेल भेजने की अंतिन तिथि 05 सितंबर, 2023 है। ये दस्तावेज़ सदस्यों द्वारा डाउनलोड करने के लिए कंपनी की वेबसाइट www.goodluckindia.com पर भी उपलब्ध हैं। यदि आपने कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ अपनी ईमेल आईबी पंजीकृत नहीं की है, तो कृपया वित्त वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने और ई–वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करने के लिए नीचे दिए गए निर्वेशों की आईडी पंजीकृत नहीं की है, तो कृपया वित्त वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने और ई–वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करने के लिए नीचे दिए गए निर्वेशों का पालन करें। भौतिक धार्तितः शेयरघारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी की उन्यी एजीएम (वार्षिक आम	CIN No.: L74899DL1987PLC026617 Regd. Office : 3rd Floor, Surya Plaza, K-185/1, Sarai Julena, New Friends Colony, New Delhi – 110025, E-mail : cs@modisteel.net, Website : www.modisteel.com Phone : 011-49872442, 19. NOTICE OF 37th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OVAM") on Saturday, 30th September, 2023 at 01:30 PM, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 read with General Circular No. dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, 8th December, 2021, 14th December, 2021, May 5, 2022 and 28th December, 2022 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business as set out in the Notice of AGM. Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM or view the live webcast at https https://www.evotingindia.com. Members participating through the VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. In compliance with the relevant circulars, the electronic copy of Notice of the AGM alongwith Annual Report for the year 2022-23, have been sent on September 6, 2023 to all the members of the Company whose email address are registered with the Company / Depository Participant(s) / RTA (Skyline Financial Services Pvt. Ltd). The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.modisteel.com and on the website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com. NOTICE is also hereby given pursuant to regulation 42 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015 and section 91	9. श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री पारस नाथ श्रीवास्तव (गारंटर) निवासी मकान नं. 10, सादिक नगर, सिंहानी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201001 श्री/श्रीमती, यह, आपके ऋण खाता संख्या – 100741007318 के संदर्भ में है। इनके नाम से खाता है स्वर्गीय सुधीर कुमार ऋण खाता सं: 100741007316 इस तिथि को एनपीए घोषित 28–07–2023 संस्वीकृत ऋण सुविधायें पीएल-एलएपी-टीएल संस्वीकृत त्राण सुविधा फ. 17.00.000/- (रुपये सत्रह लाख मात्र) बकाया / पेऑफ राशि फ. 17.75.000/- (रुपये सत्रह लाख मात्र) उपरोक्त खातों को नोएडा-18 स्थित शाखा से प्राप्त संस्वीकृति पत्र के माध्यम से फ. 17.00.000/- (एपये सत्रह लाख मात्र) फ. 17.75.000/- (रुपये सत्रह लाख मात्र) उपरोक्त खातों को नोएडा-18 स्थित शाखा से प्राप्त संस्वीकृति पत्र के माध्यम से फ. 17.00.000/- (एपये सत्रह लाख मात्र) फ. 17.75.000/- (रुपये सत्रह लाख पाय) उपरोक्त खातों को नोएडा-18 स्थित शाखा से प्राप्त संस्वीकृत की गई है. यह ऋण खातो काफी समय से असंतोषजनक ढंग से परिचालित हो रहे हँ और इसलिये आप इस त्रुटि के तहत यहा इसमें ऊपप बताए अनुसार एसे ऋण के संबंध में अपने खाते को नियमित / समायोजित करने के लिए कदन उठाने में विफल रहे हँ। उक्त त्रुटि के दृष्टिगत. आपके खाते को व्यापार के नियमित अनुक्रम में अनुरक्षितानुसार खातों की बहियों में और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बँक के निर्दर्श वि या या है। तदनुसार, हम एतदद्वारा उपरोक सभी ऋण /अग्रिम /ऋण सुविधाओं को वायस लेते हैं और आप सभी सं संयुक्त रूप में और अलग-अलग आहवान करते हँ कि आप इस नोटिस की प्राप्ति को आत्र को अक्रिमक व्ययों / लागत आदि के साथ, 10-08-202
तहत बनाए गए नियमों और सेवी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के अनुपालन में 18वीं एजीएम के नोटिस ('एजीएम नोटिस') में निर्दिष्ट व्यवसाय को संचालित करने के लिए पीसी ज्वैलर लिमिटेड ('कंपनी') की 18वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शनिवार, 30 सितंबर, 2023 को सुबह 11:00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधन ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के साथ एजीएम नोटिस केवल उन सदरयों को इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भेजा गया है जिनके ई-मेल पता डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ('डीपी')/कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट-केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('केफिनटेक') के साथ पंजीकृत है। कंपनी ने 7 सितंबर 2023 को इनका डिस्पैच पूरा कर लिया है। ये कंपनी की वेवसाइट पर भी उपलच्ध हैं और लिंक https://corporate.pcjeweller.com/annual-report/ के साथ-साथ बीएसई लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और केफिनटेक की वेवसाइट क्रमशः https://www.bseindia.com/, https://www.nseindia.com/ तथा https://evoting.kfintech.com/ से एक्सेस किया जा सकता है। कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 44 के साथ पटित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से एजीएम नोटिस में निर्दिष्ट व्यवसाय पर इलेक्ट्रोनिक रूप से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने वीसी/ओएवीएम, रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से सदस्यों की भागीदारी की सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के र्ह्लाएम में केफिनटेक की सेवाएं ली हैं। सदस्यों की भागीदारी की सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूढ़े। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा बुधवार, 27 सितंबर, 2023 सुबह 9:00 बजे (भा.मा.स.) से शुरू होगी और शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 को शाम 5:00 बजे (भा.मा.स.) समाप्त होगी और उसके बाद किसी भी रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल वे सदस्य, जिनके नाम शनिवार, 23 सितंबर, 2023 ('कट-ऑफ तिथि') को सदस्यों के रजिस्टर/लाभभोगी स्वामियों की सूची में दर्ज हैं, केवल वही वोट देने (रिमोट ई-वोटिंग के म	रजि. कार्यालय: 509, अरुणाचल बिल्डिंग, वाराखंमा रोड, कर्नॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 वेवसाइट: www.goodluckindia.com, ई–मेल: goodluck@goodluckindia.com सीआईएन : L74899DL1986PLC050910 37वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, बुक क्लोजर और रिसोट ई–वोटिंग की जानकारी एलदद्वारा गोटेस दिया जाता है कि गुडलक इंडिया लिमिटेड के सदस्यों की 37वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएन) शनिवार, 30 सितंबर 2023 पूर्वाह 11:00 बजे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('यीसी')/ अन्य ऑडियो वे विजुअल माध्यम ('ओएवीएन') के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियनों,सेवी (पूचीबद्धता वायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियनों,सेवी (पूचीबद्धता वायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियनों,सेवी (पूचीबद्धता वायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2013 ('सुचीबद्धता विनियन') के साथ पठित कॉर्पोरेंट कार्य नंत्रालय द्वारा जारी सानन्य परिपत्र सं10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022के साथ पठित विनंगक 8 अप्रैल, 2020, 13 जर्मवरी, 2023 के परिपत्र और सेवी परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021,13 मई, 2022 और 05 जनवरी, 2023 के प्रावधनों के अनुपालन में, एजीएम के नोटिस में निर्धारित साधारण और विशेष व्यवसाय को निपटाने के लिए आयोजित की जाएगी। बैठक की सूचना,31 मार्च, 2023 को समाप्त वितीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट और दूरस्थ ई–वोटिंग विवरण जन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक नोड में भेज दिए गए हैं जिनकी ई–मेल आईडी कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी के साथ अपनी हैंने आडर्सडा कंगोन्ट्रत नहीं के है, तो कृपया वित्त वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने और ई–वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए अपनी ईने आईडी अंसनी/ हेंपॉजिटरी के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, तो कृपया वित्त वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने और ई–वोटिंग के विए लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें। भौतिक धारिताः शेयरधारकों अनुरोध है कि वे कंपनी को उग्यी एजीएन (वार्षिक आन बैठक) के लिए अपनी ईमेल आईडी रांनीक्र सो अनुरोध है कि वे कंपनी को उग्यी एजीएन (वार्षिक आन बैठक) के लिए अपनी इस संबंघ में सेवी द्वारा निधंरित आसंगिक जीने आदातीक के तर्ग, फेजन-मा, नई दिल्ली 100020,ईनेन आईडी तिमिटेड एन्	CIN No.: L74899DL1987PLC026617 Regd. Office : 3rd Floor, Surya Plaza, K-185/1, Sarai Julena, New Friends Colony, New Delhi – 110025, E-mail : cs@modisteel.net, Website : www.modisteel.com Phone : 011-49872442, 19. NOTICE OF 37th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OVAM") on Saturday, 30th September, 2023 at 01.30 PM, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 read with General Circular No. dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, 8th December, 2021, 14th December, 2021, May 5, 2022 and 28th December, 2022 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business as set out in the Notice of AGM. Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM or view the live webcast at https https://www.evotingindia.com. Members participating through the VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. In compliance with the relevant circulars, the electronic copy of Notice of the AGM alongwith Annual Report for the year 2022-23, have been sent on September 6, 2023 to all the members of the Company whose email address are registered with the Company / Depository Participant(s) / RTA (Skyline Financial Services Pvt. Ltd). The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.bseindia.com. NOTICE is also hereby given pursuant to regulation 42 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015 and section 91 of the Companies Act, 2013 readwith Rule 10 of the Companies (Management and A	8. श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री पारस नाथ श्रीवास्तव (गारंटर) निवासी मकान नं. 10, सादिक नगर, सिहानी गाजियाबाद उत्तर प्रवेश 201001 श्री/श्रीमती. यह, आपके ऋण खाता संख्या – 100741007316 के संदर्भ में है। इनके नाम से खाता है स्वगीय सुधीर कुमार ऋण खाता संख्या – 100741007316 के संदर्भ में है। इनके नाम से खाता है स्वगीय सुधीर कुमार ऋण खाता संः: 100741007316 इस तिथि को एनपीए घोषित 28–07–2023 संस्वीकृत ऋण सुविधार्य पीएल–एलएपी–टीएल संस्वीकृत राशि रु. 17.75.000/– (रुपये सत्रह लाख मात्र) बकाया / पेओंफ राशि रु. 17.75.000/– (रुपये सत्रह लाख मात्र) उपरोक्त खातों को नोएडा–18 रिथत शाखा से प्राप्त संस्वीकृति पत्र के माध्यम से रु. 17,00,000/– (रुपये सत्रह लाख मात्र) रु. 17.75.000/– (रुपये सत्रह ताख पिंगहत्तर हजार मात्र) उपरोक्त खातों को नोएडा–18 रिथत शाखा से प्राप्त संस्वीकृति पत्र के माध्यम से रु. 17,00,000/– (रुपये सत्रह लाख मात्र) रु. 17.75.000/– (रुपये सत्रह ताख मात्रक क्राप क्राति क्रप्र के संबंध में अपन खाते को नियमित / समायोजित करन के तिए कदम उठाने में विफल रहे हैं। उक त्रुटि के दृष्टिंग त आपके खाते को व्यापार के नियमित अनुक्रम में अपुरक्षितनुसार सम अपरंताषजन रहे हो उक त्रुटि के दृष्टिंग त आपके खाते को व्यापर के नियमित अनुक्रम में अपरंतानुसार सम रंगक करार संत्रविद्वा सिं संर्यक करा के प्रार्य के प्रार्य के तहत रखा या से क्रार्य के उत्तर सारं के अनुरक्षा स्वर्य के प्रार्य के सं के प्रित्त करा के जित्त करा के
तहत बनाए गए नियमों और सेवी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के अनुपालन में 18वीं एजीएम के नोटिस ('एजीएम नोटिस') में निर्दिष्ट व्यवसाय को संचालित करने के लिए पीसी ज्वैलर लिमिटेड ('कंपनी') की 18वीं वार्षिक आम बैटक ('एजीएम') शनिवार, 30 सितंबर, 2023 को सुबह 11:00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधन ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के साथ एजीएम नोटिस केवल उन सदरयों को इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भेजा गया है जिनके ई-मेल पता डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ('डीपी')/कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट-केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('केफिनटेक') के साथ पंजीकृत है। कंपनी ने 7 सितंबर 2023 को इनका डिस्पैच पूरा कर लिया है। ये कंपनी की वेवसाइट पर भी उपलब्ध हैं और लिंक https://corporate.pcjeweller.com/annual-report/ के साथ-साथ बीएसई लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और केफिनटेक की वेबसाइट क्रमशः https://www.bseindia.com/, https://www.nseindia.com/ तथा https://evoting.kfintech.com/ से एक्सेस किया जा सकता है। कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 44 के साथ पटित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से एजीएम नोटिस में निर्दिष्ट व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने वीसी/ओएवीएम, रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से सदस्यों की भागीदारी की सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में केफिनटेक की सेवाएं ली हैं। सदस्यों की भागीदारी की सुविधा प्रदान करने के खित '18वीं एजीएम में भाग लेने, रियोट ई-वोटिंग और 18वीं एजीएम में 'ई-वोटिंग'के लिए निर्देश'' को ध्यान से पढ़ें। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा बुधवार, 27 सितंबर, 2023 सुबह 9:00 बजे (भा.मा.स.) से शुरू होगी और शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 को शाम 5:00 बजे (भा.मा.स.) समाप्त होगी और उसके बाद किसी भी रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल वे सदस्थ, जिनके नाम शनिवार, 23 सितंबर, 2023 ('कट-ऑफ तिथि') को सदस्यों के र	रजि. कार्यालय: 508, अरुणाचल बिल्डिंग, बाराखंभा रोड, कर्नॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 वेबसाइट: www.goodluckindia.com, ई-मेत: goodluck@goodluckindia.com सीआईएन : L74899DL1980PLC050910 37वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, बुक क्लोजर और रिसोट ई-वोटिंग की जानकारी एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि गुडलक इंडिया लिमिटेड के सदस्यों की 37वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शनिवार, 30 सितंबर 2023 पूर्वाह 11:00 बजे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/ अन्य ऑडियो वे विजुअल माध्यम ('ओएबीएम') के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए पए नियमोंसेबी (सूचीबद्धता वायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2013 और उसके तहत बनाए पए नियमोंसेबी (सूचीबद्धता वायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य नंत्रालय द्वारा जांस सानान्य परिपत्र सं10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 के साथ पठित दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 08 दिसंबर, 2021, 14 दिसंबर, 2021 और 05 मई, 2022 के परिपत्र और संबी परिपत्र सं10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2021, 14 दिसंबर, 2021 और 05 मई, 2022 के प्रायवानों के अनुपालन में, एजीएम के नोटिस में निर्धारित साधारण और विशेष व्यवस्याय को निपटने के तिए आयोजित की जाएगी। बैठक की सूचना,31 मार्च, 2023 को समाप्त वितीय वर्ष की वार्षिक रियोट और दूरस्थ ई-जोटिरा वियरण जन सभी सदस्यों का इलेक्ट्रोनिक नोड में भेज दिए गए हैं जिनकी ई-नेल आईडी कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत है। शेयरधारकों को नोटिस ईनेल भेजने की अंतिनि तिथि 05 सितंबर, 2023 है। ये दरसावेज सदस्यों द्वारा डाउनलोड करने के लिए कंपनी की वेबसाइट www.goodluckindia.com पर भी उपलब्ध हैं। यदि आपने के पनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत है। शेयरधारकों को नोटिस ईनेल भेजने की अंतिन तिथि 05 सितंबर, 2023 है। ये दरसावेज सदस्यों हो हो ते के लिए लॉगिन विवरण प्रात करने के लिए अपनी ईनेल आईडी पंजीकृत करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशो का पालन करें। भीतेक धारिता: शेयखारकों अनुरोध है कि वे कंपनी की उन्यी एजीएम (वार्षिक आन बैठक) के लिए अपनी ईनेन जारेता: शेयखारकों से अनुरोध है के कंपनी के उन्ये एजीएम, वार्डिक आन बेठक) के लिए अपनी ईमेंर डारेता: रोयखारकों से अनुरोध है कि कृपया और क्ये इंग्र फ्रम्प, उन्हेत करें। इस संबंध मे सेबी द्वारा नियोंफिटर	CIN No.: L74899DL1987PLC026617 Regd. Office : 3rd Floor, Surya Plaza, K-185/1, Sarai Julena, New Friends Colony, New Delhi – 110025, E-mail : cs@modisteel.net, Website : www.modisteel.com Phone : 011-49872442, 19. NOTICE OF 3rth ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OVAM") on Saturday, 30th September, 2023 at 01.30 PM, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 read with General Circular No. dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, 8th December, 2021, 14th December, 2021, May 5, 2022 and 28th December, 2022 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business as set out in the Notice of AGM. Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM or view the live webcast at https https://www.evotingindia.com. Members participating through the VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. In compliance with the relevant circulars, the electronic copy of Notice of the AGM alongwith Annual Report for the year 2022-23, have been sent on September 6, 2023 to all the members of the Company whose email address are registered with the company / Depository Participant(s) / RTA (Skyline Financial Services Pvt. Ltd). The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.bseindia.com. NOTICE is also hereby given pursuant to regulation 42 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015 and section 91 of the Company shall remain closed from Monday, 25th September, 2023 to Saturda	9. श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री पारस नाथ श्रीवास्तव (गारंटर) निवासी मकान नं. 10. सादिक नगर. सिंहानी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201001 श्री /श्रीमती. यह. आपके ऋण खाता संख्या – 100741007318 के संदर्भ में है। इनके नाम से खाता है स्वर्गीय सुधीर कुमार ऋण खाता सं: 100741007316 इस तिथि को एनपीए घोषित 28–07–2023 संस्वीकृत ऋण सुविधायें पीएल-एलएपी-टीएल संस्वीकृत तरि को नोएडा–18 रु. 17,00,000/- (रुपये सन्नह लाख मात्र) बकाया / पेऑफ राशि रु. 17,75,000/- (रुपये सन्नह लाख मात्र) बकाता को नोएडा–18 रु. 17,75,000/- (रुपये सन्नह लाख मात्र) उपरोक्त खातों को नोएडा–18 रु. 17,75,000/- (रुपये सन्नह लाख मात्र) बकाता को नोएडा–18 रु. 17,75,000/- (रुपये सन्नह लाख मात्र) वताए अनुसार ऐसे ऋण के संबंध में अपने खाते को नियमित (समायोजित करने के तिए कत्व म उठाने श्रे संत्रि का के से एरें त्र कि यह ह सं कंध में भारतीय रिजर्व बँक के निर्देशों व दिशानिर्दशां के अनुरार एस तराए अनुसार एसे ऋण अविधाते के दियां में और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बँक के निर्वेशों व तिशानुसार स्वे के अनुरार ह म उत्तर सं उत्तर सं प्रे रे तुक सा उठाने श्रे अत्र अलग-अलग आहवान करते हैं कि आप इस नोटिस की प्राप्ति यां हो ततनुसार हम एतदद्वारा उपरोक्त सभी ऋण (अग्रिम/ऋण सुविधाओं को वापस लेते हैं और आप सभी से सं उक रुप सं और अलग-अलग आहवान करते हैं कि आप इस नोटिस की प्राप्ति के ला और आकस्मिक व्यॉ / लागन और अठि के साथा, 10-08-2022 के अनुसार, समी बकाया राशियों को तने सहित ऐसा सभी कारंपा आते के साथा, 10-08
तहत बनाए गए नियमों और सेवी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के अनुपालन में 18वीं एजीएम के नोटिस ('एजीएम नोटिस') में निर्दिष्ट व्यवसाय को संचालित करने के लिए पीसी ज्वैलर लिमिटेड ('कंपनी') की 18वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शनिवार, 30 सितंबर, 2023 को सुबह 11:00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधन ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के साथ एजीएम नोटिस केवल उन सदरयों को इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भेजा गया है जिनके ई-मेल पता डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ('डीपी')/कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट-केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('केफिनटेक') के साथ पंजीकृत है। कंपनी ने 7 सितंबर 2023 को इनका डिस्पैच पूरा कर लिया है। ये कंपनी की वेवसाइट पर भी उपलच्ध हैं और लिंक https://corporate.pcjeweller.com/annual-report/ के साथ-साथ बीएसई लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और केफिनटेक की वेवसाइट क्रमशः https://www.bseindia.com/, https://www.nseindia.com/ तथा https://evoting.kfintech.com/ से एक्सेस किया जा सकता है। कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 44 के साथ पटित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से एजीएम नोटिस में निर्दिष्ट व्यवसाय पर इलेक्ट्रोनिक रूप से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने वीसी/ओएवीएम, रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से सदस्यों की भागीदारी की सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के र्ह्लाएम में केफिनटेक की सेवाएं ली हैं। सदस्यों की भागीदारी की सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूढ़े। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा बुधवार, 27 सितंबर, 2023 सुबह 9:00 बजे (भा.मा.स.) से शुरू होगी और शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 को शाम 5:00 बजे (भा.मा.स.) समाप्त होगी और उसके बाद किसी भी रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल वे सदस्य, जिनके नाम शनिवार, 23 सितंबर, 2023 ('कट-ऑफ तिथि') को सदस्यों के रजिस्टर/लाभभोगी स्वामियों की सूची में दर्ज हैं, केवल वही वोट देने (रिमोट ई-वोटिंग के म	रिज. कार्यालयः 509, अरुणाचल बिल्डिंग, बाराखंमा रोड, कर्नॉट प्लेस, नई विल्ली–110001 वेबसाइट: www.goodluckindia.com, ई–मेत: goodluck@goodluckindia.com सीआईएन : L74899DL1986PLC050910 37वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, बुक क्लोजर और रिमोट ई–वोटिंग की जानकारी एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि गुडलक इंडिया लिनिटेड के सदस्यों की 37वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शनिवार, 30 सितंबर 2023 पूर्वांह 11:00 बजे, वीडियो कॉनफ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो वें विजुअल माध्यम (औएवीएम) के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों,सेवी (सूचीबद्धता दायिव और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों,सेवी (सूचीबद्धता दायिव और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम) के साथ पठित कॉपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं.10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2021 ने साथ पठित कॉपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं.10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2021, 14 दिसंबर, 2021 और 05 नर्च, 2020 के परिपत्र और सेबी परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021,13 मई, 2022 और 05 जनवरी, 2023 के प्रावधाने के अनुपालन में, एजीएम के नोटिस ने निर्धारित साधारण और विशेष व्यवसाय को निपटाने के लिए आयोजित की जाएगी। बैठक की सूचना,31 मार्च, 2023 को समाप्त वितीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट और दूरस्थ ई–वोटिंग विवरण जन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रोनिक नोड में भेज दिए गए हैं जिनकी ई–सेल आईडी कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत है। येयरधारकों को नोटिस ईमेल भेजने की अतिन तिथि 05 सितंबर, 2023 है। ये दस्तावेज सदस्यों द्वारा डारा डाउनलोड करने के लिए कंपनी की वेबसाइट www.goodluckindia.com पर भी उपलब्ध है। यदि आपने कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, तो कृपया वित वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रात करने और ई–वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण प्रात करने के लिए अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करने के लिए नीचे दिए गए निर्वेशों का पालन करे। भौतिक धारितः प्रेयरार को साथ अपनी और युप्त पर्ने को उरयी एजीएन, वार्र से ही द्वारा निधरित अन्य प्रासंगिक फॉनि, मोबदा वा विवरण, और व्रजि के तेजरे हा करान वित्र 10020,ईमेल आईडी investor@msserv.com ये सराइटट: www.masserv.com पर डाउनलोड टैब के तहत उपलब्ध है। आपसे अनुरोध है कि कृपया इसे नोट करे और खी	CIN No.: L74899DL1987PLC026617 Regd. Office : 3rd Floor, Surya Plaza, K-185/1, Sarai Julena, New Friends Colony, New Delhi – 110025, E-mail : cs@modisteel.net, Website : www.modisteel.com Phone : 011-49872442, 19. NOTICE OF 37th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OVAM") on Saturday, 30th September, 2023 at 01.30 PM, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 read with General Circular No. dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, 8th December, 2021, 14th December, 2021, May 5, 2022 and 28th December, 2022 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business as set out in the Notice of AGM. Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM or view the live webcast at https https://www.evotingindia.com. Members participating through the VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. In compliance with the relevant circulars, the electronic copy of Notice of the AGM alongwith Annual Report for the year 2022-23, have been sent on September 6, 2023 to all the members of the Company whose email address are registered with the Company / Depository Participant(s) / RTA (Skyline Financial Services Pvt. Ltd). The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.modisteel.com and on the website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.modisteel.com and on the website of Members and Shaer Transfer Books of the Company shall remain closed from Monday, 25th September, 2023 to Saturday, 30th September, 2023 (both day	8. श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री पारस नाथ श्रीवास्तव (गारंटर) निवासी मकान नं. 10, सादिक नगर, सिहानी गाजियाबाद उत्तर प्रवेश 201001 श्री/श्रीमती. यह, आपके ऋण खाता संख्या – 100741007316 के संदर्भ में है। इनके नाम से खाता है स्वगीय सुधीर कुमार ऋण खाता संख्या – 100741007316 के संदर्भ में है। इनके नाम से खाता है स्वगीय सुधीर कुमार ऋण खाता संः: 100741007316 इस तिथि को एनपीए घोषित 28–07–2023 संस्वीकृत ऋण सुविधार्य पीएल–एलएपी–टीएल संस्वीकृत राशि रु. 17.75.000/– (रुपये सत्रह लाख मात्र) बकाया / पेओंफ राशि रु. 17.75.000/– (रुपये सत्रह लाख मात्र) उपरोक्त खातों को नोएडा–18 रिथत शाखा से प्राप्त संस्वीकृति पत्र के माध्यम से रु. 17,00,000/– (रुपये सत्रह लाख मात्र) रु. 17.75.000/– (रुपये सत्रह ताख पिंगहत्तर हजार मात्र) उपरोक्त खातों को नोएडा–18 रिथत शाखा से प्राप्त संस्वीकृति पत्र के माध्यम से रु. 17,00,000/– (रुपये सत्रह लाख मात्र) रु. 17.75.000/– (रुपये सत्रह ताख मात्रक क्राप क्राति क्रप्र के संबंध में अपन खाते को नियमित / समायोजित करन के तिए कदम उठाने में विफल रहे हैं। उक त्रुटि के दृष्टिंग त आपके खाते को व्यापार के नियमित अनुक्रम में अपुरक्षितनुसार सम अपरंताषजन रहे हो उक त्रुटि के दृष्टिंग त आपके खाते को व्यापर के नियमित अनुक्रम में अपरंतानुसार सम रंगक करार संत्रविद्वा सिं संर्यक करा के प्रार्य के प्रार्य के तहत रखा या से क्रार्य के उत्तर सारं के अनुरक्षा स्वर्य के प्रार्य के सं के प्रित्त करा के जित्त करा के
तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के अनुपालन में 18वीं एजीएम के नोटिस ('एजीएम नोटिस') में निर्दिष्ट व्यवसाय को संचालित करने के लिए पीसी ज्वैलर लिमिटेड ('कंपनी') की 18वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शनिवार, 30 सितंबर, 2023 को सुबह 11:00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('चीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधन ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के साथ एजीएम नोटिस केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड हारा भेजा गया है जिनके ई-मेल पता डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ('डीपी')/कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट-केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('केफिनटेक') के साथ पंजीकृत है। कंपनी ने 7 सितंबर 2023 को इनका डिस्मैच पूरा कर लिया है। ये कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलच्ध हैं और लिंक https://corporate.pcjeweller.com/annual-report/ के साथ-साथ बीएसई लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और केफिनटेक की वेबसाइट क्रमशः https://www.bseindia.com/, https://www.nseindia.com/ तथा https://evoting.kfintech.com/ से एक्सेस किया जा सकता है। कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 44 के साथ पठित अधनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी आपने सदस्यों को इं-वोटिंग सुविधा के माध्यम से एजीएम नोटिस में निर्दिष्ट व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने वीसी/ओएवीएम, रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से सदस्यों की भागीदारी की सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में केफिनटेक की सेवाएं ली हैं। सदस्यों स्रे आयीर स्रेचि के पेर्शीएम नेटिस में डल्लियित ''18वी एजीएम में भान लेन, रिमोट ई-वोटिंग और 18वीं एजीएम में 'ई-वोटिंग' के लिए निर्देश'' को ध्यान से पढ़ें। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा बुधवार, 27 सितंबर, 2023 सुबह 9:00 बजे (भा.मा.स.) से शुरू होगी और शुक्रवार, 29 रितंबर, 2023 को शाम 5:00 बजे (भा.मा.स.) समास होगी और उसके बाद किसी भी रिमोट ई-वोटिंग को अनुमति नहीं दी जाएगी। के वल वे सदस्थ, जिनके नाम शनिवार, 23 सितंबर, 2023 ('कट-ऑफ तिथि') के सदस्यों	रजि. कार्यालय: 508, अरुणाचल बिल्डिंग, बाराखंभा रोड, कर्नॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 वेबसाइट: www.goodluckindia.com, ई-मेत: goodluck@goodluckindia.com सीआईएन : L74899DL1980PLC050910 37वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, बुक क्लोजर और रिसोट ई-वोटिंग की जानकारी एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि गुडलक इंडिया लिमिटेड के सदस्यों की 37वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शनिवार, 30 सितंबर 2023 पूर्वाह 11:00 बजे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/ अन्य ऑडियो वे विजुअल माध्यम ('ओएबीएम') के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए पए नियमोंसेबी (सूचीबद्धता वायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2013 और उसके तहत बनाए पए नियमोंसेबी (सूचीबद्धता वायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य नंत्रालय द्वारा जांस सानान्य परिपत्र सं10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 के साथ पठित दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 08 दिसंबर, 2021, 14 दिसंबर, 2021 और 05 मई, 2022 के परिपत्र और संबी परिपत्र सं10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2021, 14 दिसंबर, 2021 और 05 मई, 2022 के प्रायवानों के अनुपालन में, एजीएम के नोटिस में निर्धारित साधारण और विशेष व्यवस्याय को निपटने के तिए आयोजित की जाएगी। बैठक की सूचना,31 मार्च, 2023 को समाप्त वितीय वर्ष की वार्षिक रियोट और दूरस्थ ई-जोटिरा वियरण जन सभी सदस्यों का इलेक्ट्रोनिक नोड में भेज दिए गए हैं जिनकी ई-नेल आईडी कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत है। शेयरधारकों को नोटिस ईनेल भेजने की अंतिनि तिथि 05 सितंबर, 2023 है। ये दरसावेज सदस्यों द्वारा डाउनलोड करने के लिए कंपनी की वेबसाइट www.goodluckindia.com पर भी उपलब्ध हैं। यदि आपने के पनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत है। शेयरधारकों को नोटिस ईनेल भेजने की अंतिन तिथि 05 सितंबर, 2023 है। ये दरसावेज सदस्यों हो हो ते के लिए लॉगिन विवरण प्रात करने के लिए अपनी ईनेल आईडी पंजीकृत करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशो का पालन करें। भीतेक धारिता: शेयखारकों अनुरोध है कि वे कंपनी की उन्यी एजीएम (वार्षिक आन बैठक) के लिए अपनी ईनेन जारेता: शेयखारकों से अनुरोध है के कंपनी के उन्ये एजीएम, वार्डिक आन बेठक) के लिए अपनी ईमेंर डारेता: रोयखारकों से अनुरोध है कि कृपया और क्ये इंग्र फ्रम्प, उन्हेत करें। इस संबंध मे सेबी द्वारा नियोंफिटर	CIN No.: L74899DL1987PLC026617 Regd. Office : 3rd Floor, Surya Plaza, K-185/1, Sarai Julena, New Friends Colony, New Delhi – 10025, E-mail : cs@modisteel.net, Website : www.modisteel.com Phone : 011-49872442, 19. NOTICE OF 97th ANNUAL GENERAL MEETING; BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OVAM") on Saturday, 30th September, 2023 at 01.30 PM, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 read with General Circular No. dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, 8th December, 2021, 14th December, 2021, May 5, 2022 and 28th December, 2022 and other applicable circulars vill be able to attend the AGM through VC / OAVM or view the live webcast at https https://www.evotingindia.com. Members participating through the VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. In compliance with the relevant circulars, the electronic copy of Notice of the AGM alongwith Annual Report for the year 2022-23, have been sent on September 6, 2023 to all the members of the Company whose email address are registered with the Companies Act, 2013. In compliance with the relevant circulars, the electronic copy of Notice of the AGM alongwith Annual Report for the year 2022-23, have been sent on September 6, 2023 to all the members of the Company shole email address are registered with the Company / Depository Participant(s) / RTA (Skyline Financial Services Pvt. Ltd). The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.modisteel.com and on the website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.modisteel.com. NOTICE is also hereby given pursuant to regulation 42 of the Securities Exchange	8. श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री पारस नाथ श्रीवास्तव (गाएंटर) निवासी मकान नं. 10, सादिक नगर, सिंहानी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201001 श्री / श्रीमती, यह, आपके ऋण खाता संख्या – 100741007316 के संदर्भ में है। इनके नाम से खाता है स्वर्गीय सुधीर कुमार ऋण खाता सं: 100741007316 इस तिथि को एनपीए घोषित 28–07–2023 संरवीकृत ऋण सुविधार्थ पीएल-एलएपी-टीएल संरसीकृत तराश रु. 17.75.000/- (रुपये सत्रह लाख मात्र) बकाया / पेओफ राश रु. 17.75.000/- (रुपये सत्रह लाख मात्र) उपरोक खातों को नोएडा–18 स्थित शाखा से प्राप्त संरवीकृति पत्र के माध्यम से रु. 17.00.000/- (रुपये सत्रह लाख मात्र) रु. 17.75.000/- (रुपये सत्रह ताख पिचहत्तर हजार मात्र) बकाया / पेओफ राश रु. 17.75.000/- (रुपये सत्रह ताख पिचहत्तर हजार मात्र) उपरोक खातों को नोएडा–18 स्थित शाखा से प्राप्त संरवीकृति पत्र के माध्यम से रु. 17.00.000/- (रुपये सत्रह लाख मात्र) रु. 17.75.000/- (रुपये सत्रह ताख पिचहत्तर हजार मात्र) उपरोक तर है है। उक त्रुटि के दुष्टिगत, आपके खाते को व्यापार के नियमित अनुकम में अनुपक्षितानुसार स्थ असंतोषजनक कर ने पर परियहित सं काय स्थतां में भारतीय रिकत रह है। उक त्रुदि के तहत यहा इसमें ऊपर वता एक प्रविक्रित की तारी तर के अनुपक्षितानुसार हम एतदद्द्दारा उपरोक स्था के श्र राग (अद्रिय परियायित चे कि के पर ने वियमित अत्रका पार सं उत्त यहा इसमें उपर बतार अनुसार संगे और इस संबंध में भारतीय रिजत के को वर्यात के तार प्रवनुत्त सिं का अनुपक्ष तानुसार सं उत्त प्रवत्र प्रवि क्र का प्राप्त सं ते हि प्रवत
तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के अनुपालन में 18वीं एजीएम के नोटिस ('एजीएम नोटिस') में निर्दिष्ट व्यवसाय को संचालित करने के लिए पीसी ज्वैलर लिमिटेड ('कंपनी') को 18वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शनिवार, 30 सितंबर, 2023 को सुबह 11:00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधन ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एमसीए परिपत्रों और सेबी परिषठ SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के साथ एजीएम नोटिस केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भेजा गया है जिनके ई-मेल पता डिपॉजिटरी पार्टिसिपॅट्स ('डीपी')/कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट-केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड ('केफिनटेक') के साथ पंजीकृत है। कंपनी ने 7 सितंबर 2023 को इनका डिस्मैच पूरा कर लिया है। ये कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं और लिंक https://corporate.pcjeweller.com/annual-report/ के साथ-साथ बीएसई लिमिटेड, 'नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और केफिनटेक की वेबसाइट क्रमश: https://www.bseindia.com/, https://www.nseindia.com/ तथा https://evoting.kfintech.com/ से एक्सेस किया जा सकता है। कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 44 के साथ पटित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपाल में, कंपनी अपने सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से एजीएम नोटिस में निर्दिष्ट व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने वोसी/ओएवीएम, रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग खे माध्यम से एजीएम और श्रि की भागीदारी की सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में केफिनटेक की सेवाएं ली है। सदस्यों की भागीदारी की सुविधा प्रदान करने के लिए ए जेंसी के स्वन हो/ को अनुमति नहीं दो जाएगी। के उनुमति नहीं दो जाएगी। के उनकदार होंन और 18वी एजीएम में 'ई-वोटिंग' के खिल ने थियोर प्रार हा नोटिंग की अनुमति नहीं दो जाएगी। के हकदार होंन और उनके मतदान का अधिकार कट-ऑफ तिथि' के अनुसार कंपनी की चुकता इकियटो शेबर पूर्जी में उनके हिस्से के अनुपा में होना। कोई व्यकि जो कट-ऑफ तिथि पर सदस्य नहीं है, उसे इस नोटिस को केवल सूचना के रूफे में लेना चाहिए। कंप	रणि. कार्यालय: 509, अरुणाचल विल्डिंग, वाराखंभा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 वेवसाइट: www.goodluckindia.com, ई-नेल: goodluck@goodluckindia.com सीआईएन : L74899DL1986PLC050910 37वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, बुक क्लोजर और रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी एतवढ़ारा नोटिस दिया जाता है कि गुडलक हडिया विभिदेक संदर्श्यों की उग्वी वार्षिक आम वैठक (एजीएम) शनिवार, 30 सितंबर 2023 पूर्वांड 11:00 वजे, वीडियों कॉन्फ्रोंसिंग ('वीसी')/ अन्य ऑडियो वें विजुअल माध्यम ('ओएपीएन') के माध्यम से कंपनी अधिनियन, 2013 और उसके तहन बनाए पर पियाने,सेवी (सूचीबद्धता वायिव और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम) के साथ पठित कॉर्जोर क्र कोल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 08 दिसंबर, 2022 के साथ पठित दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 08 दिसंबर, 2021, 14 दिसंबर, 2021 और 05 मई, 2022 के परिपत्र और सेवी परिपत्र दिनाक 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021, 13 मई, 2022 और 06 जनवरी, 2023 के प्रावसनों के अनुपालन में, एजीएम के नोटिस में निर्धारित साधारण और विशेष व्यवसाय को निपटाने के लिए आयोजित की जाएगी। बैठक की सूचना,31 नार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट और दूरस्थ ई–योटिंग विराण उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रोनिक नोड ने भेज दिए पए हैं जिनकी ई–नेल आईडी कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी के साथ पांजीकृत हैं। शेयरघारको को नोटिस ईनेल भेजने की अंतिम तिथि 08 सितबर, 2023 है। ये दस्तावेज सदस्यों हो। या डाउनतोड करने के लिए कंपनी की वेब्साइट www.goodluckindia.com पर भी उपलब्ध है। यदि आपने कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, तो कृपया यित वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्राव करने और ई–वोटिंग के विर्ण तिन विर्याय प्रात्त करे। भीतिक धार्तता शेरखलारको से अनुरोध है कि वे कंपनी की अत्री एजीएम (वार्षिक आन बैठक) के लिए अपनी ईनेत जाईडी, मांबाइल नकर, बैंक खाता वियरण और/या फॉर्ग आईएसपा जार करो के लिए अपनी हेंगेत लाईडी, पंजीकृत करने के सिए नोचे दिए गए पिर्रेया को प्रेत्त प्रती कि खान बैठक) के तिए अपनी होत दा खरका से वाल भियर्ग आरयिक जरेना के अपना विवरण समय पर आपडेट करे। इस संबंव मे सेवी हाल कियर्रिय प्रात्ति प्रासीक क जीत प्रांया कर जरे। इस संबंव मे सेवी हाल कियित जप्रात करें। इस संबंव	CIN No: L74899DL1987PLC026617 Regd. Office : 3rd Floor, Surya Plaza, K-185(1, Sarai Julena, New Friends Colony, New Delhi – 10025, E-mail : cs@modisteel.net, Website : www.modisteel.com Phone : 011-49872442, 19. NOTICE 0F 3rh ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTINGINFORMATION NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OVAM") on Saturday, 30th September, 2023 at 01.30 PM, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 read with General Circular No. dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, 8th December, 2021, 14th December, 2021, May 5, 2022 and 28th December, 2022 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business as set out in the Notice of AGM. Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM or view the live webcast at https https://www.evotingindia.com. Members participating through the VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. In compliance with the relevant circulars, the electronic copy of Notice of the AGM alongwith Annual Report for the year 2022-23, have been sent on September 6, 2023 to all the members of the Company whose email address are registered with the Company / Depository Participant(s) / RTA (Skyline Financial Services Pvt. Ltd). The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.modisteel.com and on the website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.modisteel.com and on the website of the Companies (Management and Administration) Rule, 2014, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed fr	 9. श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री पारस नाथ श्रीवास्तव (गारंटर) निवासी मकान नं. 10. सादिक नगर. सिंहानी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201001 श्री/श्रीमती. यह. आपके ऋण खाता संख्या – 100741007316 के संदर्भ में है। इनके नाम से खाता है स्वर्गीय सुधीर कुमार ऋण खाता सं: 100741007316 इस तिथि को एनपीए घोषित 28–07–2023 संस्वीकृत ऋण सुविधायें पीएल-एलएपी-टीएल संस्वीकृत त्ररण सुविधायें पीएल-एलएपी-टीएल संस्वीकृत त्ररण सुविधायें परिल-एलएपी-टीएल संस्वीकृत त्ररण सुविधायें एपएक एलएपी-टीएल संस्वीकृत त्ररण सुविधा रे क. 17.70.000/– (रुपये सन्नह लाख मिन्न) बकाया / पेऑफ राशि रु. 17.75.000/– (रुपये सन्नह लाख पिचडत्तर हजार मात्र) उपरोक्त खातों को नोएडा–18 स्थित शाखा से प्राप्त संस्वीकृति पत्र के माध्यम से रु. 17.00.000/– (रुपये सन्नह लाख मात्र) की एक ऋण सुविधा संस्वीकृत की गई है, यह ऋण खातो काफी समय से असंतोषजनक ढंग से परिचालित हो रहे हैं और इसलिये आप इस त्रुटि के तहत यहां इसमें ऊपर बताए अनुसार ऐसे ऋण के संबंध में आपने खाते को नियमित/समायोजित करने के लिए कदम उठाने में विफल रहे हैं। उक्त त्रुटि के दुष्टिगत, आपके खाते को व्यापार के नियमित अनुक्रम में अनुरक्षितानुसार खातों की बहियों में और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बंक के निर्देशों व दिशानिर्देशों के अनुसार 28–07–2023 को एक गैर-निष्पादित परिसंपति के रूप में बर्गीकृत कर दिया गया है। तदनुसार. हम एतदद्वारा उपरोक्त सभी ऋण /अग्रिम/ऋण सुविधाओं को वापस लेते हैं और आप सभी से संयुक्र रूप में और अलग-अलग आहवान करते हैं कि आप इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर, प्रतिमूत परिसंपतियों की प्रतिभूति पर भविष्य के व्याज और आकस्मिक वययों/लागत आदि के साथ. 10–08–2023 के अनुसार, सभी बकाया राशियों का भुगतान और क्रोडेट जमा करें, जो कि कुल निलाकर रु. 17.75.000/– (रुपये सन्नह लाख पिचहत्तर इजार मात्र) के लगभग बकाया है. और ऐसा न करने पर बैंक प्रतिभूत परिसंपतियों का क्रबो में ले से सि को कार्रवाइयों करेगा और पहे, असाइनमेंट या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण के अपेक्षित वितेख, दस्तावेज और अनुबंध निष्यादित करेगा, जैसा कि नीचे उल्लिखित प्रतिमूत परिसंपतियों की वसूती के लिए अधिनियम की धारा 13 एवं अन्य प्रावधानों के अनुरूप समीचीन समझा जाएगा। प्रतिमूत परिसंपतियां वा व
तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के अनुपालन में 18वीं एजीएम के नोटिस ('एजीएम नोटिस') में निर्दिष्ट व्यवसाय को संचालित करने के लिए पीसी ज्वैलर लिमिटेड ('कंपनी') की 18वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शनिवार, 30 सितंबर, 2023 को सुबह 11:00 वजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधन ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित को जाएगी। एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनंक 5 जनवरी, 2023 के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के साथ एजीएम नोटिस केवल उन सदस्यों को इंलेट्रॉलिम मोड द्वारा भेजा गया है जिनके ई-मेल पता डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ('डीपी')/कंपनी/रजिस्ट्रार और देलफर एजेंट-केफिन टेक्नोलॉर्जाज लिमिटेड ('केफिनटेक') के साथ पंजीकृत है। कंपनी न 7 सितंबर 2023 को इनका डिस्पैच पूरा कर लिया है। ये कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं और लिंक https://corporate.pcjeweller.com/annual-report/ के साथ-साथ बीएसई लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और केफिनटेक की वेबसाइट क्रमशः https://www.bseindia.com/, https://www.nseindia.com/ तथा https://evoting.kfintech.com/ से एक्सेस किया जा सकता है। कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 44 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्थों को इं-वोटिंग सुविधा के माध्यम से एजीएम नोटिस में निटिंष्ट व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने वोसी/ओएवीएम, रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में इं-वोटिंग के माध्यम से एत्रिएम नेर सर्थों की आगीदारी की सुविध प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में केफिनटेक की सेवाएं ली है। सदस्यों की आगीदारी की सुविध प्रदान करने लिए एजेंसी के रूप में केफिनटेक की सेवाएं ली हैं। सदस्यों से आगरीदारी की सुविध प्रदान करने लिए ने विथ') को ख्वत से पढ़ी एजीएम में भा लेने, रिमोट ई-वोटिंग और 18वी एजीएम में 'ई-वोटिंग' के लिए हिर्द ''कोटिंग के माध्यम से और एजीएम में के कत्व र सदस्यों की आगरीदारी की सुविध ये प्रत्त स्र क्रिय के अनुसार कंप में के उनटल कर नी सेवाएगी। (क्रेवा के सत्यद, जिनके नाम शनिवार, 23 सितंबर, 2023 ('कट-ऑफ तिथि') को ख	रिज. कार्यालय: 509, अरुणाचल बिल्डिंग, बाराखंमा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 वेक्साइट: www.goodluckindia.com, ई-नेंत: goodluck@goodluckindia.com सीआईएन : L74899DL1986PLC050910 37वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, बुक क्लोजर और रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी एतवढ़ारा नोटिस दिया जाता है कि गुडलक इंडिया लिनिटेड के सदस्यों की उन्धी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शनिवार, 30 सितंबर 2023 पूर्वांड 1100 बजे, वीडियो कॉनफ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो वे विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से कपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए पए गियनोर सेसी (सूचीबद्धता दायिव और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2013 और उसके तहत बनाए पए गियनोरे सेसी (सूचीबद्धता दायिव और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम) के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य नंत्रालय डाग्रा जारी सामान्य परिवन्न सं 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2027 के साथ पठित विनॉर्थ हे असैल, 2020. 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 08 दिसंबर, 2021, 13 मई, 2022 और 06 जनवरी, 2023 के प्रावेश से से परिवन्न दिनाक 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021, 13 मई, 2022 और 06 जनवरी, 2023 के प्रावेश से से परिवन्न दिनाक 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021, 31 मई, 2022 और 05 जनदरी, 2023 के प्रावेश से सेपा परिवन्न देनाक 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021, 31 मई, 2022 और 05 जनवरी, 2023 के प्रावेशने सेपायित्र दिनाक 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021, 31 सई, 2022 और 05 जनदरी, 2023 के प्रावेशन की जाएगी। बैठक की सूचना,31 मार्च, 2023 को समाप्त वितीय वर्ष की वार्षिक रियेट और दूरस्थ ई-वोटिंग विवरण जन सभी सदस्यों के हलेकट्रॉनिक मोड में भेज दिए गए हैं जिनकी देन्ते राइंखे कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी के साथ अपनी इंगर डाउपलोड करने के लिए कंपनी की वेबसाइट www.goodluckindia.com पर भी उपलब्ध है। यदि आपके कपनी/डिपॉजिटरों के साथ अपनी ईंगर आंडडी पजीकृत नहीं की है, तो कृपया वित वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक रियोर्ट प्राव करने और ई–देवोटेंग के जियन तिंग को रात होपा करनो के लिए अपनी ईंमेल आईडी, पजीकृत करने के दिए नोचे दिए गए निरेशों का पालन करे। भौतिक धारित: शेरयधारकों से अनुरोध ई कि कंपनी की उन्यी एजीएम, (यार्षिक आम बैटक) के लिए अपनी इंसेस में सेवी द्वारा निधांरित प्रासंगिक जींन जरानी करं और उपना विवरण समय पर अपडट करे। इंसेस्व में सेवी द्वारा निधांरित प्रासंगिक कॉन	CIN No: 174899DL1987PLC026617 Regd. Office : 3rd Floor, Surya Plaza, K-185/1, Sarai Julena, New Friends Colony, New Delhi – 110025, E-mail : cs@modisteel.net, Website : www.modisteel.com Phone : 011-49872442, 19. NOTICE 0F37th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND EVOTING INFORMATION NOTICE of S7th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND EVOTING INFORMATION NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OVAM") on Saturday, 30th September, 2023 at 01.30 PM, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 read with General Circular No. dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, 8th December, 2021, 14th December, 2021, May 5, 2022 and 28th December, 2022 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"). to transact the business as set out in the Notice of AGM. Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM or view the live webcast at https https://www.evotingindia.com. Members participating through the VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. In compliance with the relevant circulars, the electronic copy of Notice of the AGM alongwith Annual Report for the year 2022-23, have been sent on September 6, 2023 to all the members of the Company whose email address are registered with the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Company's website at www.modisteel.com and on the website of the Stock Exchange Le. BSE Limited at www.modisteel.com and on the website of the Stock Exchange Le. BSE Limited at www.modisteel.com and on the website of the Stock Exchange Le. BSE Limited at www.modisteel.com and on the wobice of the	9. श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री पारस नाथ श्रीवास्तव (गारंटर) निवासी मकान नं. 10, सादिक नगर, सिंहानी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201001 श्री /श्रीमती, यह, आपके ऋण खाता संख्या – 100741007316 के संदर्भ में है। इनके नाम से खाता है प्यांगिय सुधीर कुमार ऋण खाता संः: 100741007316 इस तिथि को एनपीए घोषित 28-07-2023 संस्वीकृत ऋण सुविधायें पीएल-एलएपी-टीएल संस्वीकृत ऋण सुविधायें 9.07-2023 संस्वीकृत तहाशि ७. 17.00.000/- (श्र्मये सत्रह लाख मात्र) वकाया / प्रेऑक राशि ७. 17.75.000/- (श्र्मये सत्रह लाख पिवहत्तर हजार मात्र) उपरोक खातों को नोएडा-18 स्थित शाखा से प्राप्त संस्वीकृति पत्र के माध्यम से ७. 17.00,000/- (श्र्मये सत्रह लाख मात्र) ७. 17.75.000/- (श्र्मये सत्रह लाख पिवहत्तरा हा इसमें ऊप वकाया / प्रेऑक राशि ७. 17.75.000/- (श्र्मये सत्रह लाख पिवहत्तराहा इममें ऊप अपरेक स्था के संरेख के शाखा से प्राप्त संस्वीकृत की गई है. यह ऋण खातो काकार्म समय से उपरोक खाते को नोएडा-18 स्थित शाखा से प्राप्त संस्वीकृति पत्र के माध्यम से ७. 17,00,000/- (श्र्मये सत्रह लाख मात्र) क. 17.75.000/- (श्र्मये सत्रह लाख मात्र) वकारा अनुत्सर रहे है। उक जुटि के हंटियत, आपके खाते को व्यापार के नियमित अनुक्रम में अनुरुशितानुसार अपरेक रा रहे हैं वक जु ट्रे के ट्रे दिया ता या है। तदनुनुसार 28-07-2023 को एक गैर-नियादित परिसंपतिय के प्रार्म
तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के अनुपालन में 18वीं एजीएम के नोटिस ('एजीएम नोटिस') में निर्दिष्ट व्यवसाय को संचालित करने के लिए पीसी ज्वैलर लिमिटेड ('कंपनी') की 18वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शनिवार, 30 सितंबर, 2023 को युबह 11:00 बजे (भा.मा.स.) पीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधन ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एमसीए परिपत्रों और सेवी परिपत्र SEBI/HO/CFD/POI-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के साथ एजीएम नोटिस केवल उन सदस्यों को इत्तेव्यूनिक मोड द्वारा पेजा गया है जिनके ई-मेल पता डिपॉजिटरी पार्टिसियेंस ('डीपी')/कंपनी/रजिस्ट्रार और रेत्वेल्ट्रनिक मोड द्वारा पेजा गया है जिनके ई-मेल पता डिपॉजिटरी पार्टिसियेंस ('डीपी')/कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट-केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('केफिनटेक') के साथ पंजीकृत है। कंपनी ने 7 सितंबर 2023 को इनका डिरमैच पूरा कर लिया है। ये कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं और लिंक https://corporate.pcjeweller.com/annual-report/ के साथ-साथ बीएसई लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और केफिनटेक की वेबसाइट क्रमशः https://www.bseindia.com/, https://www.nseindia.com/ तथा https://evoting.kfintech.com/ से एक्सेस किया जा सकता है। कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 44 के साथ पटित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को इं-वोंटिंग सुविधा के माध्यम से एजीएम नोटिस में निर्दिष्ठ व्वलसाय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने को सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने वीसी/ओएवीएम, रिमोट ई-वोंटिंग के एजीएम में मं केकिनटेक की सेवाएं ली हैं। सदस्यों की भागीदारी की सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में केफिनटेक की सेवाएं ली हैं। सदस्यों की भागीदारी की सुविधा प्रदाल निद्ध '' किया एजीएम में भाग लेने, रिमोट ई-वोंटिंग और 18वी एजीएम में 'ई-वोटिंग' के लिए निर्दिश'' के स्वान सं पर्ह ! रिमोट ई-वोटिंग सुविधा बुयवार, 27 सितंबर, 2023 सुबह 9:00 बचे ('सार स' तेहिं') की प्र खुक्कार, 9 अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल चे सदस्य, जिन्के नाम शनिवार, 23 सितंबर, 2023 ('कट-ऑफ तिथि'	र्फि. कार्यालयः 509, अरुणाचल बिल्डिंग, बाराखंभा रोड, कर्नोट फंस, नई दिल्ली–110001 वेबसाइट: www.goodluckindia.com, ई–मेल: goodluck@goodluckindia.com सीआईएन : L7.4899DL1986PLC050910 37वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, बुक करोजर और रिसोट ई–वोटिंग की जानकारी एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि मुडलक इडिया लिमिटेड के सदस्यों की 37वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शनिवदा. 30 सितंबर 2023 पूर्वांड 1100 बजे, तीडिया कांफ्रोंसेग (यीसी)/ अन्य ऑडियो वे विजुअल नाय्यन (ओएवीएम') के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियनो,सेवी (यूसीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आबयरकताएं) विनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियन) के साथ पठित विनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 जमैत, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 08 दिसंबर, 2022 को स्पाप विति दिनांक 8 अप्रैल, 2020, के प्ररिप्त्र और सेवी परिपत्र दिनांक 22 वर्स, 2021, 14 दिसंबर, 2021 और 65 मई, 2022 के प्रायेज की जाएगी। बेठक की सूचनात्रा नाय स्थ्र 2021, 13 मई, 2022 और 05 जनवरी, 2023 के प्रावचानों के जायुपाने बेठक की सूचनात्रा नास में 2023 को स्माप्त वितीय वर्य की वार्षिक रिपोर्ट और दूरस्थ ई–वोटिंग विवरण उन सभी सदस्यों को इलेकट्रॉनिक मोड में भेज दिए गए हैं जिनकी ई–नेल आईडी कंपनी/आरटीए, डियॉजिटरी के साथ अपनी ईनेल जाईडी पंजीकृत नहीं की है, तो कृपमा वित वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने और ई–वोटिंग क लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए अपनी ईनेल आईडी पंजीकृत करने के लिए नीचे दिए गए निर्वेश हो पंजीकृत नहीं की है, तो कृपया वित वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने और ई–वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए अपनी ईनेल आईडी पंजीकृत करने के लिए नीचे दिए गए निर्वेश की आयी एजीएम (वार्षिक आम बैठक) के लिए अपनी ईनेत आईडी, नोबाइत नवर, बैंक खाता विवरण और/या जोन आईएसजार–1 और सेवी द्वारा नियदिस्त लिनिटेड एनडी टी–34, दूसरी माजिट, आंख वार्यायोत के उपयी एजीएम (वार्षिक आम बैठक) के लिए अपनी ईनेत आईडी, नोबाइत नवर, बैंक खाता विरार्ण अर/या जोन अंरेएरआर–1 और सेवी द्वारा नियार्ड करें। इस संबंसे में के हारा निधारित प्रासीनेक प्रायिटिस प्रेरिसिय द्वारी के प्रान करें। श्रम्याका कं जोन्दर के स्वर्य करें ची के द्यार राज्य करें और अपना विवरण समय पर अखटेट करें। इंमें दास्ता निंद प्रासीरित प्रासींगिक प्रारित कर्व क	CIN No.: 1748990L1987PLC026617 Regd. Office : 3rd Floor, Surya Plaza, K-185/1, Sarai Julena, New Friends Colony, New Delhi – 110025, E-mail : cs@modisteel.net, Website : www.modisteel.com Phone : 011-49872442, 19. NOTICE 0F37th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OVAM") on Saturday, 30th September, 2023 at 01.30 PM, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 read with General Circular No. dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, 8th December, 2021, 14th December, 2021, May 5, 2022 and 28th December, 2022 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business as set out in the Notice of AGM. Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM or view the live webcast at https https://www.evotingindia.com. Members participating through the VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. In compliance with the relevant circulars, the electronic copy of Notice of the AGM alongwith Annual Report for the year 2022-23, have been sent on September 6, 2023 to all the members of the Company whose email address are registered with the Company / Depository Participant(s) / RTA (Skyline Financial Services Pvt. Ltd). The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.bseindia.com. NOTICE is also hereby given pursuant to regulation 42 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015 and section 91 of the Company shall remain closed from Monday, 25th September, 2023 to Saturday	9. श्री अरुण कुमार श्रीवार्सव पुत्र श्री पारस नाथ श्रीवास्तव (गारंटर) निवासी मकान नं. 10. सादिक नगर. सिंहानी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201001 श्री/श्रीमती. यह. आपके ऋण खाता संख्या – 100741007316 के संदर्म में है। इनके नाम से खाता है पवगीय सुधीर कुमार ऋण खाता संख्या – 100741007316 इंसर्वमें है। इनके नाम से खाता है पवगीय सुधीर कुमार ऋण खाता सं: 100741007316 इस तिथि को एनपीए घोषित 28–07–2023 संस्वीकृत ऋण खुविधाये पीएल-एलएपी-टीएल संसर्वकृत तराशि फ. 17.00.000/- (रुपये सत्रह लाख मात्र) बकाया / पेओंफ ताशि फ. 17.75.000/- (रुपये सत्रह लाख मात्र) उपरोक खातों को नोएडा18 स्थित शाखा से प्राप्त संस्वीकृत की गई है. यह ऋण खाता काफी समय से अंसंतीवजनक ढंग सं परिवातित हो रहे हैं और इसलिये आप इस तुटि के तहत यहा इसमें ऊपर बताए अनुसार ऐसे ऋण क संबंध में आपने खाते को नियमित / समायोजित करने के लिए कदम उठाने में विफल रहे हैं। उक्त तुटि के दुष्टिगत. आपके खाते को व्यापार के निर्वमी व दियानिर्वेशां के अनुसार 28–07–2023 को एक गैर–निष्पादित परिसंपतियों के यापार के निर्वमी व दियानिर्वेशा के अनुसार 28–07-2023 को एक गैर–निधादित परिसंपतियों के आप इस नोटिस की प्राप्ति की तरीख से अंधुक रुप ते आर अतग-अत्रा आख्वान करते हैं कि आप इस नोटिस की प्रार्ति की तरीख के 00 दिगे को अवधि के नीतर, प्रतिमूत परिसंपतियों की प्रतिमूत परिसंपतियों को कुगतात्व की तीराख से 60 दिने करा और अतनम-अत्रता आख्वान करसे, हो से प्रतम्त परि स्व वाख्या राशियों को वसूती रेले सिकी वर्गयों/लागत आदि के साध, 10–08–2023 के अनुसार संपीत्रता ये के सो तेने सहित ऐसी सम्रा कर्तच्या करेगा और पहे. असाहमनें या बिक्री के माध्यम से हस्तातेपा को अप्
तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के अनुपालन में 18वीं एजीएम के नोटिस ('एजीएम नोटिस') में निर्दिष्ट व्यवसाय को संचालित करने के लिए पीसी ज्वैलर लिमिटेड ('कंपनी') की 18वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शनिवार, 30 सितंबर, 2023 को सुबह 11:00 वजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधन ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित को जाएगी। एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनंक 5 जनवरी, 2023 के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के साथ एजीएम नोटिस केवल उन सदस्यों को इंलेट्रॉलिम मोड द्वारा भेजा गया है जिनके ई-मेल पता डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ('डीपी')/कंपनी/रजिस्ट्रार और देलफर एजेंट-केफिन टेक्नोलॉर्जाज लिमिटेड ('केफिनटेक') के साथ पंजीकृत है। कंपनी न 7 सितंबर 2023 को इनका डिस्पैच पूरा कर लिया है। ये कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं और लिंक https://corporate.pcjeweller.com/annual-report/ के साथ-साथ बीएसई लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और केफिनटेक की वेबसाइट क्रमशः https://www.bseindia.com/, https://www.nseindia.com/ तथा https://evoting.kfintech.com/ से एक्सेस किया जा सकता है। कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 44 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्थों को इं-वोटिंग सुविधा के माध्यम से एजीएम नोटिस में निटिंष्ट व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने वोसी/ओएवीएम, रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में इं-वोटिंग के माध्यम से एत्रिएम नेर सर्थों की आगीदारी की सुविध प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में केफिनटेक की सेवाएं ली है। सदस्यों की आगीदारी की सुविध प्रदान करने लिए एजेंसी के रूप में केफिनटेक की सेवाएं ली हैं। सदस्यों से आगरीदारी की सुविध प्रदान करने लिए ने विथ') को ख्वत से पढ़ी एजीएम में भा लेने, रिमोट ई-वोटिंग और 18वी एजीएम में 'ई-वोटिंग' के लिए हिर्द ''कोटिंग के माध्यम से और एजीएम में के कत्व र सदस्यों की आगरीदारी की सुविध ये प्रत्त स्र क्रिय के अनुसार कंप में के उनटल कर नी सेवाएगी। (क्रेवा के सत्यद, जिनके नाम शनिवार, 23 सितंबर, 2023 ('कट-ऑफ तिथि') को ख	र्फि. कार्यालय: 509, अरुणाचल बिल्डिंग, बाराखंभा रोड, कर्नोट फंस, नई दिल्फी–110001 वेबसाइट: www.goodluckindia.com सींआईएन : L74899DL1986PLC050910 37वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, बुक क्लोजर और रिपोट ई—वोटिंग की जानकारी एतदड़ारा गोटिस दिया जाता है कि गुडलक इंडिया तिमिटेड के सदस्यों की 37वीं वर्षिक आन बैठक (एजीएम) शनिवार, 30 सितंबर 2023 पूर्वांह 11:00 बजे, वींडियो कॉम्फ्रेंसिंग (वींसी)/ अन्य ऑडियो वे विजुअल माध्यम (ऑएपीएम) के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए गियमों,सेंड) (सुवीबद्धता वित्यिख और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (सुवीबद्धता विनियम) के साथ पठित वॉमोरेट कार्य नंत्रालय और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (सुवीबद्धता विनियम) के साथ पठित वॉमोरेट कार्य नंत्रालय और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (सुवीबद्धता विनियम) के साथ पठित हॉमोरेट कार्य नंत्रालय और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (सुवीबद्धता विनियम) के साथ पठित हॉमोरेट कार्य नंत्रालय हारा जाएँ सामान्य परिपत्र स10/2022 दियांक 28 दिसंबर, 2022 के स्था पठित दियांक 8 अप्रैत, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 08 दिसंबर, 2021, 14 दिसंबर, 2021 और 05 मई, 2022 के परिपत्र और संबी परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021, 13 मई, 2022 और 06 जनचरी, 2020 के प्रावसाने के अनुपालन में, एजीरम के गोटिस में निर्धार की दियेश यवस्ता को निपटने के लिए आयोजित की जाएगी। ढेठक की सूचना,31 मार्च, 2023 को समाल वितीय वर्ष की वार्षिक रियोर्ट और दूरस्थ ई—वोटिंग विराण जन सभी सदस्यों हारा जाउरतोड करने के लिए फंपने की नेदिस्त कंसिंद, 2023 है। ये दरसंवेय साध पंजीकृत नहीं की है, तो कृपया वित्त वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रार्थ करने और ई–वोटिंग क लिए लॉगिन वियरण प्रात्त करने के लिए अपनी ईनेस वार्डई, मोबाइल मंद अं ने दिए नीचे दिए यह लिदेशों का पालन करे। भौतिक धारिता: शेयरकारे से अनुरोध है कि वे कंपनी की 37वी एजीएम (वार्षिक आम बैठक) के लिए अपनी इंनेल आईडी, मोबाहल गंद्य करें आर देपिल करे वार कंप्रने त्र वेत्र जा संत्रे प्रार्य संचेद करें। वार्सिक एंसी टी–34, दूसरी नॉफिल, आंधाला और रंया के वी के वेत्र राक्र वे के के तहत जपला स डाउनलोड देव के तहत उपलब्ध है। आपसे अनुरोध है कि कृपया इसेन रेकर और अपना विवरण समय पर अपअंटट करें। इंग्स संसंब मे सं	 CIN No.: 1/4899DL1987PLC026617 Regd. Office : 3rd Floor, Surya Plaza, K:185/1, Sarai Julena, New Friends Colony, New Delhi - 110025, E-mail : cs@modisteel.net, Website : www.modisteel.com Phone : 011-49872442, 19. NOTICE 0F 37th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OVAM") on Saturday, 30th September, 2023 at 01.30 PM, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 read with General Circular No. dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, 8th December, 2021, 14th December, 2021, May 5, 2022 and 28th December, 2021, and SEBI (Collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business as set out in the Notice of AGM. Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM or view the live webcast at https://www.evotingindia.com. Members participating through the VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Company / Depository Participant(s) / RTA (Skyline Financial Services Pvt. Ltd). The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.biselindia.com. NOTICE is also hereby given pursuant to regulation 42 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2013 and subjectory of Notice of the AGM adomy to provide the Agm in Listed Transfer Books of the Companies Act, 2013 readwith Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rule, 2014, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Companies Act, 2013 readwith Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rule, 2014, the Register of Members and Share Transfer Books of the Companies Act,	9. श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री पारस नाथ श्रीवास्तव (गारंटर) निवासी मकान नं. 10, सादिक नगर, सिंहानी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201001 श्री /श्रीमती, यह, आपके ऋण खाता संख्या – 100741007316 के संदर्भ में है। इनके नाम से खाता है प्यांगिय सुधीर कुमार ऋण खाता संः: 100741007316 इस तिथि को एनपीए घोषित 28-07-2023 संस्वीकृत ऋण सुविधायें पीएल-एलएपी-टीएल संस्वीकृत ऋण सुविधायें 9.07-2023 संस्वीकृत तहाशि ७. 17.00.000/- (श्र्मये सत्रह लाख मात्र) वकाया / प्रेऑक राशि ७. 17.75.000/- (श्र्मये सत्रह लाख पिवहत्तर हजार मात्र) उपरोक खातों को नोएडा-18 स्थित शाखा से प्राप्त संस्वीकृति पत्र के माध्यम से ७. 17.00,000/- (श्र्मये सत्रह लाख मात्र) ७. 17.75.000/- (श्र्मये सत्रह लाख पिवहत्तरा हा इसमें ऊप वकाया / प्रेऑक राशि ७. 17.75.000/- (श्र्मये सत्रह लाख पिवहत्तराहा इममें ऊप अपरेक स्था के संरेख के शाखा से प्राप्त संस्वीकृत की गई है. यह ऋण खातो काकार्म समय से उपरोक खाते को नोएडा-18 स्थित शाखा से प्राप्त संस्वीकृति पत्र के माध्यम से ७. 17,00,000/- (श्र्मये सत्रह लाख मात्र) क. 17.75.000/- (श्र्मये सत्रह लाख मात्र) वकारा अनुत्सर रहे है। वक जुटी के दंहिटरात, आपके खाते को व्यापार के नियमित अनुक्रम में अनुरुशितानुसार अपरेक रहे है। वक जुटी के दृष्टियत, आपके खाते को व्यापार के नियमित अनुक्रम में अनुरुशितानुसार 28-07-2023 को एक
तहत बनाए गए नियमों और सेवी (सुचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के अनुपालन में 18वीं एजीएम के नोटिस ('एजीएम नोटिस') में निर्दिष्ट व्यवसाय को संचालित करने के लिए पीसी जैवलर लिमिटेड ('कंपनी') की 18वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शनिवार, 30 सितंबर, 2023 को सुबह 11:00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रोंसिंग ('ससी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधन ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एमसीए परिपत्रों और सेवी परिपत्र SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के साथ एजीएम नोटिस केवल वन सदरयों को इलेक्ट्रॉनिक मोड हारा भेजा गया है जिनके ई-मेल पता डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ('डीपी')/कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट-केफिन टेकनोलॉजीज लिमिटेड ('केफिनटेक') के साथ पंजीकृत है। कंपनी ने 7 सितंबर 2023 को इनका डिस्पैच पूरा कर लिया है। ये कंपनी की वेवसाइट पर भी उपलब्ध हैं और लिंक https://corporate.pcjeweller.com/annual-report/ के साथ-साथ वीएसई लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और केफिनटेक की वेबसाइट क्रमश: https://www.bseindia.com/, https://www.nseindia.com/ तथा https://woving.kfintech.com/ से एक्सेस किया जा सकता है। कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 44 के साथ पटित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को ई-वोटिंग युविधा के माध्यम से एजीएम नोटिस में निर्दिष्ट व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की युविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने वीसी/ओएवीएम, रिमेट ई-वोटिंग और एजीएम में भग तने, रिमोट ई-वोटिंग और 18वी एजीएम में ई-वोटिंग' के लिए लर्देश'' को ध्यान से पढ़े। रियोट ई-वोटिंग खुविधा बुयवार, 27 सितंबर, 2023 युबह 9:00 वर्ज (भा.मा.स.) से युफ्र होनी और खुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 को शाम 5:00 बजे (भा.मा.स.) समाप्त होगी और उसके बाद किसी भी रिमीट ई-वोटिंग की अनुमाति नहीं दी जाएगी। केवल वे सदस्य, जिनके नाम शनिवार, 23 सितंबर, 2023 ('कट-ऑफ तिथि') को सदस्यों के राजियर/लाभभोगी स्वामियों की युची में दर्ज है, केवल वही वोट देने (रिमेट ई-वोटिंग होन से पर्द हे योटिंग से माध्यम से और यासी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में साग होहिए तर्कर से एजनात की जुकता इकिव	रिज. कार्यालय: 509, अरुणाचल बिल्डिंग, बाराखंमा रोड, कनॉट फोस, नई दिल्ली-110001 वेबसाइट: www.goodluckindia.com स्रीआईएग : 1.74899DL1986PLC05910 37वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, बुक क्लोजर और सिरोट ई-वोटिंग की जानकारी एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि गुढलक इदिया लिनिटेड के सदस्यों की 37वी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शनिवार, 30 सितंबर 2023 पूर्वां 1100 वजे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो वे विजुअल माध्यम (ओएबीएम) के माध्यम से कंपनी वार्षिनेट्र के सदस्यों की 37वी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शनिवार, 30 सितंबर 2023 पूर्वां 1100 वजे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो वे विजुअल माध्यम (ओएबीएम) के माध्यम से कंपनी वार्षिनेटव 2016 (स्त्रीवाव्दा विगियम) के साध्य पठित कॉग्वेरेट कार्य नजायम (ओएबीएम) के माध्यम से कंपनी वार्षिनेटव 2016 (स्त्रीवाव्दा विगियम) के साध्य पठित कॉग्वेरेट कार्य नजां नाव्यम (ओएबीएम) के माध्यम से कंपनी वार्षिनेटव 2016 (स्त्रीवाव्दा विगियम) के साध्य पठित दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अपैल, 2020, 5 नई 2020, 13 जनवरी, 2021, 08 दिसंबर, 2021, 14 दिसंबर, 2021 और 65 मई 2022 के परियत्र और संवै परिपन्न देनांक 12 मई, 2022, 15 जनवरी, 2021, 13 मई, 2022 और 06 जनवरी, 2023 के प्रावयों के अनुपालन में, एजीएम के नोटिस ने निर्धारित साधारण और विशेष व्यवसाय को निपटाने के लिए आयोजित की जाएगी। बैठक की सूचना31 मार्च, 2023 को सनात दितीय वर्ष की वार्षिक रिये के त्य स्वर्ध ई-वोटिंग विवरण जन समी सदस्यों को इलेक्ट्रोनिक मोड में भेज दिए गए है जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी,आरटीप/ दिर्बाणिटरी के साध अंपनीक है। दी विवरण प्रार्ग के नोरोटिस देशेल भेजने की अतिनि विधि 06 सितंबर, 2023 है। ये दस्तावेज सदस्यों द्वारा डाउनलोड करने के लिए कंपनी की वेबसाइट www.goodluckindia.com पर भी उपतब्ध है। यादी वार्वीक रियोटे क्र साध अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नही की है, तो कृपया वित वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक रियोट के साध्य अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नही की है, तो कृपया निया के दिए अपनी ईनेत वारताः शेयरधारको से अन्ट्रोव हे कि वे कंपनी के शेयर ट्रासफर एजंट करें। बार्स वार्वित से विद्य एग फॉर्स के परित्र प्रार्ध और प्रांगित विर्व या स्वर्ध से व्यांति व्यांति स्रार्ड विंग् वार्व वारितः शेयरधारक से अनुरोध है कि वे कंपनी और अपना विवरण समय पर अपडेट करे। औसतिक हारेत: इन्या	 CIN No.: 174899DL1987PLC026617 Regd. Office : 3rd Floor, Surya Plaza, K-185/1, Saria Julena, New Friends Colony, New Delhi – 110025, E-mail : cs@modisteel.net, Website : www.modisteel.com Phone : 011-49872442, 19. NOTICE OF 37th ANIVAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OVAM") on Saturday, 30th September, 2023 at 01.30 PM, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 read with General Circular No. dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, 8th December, 2022 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business as set out in the Notice of AGM. Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM or view the live webcast at https: https://www.evotingindia.com. Members participating through the VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. In compliance with the relevant circulars, the electronic copy of Notice of the AGM alongwith Annual Report for the year 2022-23, have been sent on September 6, 2023 to all the members of the Company whose email address are registered with the Company's website at www.modisteel.com and on the website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.modisteel.com and on the website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.modisteel.com and on the website of the Company's website at www.modisteel.com and set of the AGM and audita 2 of the Company shall remain closed from Monday, 25th September, 2023 to Saturday, 30th September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of aforesaid	9. श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री पारस नाथ श्रीवास्तव (गारंटर) निवासी मकान नं. 10. सादिक नगर. सिंहानी गाजियाबाव उत्तर प्रदेश 201001 श्री / श्रीमती. यह, वापके ऋष खाता संख्या – 100741007316 के संदर्भ में है। इनके नाम से खाता है स्पगीय युधीर कुगर इस तिधि को एनपीए घोषित 28–07–2023 संसवीकृत ऋण खुविधायें पीएल–एलएपी–टीएल संसवीकृत ऋण खुविधायें पीएल–एलएपी–टीएल संसवीकृत ऋण खुविधायें ए.एन.एलएपी–टीएल संसवीकृत राषि ७. 17.76.000/– (रुपये सन्नह लाख मान्न) वकाया / पेओफ राषि ७. 17.76.000/– (रुपये सन्नह लाख मान्न) उपरोक खातों को नोएडा–18 स्थित शाखा से प्रात्त संस्वीकृति पत्र के माध्यम से रू. 17.00.000/– (रुपये सन्नह लाख मान्न) ७. 17.76.000/– (रुपये सन्नह लाख मान्न) वकाया / पेओफ राषि ७. 17.76.000/– (रुपये सन्नह लाख मान्न) उपरोक खातों को नोएडा–18 स्थित शाखा से प्रात्त संस्वीकृति वत्र के माध्यम से रू. 17.00.000/– (रुपये सन्नह लाख मान्न) ७. 17.76.000/– (रुपये सन्नह लाख मान्न) वकाय / अन्न्रस एसे त्रण क संख्य में आपके खाते को नियमित/ समायोतित करने के लिए ठकान उठने अत्र के तर से परिवारित हो रहे के और इसतिये आप इस नुटि के तहत यहा इसमें ऊपर बतार अनुरा एस स्विक तिय सरसायों के काया पर हो के तिती अनुरात सं उठन द्रितान खातो के बाहा सं उत्त कर नाया राशिय अपति अनुरात सं उठन त्र सं सं उं कर नुत्या अत्र अनुरा सं त्र रुप्त कर का या रारते के निये के त्र रुप्
तहत बनाए गए पियमें और सेवी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के अनुपालन में 18वीं एजीएम के नोटिस ('एजीएम नोटिस') में निर्दिष्ट व्यवसाय को संचालित करने के लिए पीसी ज्वैलर लिमिटेड ('कंपनी') को 18वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शनिवार, 30 सितंबर, 2023 को सुबह 11:00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधन ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एमरीए परिपत्रों और सेवी परिषत्र SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिगंक 5 जनवरी, 2023 के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के साथ एजीएम नोटिस केवल उन सदस्यों को इलेवट्रॉनिक मोड द्वारा भेजा गया है जिनके ई-मेल पता डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ('डीपी')/कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट-केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('केफिनटेक') के साथ पंजीकृत है। कंपनी ने 7 सितंबर 2023 के इनका डिस्पैच पूरा कर लिया है। ये कंपनी को येवसाइट पर भी उपलस्टा हैं और लिंक https://corporate.pcjeweller.com/annual-report/ के साथ-साथ वीएसई लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और केफिनटेक जी वेवसाइट कमश: https://www.bseindia.com/, https://www.nseindia.com/ तथा https://evoting.kfintech.com/ से एक्सेस किया जा सकता है। कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 44 के साथ पठित अधिनियम की थारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से सदस्यों की भागीदारी की सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में केफिनटेक की सेवाएं ली हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम निराद ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग के शाव्य प्राय कर रही है। कंपनी ने वीसी/ओएयीएम, सिग्ट ई-वोटिंग के एजीएम में भाग लेने, रिपोट ई-वोटेंग और राइवी एजीएम में 'ई-वोटिंग' के लिए एजेंसी के रूप है। किंगट के अनुपति नहीं दी जाएगा के जन्यती से स्वार पत्न कि साम शनिवार, 2023 ('कट-ऑफ तिथि') को सदस्यों के रजिस्टर/लाभभोगी स्यामियों को सूची में दर्ज हैं, केवल वड़ी योट देने (रिपोट ई-वोटिंग के सदस्य कई है, उसे इस नोटिस को नाम शनिवार, 23 सितंबर, 2023 ('कट-ऑफ तिथि') को सदस्यों के रजिस्टर/लाभभोगी स्वामियों के सूची में दर्ज हैं, केवल वड़ी योट है, वोटिंग के आय्यम से अपन चंन तो आ शवितार, 23 सितंबर, 2023 ('कट-ऑफ तिथि के अनुसार	रिज. कार्यालय: 509, अरुणाचल बिल्डिंग, बाराखंगा रोड, कनॉट फोस, नई दिल्ली-110001 वेवसाइट: www.goodluckindia.com सीक्षाईपर : 17.4899DL1986PL.059010 37वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, बुक क्लोजर और (स्पोट ई-वोटिंग की जानकारी) एतदडारा गोटिस दिया जाता है कि गुडलक इंदिया लिमिटेड के सदस्यों की 37वी वार्षिक आम बैठक (एजीएन) शनिवार. 30 सितंबर 2023 पूर्वांड 11:00 कजे, वीडियो कॉग्फ्रेंसि (प्रेवीस)/ अन्य ऑडियो वे विजुञल नाच्यम (ओएवीएम) के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2015 और उसके तंडत वनाए गए नियमो,संबी (सूचीबद्धता वयिव और प्रकटीकरण आवरधकतारी) तिनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम) के साथ पठित कॉगोरेंट कार्य नंत्रताय हारा जारी सामात्य परिपत्र स.10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022के साथ पठित कॉगोरेंट कार्य नंत्र नावाय द्वारा जारी सामात्य परिपत्र स.10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022के साथ पठित तिगॉके 8 अप्रेत, 2020, 13 अम्रेत, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 10 दिसंबर, 2021, 14 दिसंबर, 2021 और 05 ननदरे, 2022 के प्रायसज और संत्री परिपत्र निर्दान 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021, की दर्दे, 2022 के उठ जनवरी, 2023 के प्रायसन की रास्त्री प्रति दिनांक 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021 की राई, 2022 की परिप्र और पूरस्थ ई-बोटिंग विवरण जन सभा सदस्यों को इतेक्ट्रोंकि जनों हने ने के ति हरे, 10 50 जनवरे, 2022 के प्रायक्रिय, गीवरण, जन सभी सदस्य की इरोकट्रोंकि जनों हने ने के दिए गए 15 सित्नी ई-नेंटा आई की कंपनी/आरटीए/ डिपॉजिटरी के साथ अपनी इंगेर जोग हरे हरे ही रि ए एए 17 ही जिलों ई-नेटा आई की कंपर वॉर्कि रिपेट प्राय्त करने और ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण प्राय्त करने के लिए अपनी की बेबसाइट www.goodluckindia.com पर भी उपत्वदार और जानीनी वेत्रण प्राय्त करने के लिए अपनी इंगेल आईडी पंजीकृत करने के लिए नीचे दिए गए गिर्देशों का पालन करे। भौतिक धारिता शेयरवारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी को उन्ये एजीएम (वार्षिक आन बैठक) के लिए अपनी हेनेल जाईडी, नीवहल नंबर, बैक खाता विवर्ण और अंचनीनी को उन्ये एजीएन (आर्य के सी द्वारा निधरित अन्य प्रासतिक श्रेत्र होया विपरी प्रारायिक प्रार्य करीनी के श्रेत्र अपना विवरण समय पर अपडेट करे। औरिस धारिता: शेयरवारकों से अनुरोध है कि कृ क्या इसे गोट करे और अपना विवरण समय पर अपडेट करे। इंमेंट धारिता: शेयरवारक वेत्राय इंगे जिंदर आर वायत के के राउ डीपी द्रार	 CIN No.: 174899DL1987PLC026617 Regd. Office : 3rd Floor, Surya Plaza, K-185/1, Saria Julena, New Friends Colony, New Delhi – 110025, E-mail : cs@modisteel.net, Website : www.modisteel.com Phone : 011-49872442, 19. NOTICE OF 3rh ANNUAL GENERAL INEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OVAM") on Saturday, 30th September, 2023 at 01.30 PM, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 read with General Circulars. No. dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2022 and 28th December, 2021, and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business as set out in the Notice of AGM. Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM or view the live webcast at https: https://www.evotingindia.com. Members participating through the VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. In compliance with the relevant circulars, the electronic copy of Notice of the AGM alongwith Annual Report for the year 2022-23, have been sent on September 6, 2023 to all the members of the Company whose email address are registered with the Company / Depository Participant(s) / RTA (Skyline Financial Services Pvt. Ltd). The aforesaid documents are also available on the Companies (Management and Administration) Rule, 2014, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Monday. 25th September, 2023 to Saturday, 30th September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of aforesaid Annual General Meeting. The documents referred to in the Notice of the AGM are available electronically for inspection without any fee b	9. श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री पारस नाथ श्रीवास्तव (गारंटर) निवासी मकान नं. 10. सादिक नगर. सिंहानी गाणियाबाव उत्तर प्रदेश 201001 श्री / श्रीमती, यह, आपके ऋग खाता संख्या – 100741007316 के संदर्ग में है। इनके नाम से खाता है पर्यांगि युधीर कुमार ऋण खाता सं: 100741007316 इस तिथि को एनपीए घोषित 28-07-2023 संस्वीकृत ऋण सुविधाये पीएल-एलएपी-टीएल संस्वीकृत ऋण सुविधाये पीएल-एलएपी-टीएल संस्वीकृत ऋण सुविधाये ए
तहत बनाए गए पियमें और सेवी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के अनुपालन में 18वीं एजीएम के नोटिस ('एजीएम नोटिस') में निर्दिष्ट व्यवसाय को संचालित करने के लिए पीसी ज्वैलर लिमिटेड ('कंपनी') को 18वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शनिवास, 30 सितंबर, 2023 को सुबह 11:00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधन ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एमसीए परिपत्रों और सेवी परिपत्र SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिगंक 5 जनवरी, 2023 के अनुसार, वार्षिक रिपोर 2022-23 के साथ एजीएम नोटिस केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड हारा भेजा गया है जिनके ई-मेल पता डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटस ('डीपी')/कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट-केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('केफिनटेक') के साथ पंजीकृत है। कंपनी ने 7 सितंबर 2023 को इनका डिस्पैच पूरा कर लिया है। ये कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलस्टा है और लिंक https://corporate.pcjeweller.com/annual-report/ के साथ-साथ बीएसई लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और केफिनटेक की वेबसाइट कमश: https://www.bseindia.com/, https://www.nseindia.com/ तथा https://evoting.kfintech.com/ से एक्सेस किया जा सकता है। कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 44 के साथ पठित अधिनियम की थारा 108 के प्रावधाने के अनुयालन में, कंपनी अपने सदस्यों को ई-वोटिंग सुचिधा के माध्यम से एजीएम नोटिस में निर्दिष्ट व्यवसाय पर इलेक्ट्रोनिक रूप से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने वीसी/ओएवीएम, सिंग्ट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग सुविधा बुयिया प्रदान कर रही है। कंपनी ने वीसी/ओएयीएम, सिंग्ट ई-वोटिंग और एजिएम में भगल लेने, रिसोट ई-वोटिंग और 18वीं एजीएम में 'ई-वोटिंग' के लिए एजेंसी के रूप में केफिनटेक की सेवाएं ली हैं। सदस्यों से आगुरीछ है कि वे एजीएम नोटिस में डल्लिखिन' '18वीं एजीएम में भाल लेने, रिसोट ई-वोटिंग और खाव्य पित, 223 सितंबर, 2023 ('कट-ऑफ तिथि') को सदस्यों के रजिस्टर/लाभभोगी स्वामियों के सुची में दर्ज हैं, केवल वही योट देने (सिंगेट ई-वोटिंग के माध्यम, एजीएम में के इकदार होंगे और उनके माता स, प्रभास होगी और उत्सक जाहर के जी कर-ऑफ तिथि से अनुम्यत करी जियर क्रा के ते आपया। अ	रिज. कॉर्यालय: 509, अरुणाचल बिल्डिंग, वाराखंमा रोड, कर्नांट फोस, नई दिल्ली110001 वेवसाइट: www.goodluckindia.com सीआईएग : 1.748990L1986P1.C05910 37वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, बुक क्लोजर और (स्पोट ईवोटिंग की जानकारी) एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि गुढलक इंडिया लिनिटेड के सदस्यों की 37वी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शानियर, 30 सितंय 2023 पूर्वांड 11:00 करों, वीडियो कॉर्ज़सेंग ('वीसी')/ अन्य ओडियो वे विजुकत नाध्यम (ओएवीएम') के माध्यम से कंपनी अविनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम) के साथ पटित कॉर्पोरेट कार्य नायत्व (ओएवीएम') के माध्यम से कंपनी अविनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम) के साथ पटित कॉर्पोरेट कार्य नंत्र वायत्व और प्रकटीकरण आयरयकताएँ) विनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम) के साथ पटित कॉर्पोरेट कार्य नंत्र नायत्व वारा जारी सामान्य परिपत्र स:10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 के साथ पटित कॉर्पोरेट कार्य नंत्र नायत्व वारा जारी सामान्य परिपत्र स:10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 के साथ पटित कॉर्पोरेट कार्य नंत्र नंत्र 2022 के प्रकिल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 10 दिसंबर, 2021 और 05 जनवरी, 2023 के प्रकाशने के अनुपालन में, एजीएस के नोटिस में नियरित साधाएण और विशेष व्यवसाय को निपटाने के लिए आयोजित की जाएगी। बैठक की सूचना.31 मार्च, 2023 को समाप्त वितीय यर्भ की वार्विक रिपोर्ट और दूरस्थ ई-वोटिंग वियरण जाय स्पत्र के से इदेलट्रांगिक मोड में नेज दिए गए हैं जिनको ई-नेट जाईई कंपनी/आरटीए/विपॉजिटरी के साथ प्रजीकत है। शेयखारकों को नोटिस ईनेता भेकने की अतिन तिथि 05 सितंतर, 2023 है। ये दस्तावेज सदस्यों हारा डाउनलोड करने के लिए कपनी की वे बसेसह www.goodluckindia.com पर से पार्थता है। यदि आपने कंपनी /डियॉजिटरी के साथ अपनी ईमेत आईडी पंजीकृत नही की है, तो कृपया वित वर्ध 2022–23 के लिए वार्षिक रियोर्ट प्रात्त करने और ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विरण प्राप्त करने के लिए अपनी ईनेल आईडी, गीवहल तरने के लिए नीचि दिए गए निर्देशों का पालन करे। यदि वार्पक रेगने के लिए नीचि दिए गए निर्देशों का पालन करे। यदि वार्पक रंतने के त्रेप्र सूसी मिजित, आंखल और ग्रियोर्फ सार्पनिय्ज तिनिदेड एनसी टी-34, दूसरी मजित, आंखल और ग्रियों के होंये होंची हाला संलाह दी गई प्रक्रिय तिनिदे द्वार दायिक प्रते सुद्ये से रायोंटिये त्रेप्र करें आ र्याना विवरण समय ए अपअंट करे। इंस सल	CIN No.: (174899DL1987PLC026617 Regd. Office 3 rd Floor, Surya Plaza, K-185/1, Sarai Julena, New Friends Colony, New Delhi – 110025, E-mail : cs@modisteel.net, Website : www.modisteel.com Phone : 011-49872442, 19. NOTICE OF 37th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OVAM") on Saturday, 30th September, 2023 at 01.30 PM, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 read with General Circular No. dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2022 on January 13, 2021, 8th December, 2021, 14th December, 2021, May 5, 2022 and 28th December, 2022 at other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"). to transact the business as set out in the Notice of ASM. Members will be able to attend the AGM through VC / 0AVM or view the live webcast at https://www.evotingindia.com. Members participating through the VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. In compliance with the relevant circulars, the electronic copy of Notice of the AGM alongwith Annual Report for the year 2022-23, have been sent on September 6, 2023 to all the members of the Company whose email address are registered with the Company / Depository Participant(s) / RTA (Skyline Financial Services Pvt. Ltd). The aforesaid docluments are also available on the Company's website at www.bseindia.com. NOTICE is also hereby given pursuant to regulation 42 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015 and section 91 of the Companies Act, 2013 readwith Rule 10 of the Companies (Management and Admin	9. औ अरुण कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री पारस नाथ श्रीवास्तव (गाएंटए) निवारी मकान ने. 10. सादिक नगर, सिहानी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201001 श्री श्रीमती. यह, आपके ऋण खाता संख्या – 100741007316 के संदर्भ में है। इनके नाम से खाता है स्वर्गीय सुधीर कुमार ऋण खाता साः 100741007316 इस तिथि को एनवीए घोषित 28–07–2023 संस्वीकृत ऋण खुविधार्य पीएल-एतएपी-टीएल संस्वीकृत ऋण खाता के 100741007316 इस तिथि को एनवीए घोषित 28–07–2023 संस्वीकृत ऋण खाता के 1007410070/- (रुपये सजह ताख पिवहतर इजार मात्र) बकाया / पेओफ राशि 5. 17.75.000/- (रुपये सजह ताख पिवहतर इजार मात्र) बकारा को नोएडा-18 स्थित शाखा से प्राप्त संस्वीकृत की गई है. यह ऋण खातो काफी समय से असंतारिधनक ढंग से परिवातित हा रह हैं और इस सांव में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्वशा व दियानित का स्व मं असंता प्रवाति का सुनुरावितानुसार खाता को बहियां में और इस संबंध में मारतीय रिजर्व बैंक के निर्वशा व दियानिद आने स्व तर उजाने में विकल रह हैं। उक्त ट्रुटि के दृष्टिगत, आपके खाते को यापर के नियमित अनुक्रम में अनुरावितानुसार खातां की बहिया में और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्वशा व दिया गया है। तट्नप्रसार 28–07–2023 को एक गैर-निष्पादित परिसंपति के कप व ति की यापर के नियमित अनुक्रम से आक खाते के अत्य का अग्र सिंक का या रिजर्व बैंक के आय सा से । तट्नप्रसार 28–07–2023 को एक गैर-निष्पादित परिसंपति के आय रिजर्व के अनुसार परित्त व कि आधा सा से गरिंक वा रायुक ज्या / लगनत आदि के साथ, 10–08–2023 के अनुसार परित्त व व या या हा । तट्नपुत्ता से आक्रिक जितेनि सा का आक्रमिक करा आक्रम के का ता कि अत्रम करा आठलिक क
तहत बनाए गए नियमों और सेवी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के अनुपालन में 18वीं एजीएम के नोटिस ('एजीएम नोटिस') में निर्दिष्ट व्यवसाय को संचाहितक करने के लिए पीसी ज्वैलर लिमिटेड ('कंपनी') को 18वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शनवात, 30 सितंबर, 2023 को सुबह 11:00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉफ्रोंसिंग ('वीसी')अन्य ऑडियो विजुअल साथन ('अंएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। ('वीसी')अन्य ऑडियो विजुअल साथन ('अंएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। ('वीसी')अन्य ऑडियो विजुअल साथन ('अंएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। ('वीसी')अन्य ऑडियो विजुअल साथन ('अंएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। ('वीसी')अन्य ऑडियो विजुअल साथन ('अंएवीएम') के साध्यम कीकृत है। कंपनी ने 7 सितंबर 2023 को इनका डिस्पैच पूरा कर लिया है। ये कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं और तिंक https://corporate.pcjesveller.com/annual-report/ के साथ-साथ बीएसई लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और केफिनटेक की वेबसाइट क्रमश: https://www.bseindia.com/, https://www.nseindia.com/ तथा https://evoting.kfintech.com/ से एक्सेस किया जा सकता है। कंपनी (प्रवंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और स्वीबद्धता विनियमों के विनियमन 44 के साथ पटित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी आप नेदरस्सों को ई-वोटिंग का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने येसि/अोएयीएम, रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग सुविधा प्रवात कर रही है। कंपनी ने येसि/आएयीएम, रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग सुविधा प्रवात कर रही है। कंपनी ने येसि/आएयीएम, रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग सुपिय नी रितर्थ मिर्जार द्रिक हि के प्रजीपत्त कि साथ के सि से हिंग रे खाह तियि का प्रयोग करने की साथ राथी थी। सदर्यों के अनुराध है कि ये एजीएम गिटिंस रे खिल्हता'। 18दीं एजीएम में के किनटेक को सेवाएं लो हैं। सदर्यों से अनुरीध है कि ये एजीएम गिटें के लिए रिवेंंग' को खात से सिंग र देनहींं सुयिय द्रेयार, 2023 को प्राना, 2, 28 सितंबर, 2023 ('कट-ऑफ तिथि') को सदर्यों के रजिस्टरलाभभोगी स्हामिं की स्वर्ग सि स्रिय हर्या कर तरक्य बा किसी और सु सुव्या ते के जुम्पत से और वीसी/ओएयोएम के माध्यम से छेजाएन को खाकर को क की क्या करेंग कती क्रा से सरस्त	रिज. कार्यालय: 509, अरुणाचल विलिंडग, वाराखंभा रोड, कर्नाट एंसर, नई दिल्ली–110001 देवसाइट: www.goodluckindia.com, ई-नेक goodluckindia.com सीआईएन : 1.74899DL1986PLC050910 37वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, बुक क्लोजर और रिसोट ई-वोटिंग की जानकारी एलदद्वारा गोटिस दिया जाता है कि गुडलक इंकिया लिमिटेड के सदस्यों की उनी वार्षिक जाम बैठक (एजीएन) शनिवर, 30 सितंक 2023 पूर्वाह 11:00 करों, वीडियो कॉन्फोरेंस (वीसी')/ अन्य जीडियो वे वियुजल नाध्यम (जेस्वरोप्स) के मध्यम के अंपनी अविचिय, 2013 की रफॉस (वीसी')/ अन्य जीडियो वे वियुजल नाध्यम (जेस्वरोप्स) के मध्यम के अंपनी अदिवर, 2013 की रफॉस (वीसी')/ अन्य जीडियो के वियुजल नाध्यम (जेस्वरोप्स) के मध्यम के अंपनी अदिवर, 2013 की रफॉस (यीसी')/ अन्य जीडियो के वेयुजल नाध्यम (जेस्वरोप्स) के मध्यम के अंपनी अविचिय, 2013 की रफॉस (वीसी')/ अन्य जीडियो के वोपेंट कार्य मंत्रात्य हारा जारी सामान्य परिपत्र सं10/2022 दिनांक 28 दिसर, 2023 की साथ पठित विगंक 8 अप्रेल, 2020, 13 अप्रेल, 2020, 5 मई, 2022 का 3 जनवरी, 2021, 10 दिसंसर, 2021, 14 दिसंसर, 2021 और 0 कर जनवरी, 2023 के प्रार्थेज को जाएगी। वेरक की चुर्वाउा, मार्च, 2023 को सामाल तिगीव कर्म कं की वार्षिक रिपोर्ट और दुर्प्सक बंगति/ आरटीए / डियॉजिटरी के साथ प्रजीकृत है। येरयायको को नोटिस ईमल सेननों की अतिन तिथि 05 सितंकर, 2023 है। ये दसावेज सरसरमां द्वारा डाउगलोड करने के लिए कपनी के वेसाइट www.goodluckindia.com पर भी उपलब्ध है। यदि आपने कपनी/ दियॉजिटरी के साथ अपनी इंग्ले जाईवी पंजीकृत नहीं की है, तो कृपया वित वर्थ 2022-23 के लिय यॉकि रिपोर्ट पाल करने और ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विरयण प्रार्प करने के लिए अपनी ईमेल आईबी पंजीकृत करने के लिए नोचे दिए गए निर्देश का पालन करे। भौतिक धातिश शरात्वालक सं आनुपेध है कि बेक्पनी को उनये एपीएम (यार्षिक आम बैठव) के लिए अपनी इंमेल जाईती सं वार्प करिय, वार्पी करमानी के उसरेट करे। औरतबाता शरार्पार्य प्रार्पित प्रार्पीक कॉन के जनये पति करा के वार हरार्प्य सरसित जन्य प्रार्पारक के से वार कि पितिय प्रार्पीक कॉरिय कि वेयरिय करिय विपर प्रार्प सित्त जनव साई की तिसिक हर से दियर, यार्य सिंपर, यार्प के वेयरिय कर्य कर्य कर जी बीची हारा स्वार्प्य नियर्य लोनिंक तिर दे त्यन वे स्वर्य कर प्रेवस्ट करे। व्यं वार्य सरसित, 2015 के तियित्य न	 CIN No.: (JA899DL1987PLC026617 Regd. Office 3 rd Floor, Surya Plaza, K-185/1, Sarai Julena, New Friends Colony, New Delhi – 110025, E-mail : cs@modisteel.net, Website : www.modisteel.com Phone : 011-49872442, 19. NOTICE OF 37th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OVAM") on Saturday, 30th September, 2023 at 01.30 PM, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEB1") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 read with General Circular No. dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2022 and 28th December, 2022 at 00 ther applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "relevant circular"). to transact the business as set out in the Notice of AGM. Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM or view the live webcast at https https://www.evotingindia.com. Members participating through the VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Company Mose email address are registered with the Company / Depository Participant(s) / RTA (Skyline Financial Services Pvt. Ltd). The aforesaid documents are alia available on the Company's website at www.modisteel.com and on the website of the Stock Exchange Le. BSE Limited at www.bseindia.com. NOTICE is also hereby given pursuant to regulation 42 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015 and section 91 of the Companies Act. 2013 readwith Rule 100 the Company's website at www.modisteel.com and on the website of the AGM are available electronically for inspection without any fee by the members from the date of circulation of this Notice upto the date of AGM. Memb	9. औ अरुण कुमार औवास्तव पुत्र औ पारस नाथ औवास्तव (गारंटर) निवासी मकान ने. 10. साविक नगर, सिडानी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 20101 श्री अरुण कुमार औवास्तव पुत्र औ पारस नाथ औवास्तव (गारंटर) निवासी मकान ने. 10. साविक नगर, सिडानी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 20101 श्री अरुण कुमार आवास संख्या – 100741007316 के संदर्भ में है। इस तिथि को एनगीए घोषित 28–07–2023 संस्वीकृत ऋण खुविधायें पीएल-एलएपी-टीएल संस्वीकृत ऋण खुविधायें पीएल-एलएपी-टीएल संस्वीकृत ऋण खुविधायें पीएल-एलएपी-टीएल संस्वीकृत ऋण खुविधायें ए. 7.700.000 / - (रुपये सन्नह लाख मात्र) बकाया एओफ लाशि र. 17.700.000 / - (रुपये सन्नह लाख मात्र) बकाया ए. 7.700.000 / - (रुपये सन्नह लाख मात्र) बकाया ए. 7.700.000 / - (रुपये सन्नह लाख मात्र) बकाया ए. 7.700.000 / - (रुपये सन्नह लाख मात्र) बकाया ए. 7.700.000 / - (रुपये सन्नह लाख पिघहलार इजाए मात्र) उपरोत्त खातों को नोएडा-18 स्पित क्रप्त खाते को यियित / समयोगितत कर t. 7.700.000 / - (रुपये सन्नह ताख मात्र) बकारा ए रेक उपरा पुरिवा प्रित क क सात्र अति का का का का का का का सात्र के सात्र का का मात्र का सात्र का का का प्रात संत्र का का का सात्र का सात्र का सात्र का का ना सात्र का का का सात्र का का का प्रात संत्र का का का सात्र का का का सात्र का सात्र का का का का सात्र का का का का सात्र का का का सात्र का का का सात्र का का का का सात्र का का सुरा का का सात्र का का सात्र का का सुरा का का सा का सा का प्रात
तहत बनाए गए पियमें और सेवी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के अनुपालन में 18वीं एजीएम के नोटिस ('एजीएम नोटिस') में निर्दिष्ट व्यवसाय को संचालित करने के लिए पीसी ज्वैलर लिमिटेड ('कंपनी') को 18वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शनिवास, 30 सितंबर, 2023 को सुबह 11:00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधन ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एमसीए परिपत्रों और सेवी परिपत्र SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिगंक 5 जनवरी, 2023 के अनुसार, वार्षिक रिपोर 2022-23 के साथ एजीएम नोटिस केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड हारा भेजा गया है जिनके ई-मेल पता डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटस ('डीपी')/कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट-केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('केफिनटेक') के साथ पंजीकृत है। कंपनी ने 7 सितंबर 2023 को इनका डिस्पैच पूरा कर लिया है। ये कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलस्टा है और लिंक https://corporate.pcjeweller.com/annual-report/ के साथ-साथ बीएसई लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और केफिनटेक की वेबसाइट कमश: https://www.bseindia.com/, https://www.nseindia.com/ तथा https://evoting.kfintech.com/ से एक्सेस किया जा सकता है। कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 44 के साथ पठित अधिनियम की थारा 108 के प्रावधाने के अनुयालन में, कंपनी अपने सदस्यों को ई-वोटिंग सुचिधा के माध्यम से एजीएम नोटिस में निर्दिष्ट व्यवसाय पर इलेक्ट्रोनिक रूप से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने वीसी/ओएवीएम, सिंग्ट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग सुविधा बुयिया प्रदान कर रही है। कंपनी ने वीसी/ओएयीएम, सिंग्ट ई-वोटिंग और एजिएम में भगल लेने, रिसोट ई-वोटिंग और 18वीं एजीएम में 'ई-वोटिंग' के लिए एजेंसी के रूप में केफिनटेक की सेवाएं ली हैं। सदस्यों से आगुरीछ है कि वे एजीएम नोटिस में डल्लिखिन' '18वीं एजीएम में भाल लेने, रिसोट ई-वोटिंग और खाव्य पित, 223 सितंबर, 2023 ('कट-ऑफ तिथि') को सदस्यों के रजिस्टर/लाभभोगी स्वामियों के सुची में दर्ज हैं, केवल वही योट देने (सिंगेट ई-वोटिंग के माध्यम, एजीएम में के इकदार होंगे और उनके माता स, प्रभास होगी और उत्सक जाहर के जी कर-ऑफ तिथि से अनुम्यत करी जियर क्रा के ते आपया। अ	रणि. कार्यालय: 500, अरुणाचल विलिंडग, वाराखंमा रोड, कर्नाट एलेस. नई दिल्ली–110001 देवसाइट: www.goodluckindia.com. ई-मेळ goodluck@goodluckindia.com सीआईएन : 1.74899DL1986PLC050910 37CÎ वार्षिक आम बैठक की सूचना, बुक क्लोजर और रिसोट ई-वोटिंग की जानकारी एलवदाल नोटिस दिया जाता है कि गुजरक इकिंग विनिदेड के सदस्यों की उभी वॉकि आम वैठक (एजीएम) शनिवार, 30 सितंतर 2023 पूर्वांड 1100 बजे, वीडियो कॉन्कोरेंसग (वीसी)/ अन्य ऑडियो वे विजुजन नाव्यन (ओएवीएम) के नाव्यन के धर्मना आधीनियम. 2013 और उसके तहात वनाए गए गियमो,सेरी (सुवीबद्धता वायित और प्रबच्धेकरण आवस्यकताएँ) विमियम. 2015 (सुवीबद्धता वायित्य) के साथ पवित विंगंक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 08 दिसंबर, 2022, 14 दिसंबर, 2021, 14 दिसंबर, 2021, 14 दिसंबर, 2023, 13 जनवरी, 2021, 08 दिसंबर, 2022, 14 दिसंबर, 2021, 14 दिसंबर, 2021, 14 दिसंबर, 2023, 13 जावरी, 2021, 13 जनवरी, 2021, 16 दिसंबर, 2021, 14 दिसंबर, 2021, 14 दिसंबर, 2023, 13 जावरी, 2021, 13 जनवरी, 2021, 16 की वार्षीक रिपोर और दूरस्थ मंगित्र को जाएगी। देवरक की सूचना31, नानं, 2022 की सागल विगीय वर्ष की वार्षिक रिपोर और दूरस्थ मंगित्र को जाएगी। रोडक की सूचना31, नानं, 2022 को सागल विगीय वर्ष की वार्षिक रिपोर और दूरस्थ मंगी/ आरटीए/ डियॉजिटरी के साथ पंजीकृत है। शेयरायलों को नोनिर दिसंग के वार्षिक रिपोर्ट और दूरस्थ इ-तोटिंग विवरण जन सभी सदस्यों का इनेकटॉफिक संड में नेज दिए गए ई जिनको ई-नेल आईती कंपनी/आरटीए/ डियॉजिटरी के साथ पंजीकृत है। शेयरायलों को नोनिर द्वेरिण भ्रेयने दूरस्थ www.goodluckindia.com पर नी एपतलब है। यदि आपने कंपनी / डियॉजिटरी के साथ अपनी ईमेल आईठी पंजीकृत नही की है, तो कृपया वित यर्थ 2022–23 के दिए वॉकि रियेटी प्राल करने और खन्जनी को उनी एपतिय आत्र करने के तिए अपनी हेनेल जॉकि सिंट स्थाल करने और स्थान जिंद वार्य कंपमा करे। भातिक कॉनि ने अन्य विवरण, कंपन के जिल् लोगीन विवरण प्रात करते के तिए अपनी हेनेल कॉक से खे हिए गीचे दिए पए निर्देश कंपनी के उनी एपता कि आन बैटक) के लिए अपनी हेनेल कॉकि स्वेय स्था करने की रेड स्थाल जोन राखा करने। भारसॉक कॉने ने अन्य विवरण, कंपन के सिंद स्था जाने के सिंग करात करे। कृपया कर्यन के सिंप स्था कि स्थाल कर्यन करे। भारसॉक कॉने ने अन्य विवरण, कंपन के रिपर, दिसं	CIN No.: (174899DL1987PLC026617 Regd. Office : 3rd Floor, Surya Plaza, K-185/1, Sarai Julena, New Friends Colony, New Delhi – 110025, E-mail : cs@modisteel.net, Website : www.modisteel.com Phone : 011-49872442, 19. NOTICE OF 37th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OVAM") on Saturday, 30th September, 2023 at 01.30 PM, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 read with General Circular No. dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2022 and 28th December, 2022 at other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business as set out in the Notice of AGM. Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM or view the live webcast at https: https://www.evotingindia.com. Members: participating through the VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Sectton 2013 of the Companies Act, 2013. In compliance with the relevant circulars, the electronic copy of Notice of the AGM alongwith Annual Report for the year 2022-23, have been sent on September 6, 2023 to all the members of the Company whose email address are registered with the Company / Depository Participant() / RTA (Skyline Financial Services PVL Ltd). The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.bseindia.com. NOTICE is also hereby given pursuant to regulation 42 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015 and section 91 of the Company shall remain closed from Monday. 25th September, 2023 (boat Junau General Meeting. The documents referred to in the Notice of the AGM	9. औ अरुण कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री पारस नाथ श्रीवास्तव (गाएंटए) निवारी मकान ने. 10. सादिक नगर, सिहानी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201001 श्री श्रीमती. यह, आपके ऋण खाता संख्या – 100741007316 के संदर्भ में है। इनके नाम से खाता है स्वर्गीय सुधीर कुमार ऋण खाता साः 100741007316 इस तिथि को एनवीए घोषित 28–07–2023 संस्वीकृत ऋण खुविधार्य पीएल-एतएपी-टीएल संस्वीकृत ऋण खाता के 100741007316 इस तिथि को एनवीए घोषित 28–07–2023 संस्वीकृत ऋण खाता के 1007410070/- (रुपये सजह ताख पिवहतर इजार मात्र) बकाया / पेओफ राशि 5. 17.75.000/- (रुपये सजह ताख पिवहतर इजार मात्र) बकारा को नोएडा-18 स्थित शाखा से प्राप्त संस्वीकृत की गई है. यह ऋण खातो काफी समय से असंतारिधनक ढंग से परिवातित हा रह हैं और इस सांव में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्वशा व दियानित का स्व मं असंता प्रवाति का सुनुरावितानुसार खाता को बहियां में और इस संबंध में मारतीय रिजर्व बैंक के निर्वशा व दियानिद आने स्व तर उजाने में विकल रह हैं। उक्त ट्रुटि के दृष्टिगत, आपके खाते को यापर के नियमित अनुक्रम में अनुरावितानुसार खातां की बहिया में और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्वशा व दिया गया है। तट्नप्रसार 28–07–2023 को एक गैर-निष्पादित परिसंपति के कप व ति की यापर के नियमित अनुक्रम से आक खाते के अत्य का अग्र सिंक का या रिजर्व बैंक के आय सा से । तट्नप्रसार 28–07–2023 को एक गैर-निष्पादित परिसंपति के आय रिजर्व के अनुसार परित्त व कि आधा सा से गरिंक वा रायुक ज्या / लगनत आदि के साथ, 10–08–2023 के अनुसार परित्त व व या या हा । तट्नपुत्ता से आक्रिक जितेनि सा का आक्रमिक करा आक्रम के का ता कि अत्रम करा आठलिक क
तहत बनाए गए नियमों और सेवी (सूचीबद्धता दायित्व और फ्रस्टीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के अनुपालन में 18वीं एजीएम के नंदिस ('एजीएम नंदिस') में निर्दिष्ट व्यस्ताय को संचालित करने के लिए पीसी जैयतर लिमिटेड ('कंपनी) को 18वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शनिवार, 30 सितंवर, 2023 को युवड 11:00 वजे (मा.मा.स.) यीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('रंचीरी')अन्य ऑडियो वियुक्धल साथन ('ओएयीएम') के माध्यम से आयंजित की जाएगी) एमसीए परिपत्रों और सेवी परिपत्र SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनॉक 5 जनवरी, 2023 के अनुयार, वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के साथ एजीएम नंदिस केवल उन सदस्यों को इलेव्हॉनिक मेंड हारा भेजा गया है जिनके ई-मेल पता डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ('डीपी')क्रमनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट-केफिन टेक्सोलॉजीज लिम्टिड ('क्रेफिनेट्क') के साथ पंजीकृत है। कंपनी ने 7 सितंबर 2023 के इनका डिस्पैच पुरा कर लिया है। ये कंपनी को वेबसाइट पर भी उपलच्ध हैं और लिंक https://corporate.pcjeweller.com/annual-report/ के साथ-साथ वीएसई लिमिटेड, नेशलल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और केफिनटेक को वेबसाइट क्रमश: https://www.bseindia.com/, https://www.nseindia.com/ तथा https://evoting.kfintceh.com/ से एक्सेस किया जा करता है। कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 44 के साथ पटित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को इ-वेटिंग सुविधा के माध्यम से एजीएम नंटिस में निर्दिष्ट व्यसाय पर इलेव्हॉनिक रूप से येट देने अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने वीसी/ओएवीएम, सिंगट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग सुविधा बुयान तर रही है। कंपनी ने वीसी/ओएयीएम, सिंगट ई-वोटिंग और ख़ाएम में भगते के माध्यम से सदस्यों को भगीवरी की सुविधा प्रदान के लिए एजेंसी भी सिंगट ई-वोटिंग साथा करने को सुवाया, 27 सितंबर, 2023 खुबह 900 बजे (भा.मा.स.) से खुरू होगि और प्रिंगर प्रविय हे ये उपर्युगी में उनके रेस के उन्यात करी नी के अनुसार कंपनी की रजित्वर तथाय होगा। केवल वे सदस्य, जिनके नाम झनिवार, 23 सितंबर, 2023 ('कट-ऑफ तिथि') को सदस्यों के रजित्वर स्र सरतरत कडि है, उसे इस होगि जी रचने के यात हरी गा। कोई व्यकि के कट-वोटिंग के रजिरार सरतर सोन रजियर हे से पर स्री के आवर करन के प्रवाय क	पित कांयलिय. 509, अरुणायल विलिंडग, वाराखंमा रोड, कर्नाट एकेस. नई दिल्ली–110001 वेबसाइट: www.goodluckindia.com, ई-नेक goodluck@goodluckindia.com सीआईएन : L74899DL1986PLC050910 37GÎ वार्षिक आम बैठक की सूचना, बुक वलोजर और (रेमोट ई-वोटिंग की जानकारी) एतदडाय नोटिस दिया जाता है कि गुडलक इडिया विमिटेड के सदस्यों की अवी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शनिवर, 30 सितंवर 2023 पूर्वांड 1100 वन्जे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (जीसी)/ अन्य जांडियो के विजुअत नाध्यन (ओएयीएम) के नाध्यन से कर्मनी वाधिनियन, 2013 और उसके तहत बनाए पर नियमों,सेंगे (जूसी- (आएयीएम) के नाध्यन से कर्मनी वाधिनियन, 2013 और उसके तहत बनाए पर नियमों,सेंगे (जूसी- वायिय, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 08 दिसंबर, 2022 से साथ पठित वार्णवेड कर्येल, 2020 ने प्रायत जोर सेवी परिपत्र दिनांक 12 सई, 2020, 16 जनवरी, 2021, 14 दिसंबर, 2021 और 05 नरदी, 2022 में परिपत्र और सेवी परिपत्र दिनांक 12 सई, 2020, 15 जनवरी, 2021, 13 मई, 2022 और 05 जनवरी, 2023 में प्रायत्र के अनुपाल में, एर्थापत के नोटिस में निपरित साधारण और वीगेय व्यवसाय की गियटोन के लिए आयोजित की जाएगी। बैठक की सूचना31 मार्च, 2023 को समापत वित्तीय वर्च की वार्षिक रिपोर्ट और दुरस्थ ई-वोटिंग विवरण जन समी सदस्यों को इलेवट्रींगक नोक में नेज दिए पर है जिनको के अंतिन तिरि 06 सितंवर, 2023 है। ये दस्तावेज सदस्यों होरा आयजारको को नोटिस ई-वेत सेनजे की अनित तिरि 06 सितंवर, 2023 है। ये दस्तावेज सदस्यों होरा आयजारको को नोटिस प्रायत करने के लिए कंपनी की वेबसाइट www.goodluckindia.com पर भी परवस्था है। यो बात्मेक केपनी/ देखींगिटटी के साथ वर्धनी ईनेल जाईडी प्रंतीक्वन नदी की है, तो कुगया बित कां 2022-23 के लिए वार्षिक रियोर्ट प्रायत करने और ई-वोटिंग के लिए लोगिन विवरण प्रायत करने के लिए वर्धनी इंसेल जाईडी, मंगोइल रकरों के स्ट्र वार्ष ही के कंपनी की अंती इत्र प्रायत एंतेट, प्रत्यएस सॉसिज तिनिट दर्ग ती ट-43, दुरस्थी मंगिल, जांवा औरयी प्रत्य जार्य करे। स्वर वार्तिक रियोर्ट प्रायत करने की पर परि सिंद वार्या जांवन करे। यो बाता रोयराय को प्रत्य हो कि कंपना करे के व्रेय व्रेया कर समय पर अपनेट करे। स्वरिक जानंने ने सेवर स्रेया के प्रत्य हु को ते लागामा जे उन्नयी दार्य सार सासिज तिनिट करने हे वा प्रत्य विक्र करो। करारा कार्य सेवे प्रत्य करा सारक प्र	 CIN No.: (JA899DL1987PLC026617 Regd. Office 3 rd Floor, Surva Plaza, K.18/5/L, Sarvi Julena, New Friends Colony, New Delhi – 110025, E-mail : cs@modisteel.net, Website : www.modisteel.com Phone : 011-49872442, 19. NOTICE OF 37th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OVAM") on Saturday, 30th September, 2023 at 01.30 PM, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEB1") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 read with General Circular No. dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, 8th December, 2021, 1May 5, 2022 and 28th December, 2022 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEB1 (collectively referred to as "relevant circulars") to transact the business as set out in the Notice of AGM. Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM or view the live webcast at https.//www.wotingindia.com. Members participating through the VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. In compliance with the relevant circulars, the electronic copy of Notice of the AGM alongwith Annual Report for the year 2022-23, have been sent on September 6, 2023 to all the members of the Company whose email address are registered with the Company's website a twww.modisteel.com and on the website of the Stock Exchange Le. BSE Limited at www.modisteel.com and on the website of the Stock Exchange Le. BSE Limited at www.modisteel.com and on the website of the Mompany's Juleas, 2015 and section 91 of the Companies Act, 2013 readwith Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rule, 2014, that the Register of Members and Share Transfer Books o	9. औ अरुण कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री पारस नाथ श्रीवास्तव (गाएंटए) निवासी मकान ने. 10. साविक नगर, सिहानी गाजियावाद उत्तर प्रदेश 201001 श्री श्रमेगो. यह, आपके ऋण खाता संख्या – 100741007316 इंगर के माम से खाता है स्थांगे प्रदा गांगे छा खाता संख्या – 100741007316 इंगर खाता तो के ने एप्रीए घोषित 28-07-2023 संस्तीकृत राशि करा परिया प्रित – (राएप सं स्त्रह लाख मात्र) वकाया / प्रेआंक राशि करा राशि र. 17.05.000 / - (रुपये सत्रह लाख मात्र) वकाया / प्रेआंक राशि र. 17.75.000 / - (रुपये सत्रह ताख परिवह तर रखा ह सर्ग कुप्र उपरोत्त खातो को नोएडा–18 स्थित शाखा से प्रातत संस्वीकृति का पर्ई ति कहण यहां इसर्ग कप्र वतार अनुसार एसे ऋण के संख्य में अपरीय रिजर्म वैंक के निर्देशा दिया गा दी ता त्राहिक काप वाई काप्र खातो की बहिया में और इस संबंध में आरतीय रिजर्म वैंक के निर्देशा दिया गा दी दिगन्दी सं अनुसार खाता की बहिया ने और अर सा सं वर्र सिंग के आय यहा नेविक या परिय की ता तुया प्र के अनुसार खाता की बहिया ने और अर्या म करने पर वैंक अतिगृत परिसायि को क्यो तारी खा का जुरातान और अंखरित सावरिक के लिं आय हर नोकित करेगा तारी के के तिंत सावर प्रयंकि का निर्वाय करे के लिं साविक्र प्रयंकि का प्रयंक के प्र करतातरण क अपंकित
तहत बनाए गए नियमों और सेवी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवस्कताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के अनुपालन में 18वीं एजीएम के नोटिस ('एजीएम नोटिस') में निर्दिष्ट व्यवसाय को संचालित करने के लिए पीसी जैवल लिमिरेड ('कंपनी) को 18वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') अनिवार, 30 सितंवर, 2023 को युवड 11:00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('चीरी')अन आर्डियो विजुअल साधन ('कोएयीएम') के माध्यम से आवंजित की जाएगे। एमसीए परिपत्रों और सेवी परिप्र SEBJ/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनॉक 5 जनवरी, 2023 के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के साथ एजीएम नोटिस केवल उन सदस्यों को इलेव्यूनिक मेड द्वारा भेजा गया है जिनके इं-मेल सता डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटस ('डीपी') फ्रेफनी/रजिस्ट्रा और ट्रांसफर एजेंट-केफिन टेक्नेलॉजीज लिमिटेड ('क्रेफिनटेक') के साथ पंजीकृत है। कंपनी ने 7 सितंवर 2023 के इतका डिस्टैंच पूरा कर लिया है। ये कंपनी को वेबसाइट पर भी उपलख्ध हैं और लिंक https://corporate.pcjeweller.com/annual-report/ के साथ-साथ वीएसई लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और केफिनटेक की वेबसाइट क्रमश: https://www.bscindia.com/, https://www.nscindia.com/ तथा https://evoting.kfintech.com/ से एक्सस किया जा क्षकता है। कंपनी (प्रवंधन और प्रसारन) नियम, 2014 के नियम 20 और सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 44 के साथ पटित अधिनियम की धरा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को इनेवोटिंग सुविधा के माध्यम से एजीएम नोटिस में निर्दिष्ट व्यवसाय पर इलेव्यूनिक रूस से वोट देने के अपने अखिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने वीसी/ओएवीएम, सिये ई-वोटिंग और व्यकिय का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने वीसी/ओएवीएम, सिये ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है। कंपरी ने वीरिय कि कि विध र्कसी क्या किन्स पर स्टर्थ काइन के सायए ती है। सदस्यों की भागवियी को सुवाधा प्रदार कर के दिख में उल्लिक्त ''18वीं एजीएम में भाग लेने के सायए सो सर सरबर्धो की भागवियी को सुवाध का कुत्तति ही जाएगा। केवल वे सदस्य, जिनके नाम शनिवाद, 23 सितंबर, 2023 ('कट-ऑफ तिथि') के सदस्यों के राजस्टर/लाभभोगी स्वामियो की सुची में दर्ज के केव का कर के लाह कि जे क्र-वॉटिंग के माध्यम से अपना वे सुची युची में दर्ज के के व्या सक के बा दक्सो क	र्षेत कार्यालयः 508 अरुणाचल विहिङग, वाराख्यंग रोड, कर्नाट एलेस, नई दिल्ली–110001 वेवसाइट: www.goodluckindia.com, ई-लेख goodluckindia.com सीआईएन : L74899DL1986PLC059910 37वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, बुक क्लोजर और एसोट ई-वोटिंग की जानकारी 	CIN No: 174899011987PEC026617 Reg. Office 13 rd Floor, Surva Plaza, K.185/1, Srail Julena, New Friends Colony, New Delhi – 110025, E-mail : cs@modisteel.net. Website : www.modisteel.com Phone : 011-49872442, 19. NOTCE 0F37H ANNUAL CENERAL INFLICTING, BOOK COUSTRE AND E-VOTING INFORMATION NOTTCE is hereby given that the 37th Annual General Meeting of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OVAM") on Saturday, 30th September, 2023 at 01.30 PM, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 read with General Circular No. dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, 8th December, 2021, 14th December, 2021, May 5, 2022 and 28th December, 2022 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporte Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business as set out in the Notice of AGM. Members will be able to attend the AGM through VC / OAW or view the live webcast at https. https://www.evotingindia.com. Members participating through the VC / OAWM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. In compliance with the relevant circulars, the electronic copy of Notice of the AGM alongwith Annual Report for the year 2022-23, have been sent on September 6, 2023 to all the members of the Company whose email address are registered with the aforesaid documents are aliso available on the Company's website at www.modisteel.com and on the website of the Stock Exchange is and section 91 of the Company shall remain closed from Monday. 25th September, 2023 to Saturday, 20th September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of faoresaid Annual General Meeting. The documents referred to in the Notice of the AGM are available electronically for inspaction	 8. श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री पारस नाथ श्रीवास्तव (पारंटर) निवासी नकान नं. 10. सादिक नाए. सिखनी पाजियावाद उत्तर प्रदेश 201001 श्रो/श्रीनते. यह, आपके ऋण खाता संख्या – 100741007318 के संदर्भ में है। इनके नाम से खाता हे एनपीए घोषित 28–07–2023 संस्वीकृत राषि ये एनपीए घोषित 28–07–2023 संस्वीकृत राषि ये एनपीए घोषित 28–07–2023 संस्वीकृत राषि ये एनपीए घोषित 28–07–2023 संस्वीकृत राषि रे 17,00.000/- (रुपये संत्रह लाख मात्र) कराया / देशॉफ राषि रे 17,00.000/- (रुपये संत्रह लाख मात्र) कराया / देशॉफ राषि रे 17,75.000/- (रुपये संत्रह लाख मात्र) कराया / देशॉफ राषि रे 17,75.000/- (रुपये संत्रह लाख प्रिवहत्तर हजार मात्र) उपरोक्त खातों को नोएडा–18 स्थित शाखा से प्राप्त संस्वीवृति पत्र के माध्यम से रु. 17,00,000/- (रुपये संत्रह लाख मात्र) की एक ऋप सुविधा संस्वीकृत की गई है. यह ऋण खातो काफी सनय से असंतोषजनक दंग से परिवालित हो रहे हैं और इसतिये आप इस त्रुटि के तहत यहां इसमें ऊपर वराए अनुसार ऐसे क्रण के संबंध में आप खाते को नियमित / समयोणित करने के लिए कटन उठाने में विकल रहे हैं। उक्त त्रुटि के दृष्टिगत. आपके खाते को कापाए के यिग्रि तर्ग के लुए कटन उठाने में विकल रहे हैं। उक्त त्रुटि के दृष्टिगत. आपक खाते को नियापल के वियमित को तार्थ के प्राप्त बातां की बहियों में और इस संबंध में भारतीय रिजर्म वेतके निर्देशी व दिशानिर्देश के अनुसार 28–07–2023 को एक गैर–निम्पादित परिसंवति के रुप वे मारिक्त की ती तो खा स को तत्वार उपरोक्त सभी ऋण्/ अंधिम/ ऋण सुधिधों को वारस ते है और आप सभी से संयुक एवदद्वारा उपरोक्त सभी ऋण्/ अंधिम/ ऋण सुधिधों को प्रार्तित की ती तो खे के दिखे रिक्त क्यां / लगतत आति के सास 10–06–2023 के अनुसार सभी काया गाशियों का गुरातान और अठित्रेह्त जना करें, जो के तुल मितावर रु. 17,75,000/- (रुपये सत्रह लाख पिषहत्तर इजार मात्र) के तागक बका डे, और रेश क प्रत्र कि प्रतिन्र के प्रतिन्र रिक्त काय को शाह रा अंगर, प्रती कि के प्रतिन्रत रिक्त यहा सात्रि का परं कर प्रार्ते सात्र कर परंते के प्रति स्र सी कार्तवाद के रोगा और पष्ट के अल्डर के प्रतित्त रित्ति रित्त स्वार्तवा और अनुत्रवी ती सर्य वाता के स्वर्ता रेत सा सुख सा प्रति के प्रतत्रत कर प्रति कर की संस्ती प्रता भात्र का प्रत्वे सात्र प्रत्व स
तहत बनाए गए नियमों और सेवी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता वित्तिय') के अनुपालन में 19वीं एजीएम के नीटिस ('एजीएम नोटिस') में निर्दिष्ट व्यसाय को संचालित करने के लिए पीसी जैलर लिमिटेड ('कंपनी') को 18वी वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') आनवा आडियो विजुअल साधन ('ओएयीएम') के माध्यम से आयंजित की जाएगी) एमसीए परिपत्रो और सेवी परिपत्र SEBL/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनॉक 5 जनवरी, 2023 के अनुपार, वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के साथ एजीएम नोटिस केवल उन सदस्यों को इलेव्हनिक मेड ह्या भेजा गया है जिनके ई-मेल पता डिपॉजिटरी पार्टिसिरेंदर ('डीपी')/कंपनी/रजिस्ट्रर और ट्रांसफर एजेंट-केकिन टेक्वोलॉजीज वितिप्रेंट ('केफिनटेक') के साथ पांजित ही कंपनी ने 7 सितंबर 2023 को इनका डिस्पैच पूरा कर लिया है। ये कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है और लिंक https://corporate.pcjeweller.com/annual-report/ के साथ-साथ वीएराई विमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सरेंच ऑफ इंडिया लिमिटेड ('केफ्नी) को वेबसाइट कमश: https://www.bseindia.com/, https://www.nseindia.com/ तथा https://evoting.kfintech.com/ से एससे किया जा सकता है। कंपनी (प्रबंधन की घरा 108 के प्रावधानं के अनुपालन में, कंपनी अपने सरस्यां को ई-वेटिंग युचिधा के माध्यम से एजीएम नोटिस में निर्दिष्ट व्यसाय पर इलेव्ट्रनिक रूप से वोट देने के अपने अधिकत का प्रयोग करने की युविधा प्रवारा, 2014 के रिपम 20 और सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 44 के साथ पटित अधिनियम की धरा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी अपने सरस्यों को ई-वेटिंग युविधा के माध्यम से एजीएम नोटिस में निर्दिष्ट व्यसाय पर इलेव्ट्रनिक रूप से वोट देने के अपने अधिकत का प्रयोग कर ने सुविधा प्रवारा, 20 रितंबर, 2023 (फ्रस्ट-ऑफ तीविट में उलिएनिर्स)'' को ध्यान से पढ़ें। रिमेट ई-वोटेंट युविधा युवधार, 27 रितंबर, 2023 (फ्रस्ट -कॉफ तिथि में आर प्रकति में से की रिप्स एजीएम में भा लेते ही जाएगी। केबल वे सदस्य, जिनके नाम शनिवार, 23 सितंबर, 2023 ('क्रस्ट-ऑफ तिथि') को सदस्यों के राजस्टटलाभर्भागी स्यामिय बे पुची में इं-ई केवल वही वोट देन (रिगेट ई-वोटिंग के माध्यम से और एजीएम में के कहवदा होंगे और उनके मतवान का अधिकार करने से का कही गा है, ये दरिय के राजस्टटलाभर्भागी स्वासिय के प्रवत के प्रात होंग के सा सरस्य वज्य को ही का के अनुरार देच नोंग यहा	पणि कार्यसन्यः छठ, अरुणाचल विलिंग, वारायंभा रोड, कनीट प्लेस, नई विल्ली-110001 वेबसाइट: www.goodluckinglac.com, ई-लेड goodluckinggoodluckindla.com सीआईएन : 1.74899DL1986PLC050910 37वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, बुक क्लोजर और एसोट ई-वोटिंग की जानवगरी. एतददास नोटेस दिया जाता है कि गुडवक इविया विनिदेड के प्रदर्श्य की अयी वर्षिक आन बैठक (एजीएन) पांचिस: 20 सिंतर 2022 पूर्वित 1100 करों, विडियो कांग्रेसीम (रोवीन)/ अन्य आदियों वे जिजुल नाव्यन (थोएवीएम) के नायम से कंपनी वागिरियन. 2013 थीर परसने तहत बनाए पर नियमोरंसे (पूर्विन्द्रता वादिस् और प्रकटीकरण आवश्यकतारी) विनियम. 2015 (सूचीवद्धता विनियन) के साथ परित कॉपेरेंट कार्य मंत्रालय द्वारा जांसे सानाय परिय के 10/2022 विनांक 28 दिसंवर, 2022 में साथ परित कॉपेरेंट कार्य मंत्रालय द्वारा जांसे सानाय परिय के प्रकटीकरण आवश्यकतारी) विनियम. 2016 (सूचीवद्धता विनियन) के साथ. परित कॉपेरेंट कार्य मंत्रालय द्वारा पंत्र संसी परियत्त दविक 21 की 2020. 16 पत्रांस, 2021 भी स्व यदा 201 और 06 मंदे, 2022 के परिय और संसी परियत्त दविन्दर्शनिक सोड में भेल दिए पर है जिनको है-ने वाईकी कंपनि/ आराटोए/ डिपॉजिटरी के साथ पत्रीकृत है। वेवस्वारकों को नोटिस ईमेल भेजने की अतिन तिथि 05 सितंवर, 2023 है। ये दरसावंज सदस्यों द्वारा त्रावेद्र प्रजीकृत नहीं की है, तो कृपया कि वर्य 2022-23 के तिए वॉपिक सिर्यों, प्रात करने और ई-चोटिंग के अं भेल दिए पर है जिनको है-से वार्वांड पार्जकुत करने के दिए गी वि देए पर गिदेदार या कॉर्यों व्यतिन्द किया करे। यदि आपने कंपनी /डियॉजिटरी के साथ पत्नीकृत है। वेकपात्र करान के तिए वर्जनी की वेयसाइट www.goodluckindia.com पत्री रें देन्वटिंग को अं देवां त्रित्र आपने हैतेत वार्वांड पार्जकुत करने के दिए गी वि दे पर पर निदेश, प्रात कार्ग के के रेपर, दार्यर, विरेख वितर वॉपिक सिर्य, प्रात वेक साता वियरा और या कॉर्यन करो। के देयर, ट्रायरा प्रात क्रि वार्या हिंद वे तिए वॉपिक सिर्यर, वेत स्व साता वियरा और या कॉर्यन करे। भारिक वारिता वेयरार के साथ प्रात्तिक स्वार्य वार्य करे के कीपी द्वारा स्वारार्य करे वितर वॉपिक सिर्य, प्रात विक सार्य वर्य कि व्यान वेयरा प्रात करे सां हिंद (स्व व्य वेन्व) के से सुप्य वार्य के व्यकरा को दियरां वितर सार कर करे के कीपी द्यार स्वार के तहल संकर करे करे। करात्व के	CIN No: 174890L1987PEC026617 Reg. Office 13 rd Floor, Surva Plaza, K.185/1, Srail Julena, New Friends Colony, New Delhi – 110025, E-mail : cs@modisteel.net, Website : www.modisteel.com Phone : 011-49872442, 19. NOTCE 0F37th ANNUAL CENERAL INFLIGE BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OVAM") on Saturday, 30th September, 2023 at 01.30 PM, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 read with General Circular No. dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, 8th December, 2021, 14th December, 2021, May 5, 2022 and 28th December, 2022 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business as set out in the Notice of AGM. Members will be able to attend the AGM through VC / OAWM or even the live webcast at https: https://www.evotingindia.com. Members participating through the VC / OAWM facility shall be reckomed for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. In compliance with the relevant circulars, the electronic copy of Notice of the AGM alongwith Annual Report for the year 2022-23, have been sent on September 6, 2023 to all the members of the Company whose email address are registered with the aforesaid documents are also available on the Company's website at www.bseindia.com. NOTICE is also hereby given pursuant to regulation 42 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements}, 2015 and section 91 of the Company shall remain closed from Monday. Z5th September, 2023 to Saturday, 20th September, 2023 to saturday is plaused to decement and Administration) Rule, 2014, that the Register of Membe	 8. श्री अरुण कुमर श्रीवास्तव पुत्र श्री पारस नाथ श्रीवास्तव (मारंटर) निवली मलन न. 10. सादिक नगर, सिंहानी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201001 श्री/श्रीनते. यह, आपके ऋण खाता संख्या – 100741007316 के संपर्भ में है। इनके नाम से खाता है स्वर्गीय सुधीर कुमार ऋण खाता सं: 100741007316 के संपर्भ में है। इनके नाम से खाता है स्वर्गीय सुधीर कुमार ऋण खाता सं: 100741007316 के संपर्भ में है। इनके नाम से खाता है स्वर्गीय सुधीर कुमार ऋण खाता सं: 100741007316 के संपर्भ में है। इनके नाम से खाता है स्वर्गीय पीएत-एवरएपी-टीएल संस्वीकृत खारी के एनपीए घोषित 28-07-2023 संस्वीकृत चांचि के एनपीए घोषित 28-07-2023 संस्वीकृत चचि के एनपीए घोषित हो के 17,75.000/- (रुपये संत्रह लाख घिचहतार हजार मात्र) वकाया / देओंफ दाचि के 17,75.000/- (रुपये संत्रह लाख घिचहतार हजार मात्र) वकाया / देओंफ दाचि के 17,75.000/- (रुपये संत्रह लाख पिचहतार हजार मात्र) उपरोक्त खातो को नोएडा-18 खित शाखा से प्राय संस्वीकृति पत्र के माध्यम से रु. 17,00,000/- (र्णये संत्रह लाख मात्र) की एक ऋण सुदिधा संस्वीकृत का गई है. यह ऋण खातो काफी समय से असंतीषजनक दंग से परिपालित हो रहे है और इसरिये आप इस ट्राविज,वमर में अनुसितनुसार वतार अनुसार ऐसे ज्रण के संबंध में आने खाते को गियमित भार वि निया नदा हमान करा वतार अनुसार एसे ज्रण / अधिम / ऋण सुविधाओं को वायस ते है और आप समी से संयुक रुप मं और अलग-अलग आडाबान करते है कि आप इस नोटिस की प्रायि की तारि की दि दिन्म अर्वते के गीतर प्रतिमूत परिपाति के प्रार्म दिस की पाति की तारि की ही 66 तिये को अवधि के गीतर प्रतिमूत परिपाति के प्रार्म मुद्र सि का प्रार्क का प्रिति की तारिक के दिन का करें जो कि खुल मिलाकर रु. 17,75,000/- (रुपये संत्रह लाख प्रिवहतार इअपर मात्री को अर्वाह करे सात्र मुद्र सर्व प्रयाप्त कर सा कि मी चे उत्तिदित प्रतिमत के का के तो को साही जंतानम वकाया है. और ऐसा न करने पर के क्रेत्रित सिता को का प्रता को को को से की ता कर ता तक रा जे स्वर्य गवाना के अनुरुप सानीवित करा जा आवीत वितेख की मी कार्य हा निय्य कि राग, जैसा कि नी चे उत्तिदित कि ता प्रता कर को कि को की स्वर्ति का सा करें ता कि रायक्र प्रत्य पुर्व सात्र के प्रतिरेक सर तक्र प्रतम्य प्रत्य पुर्व सार के वाम परंति
तहत बनाए गए नियमें और सेवे (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवरथकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता वितियम्') के अनुपालन में 15वीं एजीएम के नीटिस ('एजीएम नोटिस') में निर्दिष्ट व्यवसाय को संचालि करने के लिए पीसी ज्यैतर लिमिटेड ('कंपनी') के 15वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शनिवार, 30 सितंबर, 2023 को युवह 11:00 चने (भा.म.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीर्म') अन्य आडियो विजुअल साधव ('धोपटीप') के माध्यम से आयोकत को जाएगे। एमसीए परिपत्रों और सेवी परिपत्र SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनोक 5 जनवरी, 2023 के अनुसार, वार्षिक रिपिट 2022-23 के साथ एजीएम नोटिस केवल उन सदस्यों को होकट्रांनिक मेंड ह्यार भेजा गया है जिनके ई-मेल पता डिपॉजिटरी पार्टसिंग्देस ('ईम्री')/फंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट-केलिन टेकनोलंजीक लिमिटेड ('केफिन्टेक') के साथ पजीएम नीटिस केवल उन सदस्यों को होकट्रांनिक मंड ह्यार भेजा गया है जिनके ई-मेल पता डिपॉजिटरी पार्टसिंग्देस ('ईम्री')/फंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट-केलिन टेकनोलंजीक लिमिटेड ('केफिन्टेक') के साथ पजील्न है। कंपनि ने 7 सितंबर 2023 को इनका डिप्टैंच पूरा कर लिया है। वे कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं और लिंक https://corporate.pcjeweller.com/annual-report/ के साथ-साथ चीरिसेंट्र (जीपने कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 44 के साथ पटित अधिनिय्म की थार। 108 के प्रावशा सफता है। कंपनी त्प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 44 के साथ पटित अधिनिय्म की थार। 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी आप से पदस्यों को ई-चोटिंग चुविधा के माध्यम से एजीएम नोटिस में निर्दीष्ट व्यवसाय पर इलेकट्रीटियों, के सार ई-चोटिंग के प्रजीएम में ई-चोटिंग के माध्यम से सदस्यों की भागीदारी की चुविधा प्रदान करते के लिए एजेंसी के रूप में कफिनटेक को सेवार प्रटार 2013 दुश्व स्र क्र 9:00 को (भा.मा.स.) से युक्ट सीणी अं प्रिणम में केफिनटेक को सेवार प्रातर, 2023 सुकह 9:00 को (भा.मा.स.) से युक्ट सीणी और स्रिप्र सर्थ हे- कोपिन स्री दी जाएगी। केवल वे सदस्य, जिनके नाम शनियार, 23 सितंबर, 2023 ('कट-ऑफ तिथि') के सारस्य के जिक्टन को जेवापी। इनके रिजे स्र पूर्च के के क्या का आविष्य सं क्रानि से स्ट क्रेंनी के सिंपर स्ट नई के जी की रार दर्द्य के जिनके सरको क	पणि कार्यसम्बाद्धाः ३७,३ अरुणाचल विहिन्म, वारावमा पोड, कर्नाट प्लेस, नई विल्ली-110001 वेवसाइट: भरभ. एववेविप्रति विद्याला, ई-लेड एववविप्रदेश goodluckindia.com सीआईएन : 1.74899DL1986PLC050910 37वी वार्षिक आम बैठक की सूचना, बुक क्रेलोजर और एवट् डाग गोटेस दिया जात है जि प्रकुलक इंदिया विविटेड के खरस्यों की अयी यार्षिक जान बैठक (एजेंएन) पांचिस, 30 तिवस् 2022 पूर्वा : 108 करें, वीडियो कंगेलेसी (पीवीन) / जया जीडियो वे विजुजल नाध्यन (अंएवविएम) के माध्यस कंपनी अधिनियन, 2013 और उसके तहत बनाए पर नियांसं, रेवी (पुंचीब्द्धता वायित और प्रकटीकरण आवश्यकतारी) विनिधन, 2013 और उसके तहत वनाए पर नियांसं, रेवी (पुंचीब्द्धता वायित और प्रकटीकरण आवश्यकतारी) विनिधन, 2013 और उसके तहत वनाए पर नियांसं, रेवी (पुंचीब्द्धता वायित और प्रकटीकरण आवश्यकतारी) विनिधन, 2015 (पुंचीब्द्धता विनियन) के साथ पठित कंपिरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सानाय परिष से 10/2022 विनांक 28 विसंस, 2022, 14 दियंस, 2021 और 69 सहं, 2022 के प्रवित्रांनी यंत्रा वर्ग सासे 10/2022 विनांक 28 विसंस, 2021, 14 है 2022 और 69 जलसी, 2023 के प्रवकानों के अनुपालन ने, एजीएम के नेटिस ने निर्धारित साधारण और विशेष व्यवसाय को नियटने के लिए आयोजित की जाएगी। बैठक की सूच्या को इतेव्हरीतिक सोड ने भेज दिर पार है जिनको ई-से वर्गसं, 2023 है। ये वत्तावेज सदस्यों द्वारा उपानले है। व्यवपायको को नोटिस ईन्त भेजने की अतिन विधि 8 सितंबर, 2023 है। ये वतावेज सदस्यों द्वारा जाउनलों के स्वरं पर्जीकृत नदी को है ते व्यवनी की अंतर्पाइट के तिए वार्विक पिटी प्रांव करने और ई-योटिन के लिए लॉमिन विरंप प्रांत करने के लिए वर्पमी की वेदसाइट भभभए आयोधिरा कि पित्र प्रांत करने और ई-योटिन के लिए लॉमिन विरंप प्रांत संती द्वारा नियंतित करन्व प्रांतीक पातिंता गंयरवार्थ्वा से अनुरोध है कि के करेनी की उर्ये एजींग्ल नाही का जान बैटक) हिए अपनी ईनेत वाई वर्ताक की सि निथि दिय पर नरेती के प्रंत करने प्रांत संती द्वारा नियंतित कर्ज प्रांतीक कार्यता गंयरवार्थ्वा क्रिए सीथि दिया पर निरंद हो प्रांत संती प्रांत विरंद करेंते। 1 विंक पातिता गंयरवार्थ्वा हात्ति आरंतित कर्य प्रांतीक कार्यता गंवे स्वर्य्य से विर्ताह स्वंति कांर्य क्रेर करे और अपी द्वारा स्वांतित कर्य प्रांती कार्यते स्वंतिह स्वांतिह यार्टिसिंस रार्यर कर्य करो खोगे 	CIN No: 174899011987PIC026617 Regd. Office 13 rd Floor, Surva Plaza, K.185/1, Srail Julena, New Friends Colony, New Delhi – 110025, E-mail : cs@modisteel.net. Website : www.modisteel.com Phone : 011-9872442, 19. NOICE OF 37th ANNUAL CENTERAL INFERING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING/INFORMATION NOITCE is hereby given that the 37th Annual General Meeting of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OVAM") on Saturday, 30th September, 2023 at 01.30 PM, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 read with General Circular No. dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, 8th December, 2021, 14th December, 2021, May 5, 2022 and 28th December, 2022 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business as set out in the Notice of AGM. Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM or ever the live webcast at https https://www.evotingindia.com. Members participating through the VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. In compliance with the relevant circulars, the electronic copy of Notice of the AGM alongwith Annual Report for the year 2022-23, have been sent on September 6, 2023 to all the members of the Company whose email address are registered with the Company / Depository Participant(s) / RTA (Skyline Financial Services Pvt. Ltd). The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.useindia.com. NOTICE is also hereby given pursuant to regulation 42 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015 and section 91 of the Company's Autor 2013 readwith Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rule, 2014, t	 8. श्री अरुण कुमार श्रीवास्टव पुत्र श्री पारस नाथ श्रीवास्तव (पारंटए) निवासी नकान ने. 10. साहिक नगर, सिहानी पाणियाबाय उत्तर प्रदेश 201001 श्री/श्रीतरी. यह आपके ऋण खाता संख्या - 100741007316 के संदर्ग में है। इनके नान से खाता है <u>क्योय कुधेर कुमार</u> <u>ऋण खाता सं:</u> 100741007316 हम तिथि को एनपीए पांचित 28-07-2023 संरयीकृत ऋण सुविधायें पीएल-एलएपी-टीएल संरयीकृत ऋण सुविधायें पीएल-एलएपी-टीएल संरयीकृत त्रांच क. 17,00.000/- (छपये सत्रह लाख मात्र) बकाया / देअँफ चरीश क. 17,75.000/- (छपये सत्रह लाख मात्र) बकाया / देअँफ चरीश क. 17,75.000/- (छपये सत्रह लाख पिचहत्तर हजार मात्र) बकाया / देअँफ चरीश क. 17,75.000/- (छपये सत्रह लाख पिचहत्तर हजार मात्र) बकाया / देअँफ चरीश क. 17,75.000/- (छपये सत्रह लाख पिचहत्तर हजार मात्र) वरारते कुस सात्री वी एक ऋण सुविधा संस्वीकृत की गई है. यह ऋण खातो काफी समय से अतंतीषजनक ढंग से परिपालित हो रहे हैं और इसलिये आप इस सुट्रिके ताहय रखां इसमें ऊप यवाए अनुसार रंसे ऋण के संबंध में आन्दी सरवित्र के के निर्देशां व दिशानियों के अनुसार पार अनुसार रंसे ऋण के संबंध में आन्दी सर रिपाये के के निर्देशां व दिशानियों के अनुसार यवाए अनुसार रंसे ऋण के प्रार्थ नियायित परिसंपति के रूप में वीकृत कर दिया गय है। तदनुसार हम एवदाशा उपतोक सभी क्रमण / अपिन/ श्रम्थ छीवाओ की यापस तेरे के आ आप सभी से उनक स्व से और अलग-अलग आहवान करते हैं कि आप इस नोटिस की प्रारित की तारीख से 60 दिनों के अवधि के गीतर, प्रतिपूत परिसंपतियों के आय देश नी वया वाशीयों का युगाला और आठसिक क्यां/ लागत आदि के साथ, 10-00-2023 के अनुसार मांगी को कारीख से आठसिक कर्या ताता आदि के साथ, 10-00-2023 के अनुसार मांगियां का युगाला और आठसिक क्यां/ लागत आदि के साथ में प्रार्ग के प्रार्ग वेक में ते से सित रेती संगे के अवदी के गोतर, प्रतिपूत परिसंपतियों की प्रतिपूत परिसंपतियों की क्यां सुर्वात दियां स्व कारा स. जार एष्ट, प्रार्ग, प्रार्ड के प्रत्रित परियात्र के काक्य मां वाक्य खारा स्व हिर सी कं सावहां वरेपा आर पट्ट अन्यां प्रार्ग के प्रार्ग की प्रार्ग के स्व प्रत्र की सर, 1 कि खरप सं. 22 एमखाई प्रा म क्रप्र परिति दि- <u>पारी कर सामक इंक 13 फुट पालक प्रार्ड के प्रत्र का संत्र कि स्वर्त सित स्र 1</u> कि खरप सं. 72 एमखाई प्रार्य के साम एप्य पारियात्र
ततत बनाए गए नियमों और सेवी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विवियम') के अनुपालन में 16वीं एजीएम के नीदेस ('एजीएम नोटिस') में निर्दिष्ट व्यवसाय को संचालित करने के लिए पीसी जैवर लिमिटेड ('कंपनी') के 18वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') अनिवार, 30 स्तिवर, 2023 को युवहा 11:00 फवे (भा.स.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('पंचीर') अन्य आडियो विजुअल साध ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित को जाएगी। एमसीए परिपत्रों और सेवी परिवर SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 के अनुसार, वार्षिक रिपिट 2022-23 के साब एजीएम नोटिस के उन जसररों को इलेवर्गीनक मोंड द्वारा भेज गवा है जिनके ई-नेल पता डिपॉफ्टरों पार्टिसिपेंदस ('चीपी') फंपने(जेन्द्रार और ट्रांसर एजेंट-केफिन टेन्नोलॉजीज लिमिटेड ('केफिनटेक') के साथ पंजीकृत है। कंपनी ने 7 सितंकर 2023 को इनका डिर्फ्रैंच पूरा कर लिवा है। ये कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है और लिंक https://orporate.pcjeweller.com/annual-report/ के साथ-साथ वीएसई लिमिटेड, नेशनल स्टॉफ्ट एक्सपत्रेज ऑफ इंडिया लिमिटेड और केफिनटेक की वेयसाइट कनश: https://www.bscindia.com/, https://www.nscindia.com/ तथा https://evoting.kfintech.com/ से एमसेस किया जा सरकता है। कंपनी (प्रवंधन और प्रवासन) नियम, 2014 के नियम 0 और वुवीवद्धा विवियमों के विनियमन 44 के साथ पटित अधिनियम की प्रशा 108 के प्रायधानों के अनुपालन में, कंपनी अपने वदस्यों को ई-वोंटिंग का प्रवोग करने की युविधा प्रवान कर रही है। कंपनी ने वीसी/ओपयेएम, रिमेट ई-वोंटिंग के अपने अधिकार का प्रवेग के साथयम से पर्याएम की सिप्ट के कि पि प्रवीएम नोटिस ने उल्लिसिंडत' '1821 एजीएम में ई-वोटिंग कु माध्यम से सदस्यों से आनुरोध है कि वे एजीएम नोटिस ने हिल्ट एवेंग' को अपन पर पर्यो के रिसटर/लाभगोगी त्यायियों की सुची में प्रवेदि 2023 ('कट-ऑफ तिथि') को सदस्यों के रिसटर/लाभगोगी त्यायियों की सुची में दर्व है, के वन वही वोट से सी और जजीय प्रविएम में किनटेक को ने साथ ही तो सरस्यों से अनुरोध में के सान से ही कि अनुसार कंपनी की प्रवार सं सर, जिनके नाम शनितिय, 22 सितंवर, 2023 ('कट-ऑफ तिथि') को सरस्यों के रिसटर/लाभगोगी त्यायियों के सुची में दर्व है, केवल वही वोट से देया की अनुमार कंपनी की प्रवार इं का स्वार सो जी उन के साय से प्रवारम का अहिका कर-आफ तिथि के अनुमार कंप	पित. कार्यालय: 805, अरुणाचल विलिंग, वाराक्षमा रोड, कर्नाट जरेस, नई विल्ली-110001 वेबाइट: www.goodluckindia.com ,ई-नेक goodluckingoodluckindia.com संजाईएन : 1.74899DL1986PLC656910 37वी वार्षिक आम बैठक की सूचना, बुक क्लोजर और (रोपट ई-वोरिंग की पाननकारी) एनडडाय नोटिस दिया जाता है कि गुडलक इंडिया तिनिटेड के सदयो की अयी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शांचियर 200 द्वाहा राजा रे कि गुडलक इंडिया तिनिटेड के सदयो की अयी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शांचियर 200 द्वाहा राजा रे कि गुडलक इंडिया तिनिटेड के सदयो की अयी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शांचियर 30 दिस्टर 2022 पूर्वां का 100 रजे, वीक्षियों वोनेगोंक्स (वीका) / जाय अधिक आंग बैठक (एजीएम) शांचियर 30 दिस्टर 2022 पूर्वां का 100 रजे, वीक्षियों वोनेगोंक्स (वीका) / जाय अधिक की दिवुजल नायल (आंग्रवीएम) के नायरम से कपनी अविनियन, 2013 और उलके तहत बनाए पए निमाएंस वीका थे कि 2020, 13 अप्रति, 2020, 6 नई 2020, 13 जनवरी, 2021, 106 दिवसर, 2021, 14 है, 2022 और 06 जनवरी, 2023 की प्रावसों की पार्टी नों का 2 मई, 2020, 16 जनवरी, 2021 जो की 2022 और 06 जनवरी, 2023 की प्रावसोंन के जाएगी। बैठक की सुचला 14 मार्च 2023 को सामाल किंगि वर्षी की वार्षिक रोंग रे दुव्य बंगति, 2020, 6 नई 2020, 13 जनवरी, 2021, 16 दे, 2022 और 06 जनवरी, 2023 की प्रावसोंन के जाएगी 1 बैठक की सुचला 14 मार्च 2023 को सामाल किंगि वर्षी की वार्षिक रोंग रे दुव्य बंगतीं, वारवेल ने सी से पर दारों हो स्वेवरिय की इलेक योग की वार्षिक रेखा के वोटिस संवर ये 2022 है। ये दरसावेज सदर्वरों दा दार डाजनलोंक करने के लिए कंपनी जी बेखसाइट www.goodluckindia.com पर भी उपतरा है। यारे आपने कंपने में दिए गए निरोग का पालन करें। भीति कार्यिक सिट, वास करों जी र वे-वोटिंग के लिए सोगिंग विक्र प्रावस स्वेत के लिए अपनी इंति आईडी पंजीहत करने के लिए नीचे दिए गए निरोग का पालन के लिए अपनी इंति आई बाईडी पंजीहत करने के लिए नीचे दिए गए निरेश का पानी के उन्य'. (वर्षिक वा वदेक) के लिए अपनी दिनेत स्वर ही आपसे अप्ररेश है कि ये कंपने की उन्ये (पार्लिक वा वदेक) के लिए अपनी दिनेत स्वर ते यान्य वेखरफ, फपगी के प्रतिहरा कं कंपना के सिए (यार्पिक वा वर कर ते) सीस वात्तित स्वर करों के पंज्य वार्ष कंपर को अं आग विक्र करा कार्य वार्प को ते तित सप्तब ही ने पार्य प्रार कर करों के ततत स्वरक्स ही	CIN No: 1748990L1987PLC026617 Reg. Office: 37 dF Glos, Surya Plaza, K-18547, Sarai Julena, New Friends Colony, New Delhi – 110025, E-mail : c:@modisteel.net, Website: www.modisteel.com Phone : 011-49872442, 19. NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting of the Company will be held through Video Conferencing ("VC1') other Audio-Visual Means ("OVAM") on Saturday, 30th September, 2023 at 01.30 PM, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEB1") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 read with General Circular No. dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, 8th December, 2021, 14th December, 2021, May 5, 2022 and 28th December, 2022 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEB1 (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business as set out in the Notice of AGM. Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM or view the live webcast at https://www.evotingindia.com. Members participating through the VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. In compliance with the relevant circulars, the electronic copy of Notice of the AGM alongwith Annual Report for the year 2022-23, have been sent on September 6, 2023 to all the members of the Company whose email address are registered with the Company / Depository Participant(s) / RTA (Styline Financial Services Pvt. Ltd). The aforesaid documents are also available on the Company 's website at www.beindia.com. NOTICE is also hereby given pursuant to regulation 42 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015 and section 113 of the Companies Act, 2013 readwith Rule 10 of the Company 's website at www.beindia.com. NOTICE is also hereby given pursuant to regulation 42 of the Securities Exchange Board of India (Listi	 8. श्री अरुण कुमर श्रीवास्तव पुत्र श्री पारस नाथ श्रीवास्तव (मारंटर) निवली मलन न. 10. सादिक नगर, सिंहानी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201001 श्री/श्रीनते. यह, आपके ऋण खाता संख्या – 100741007316 के संपर्भ में है। इनके नाम से खाता है स्वर्गीय सुधीर कुमार ऋण खाता सं: 100741007316 के संपर्भ में है। इनके नाम से खाता है स्वर्गीय सुधीर कुमार ऋण खाता सं: 100741007316 के संपर्भ में है। इनके नाम से खाता है स्वर्गीय सुधीर कुमार ऋण खाता सं: 100741007316 के संपर्भ में है। इनके नाम से खाता है स्वर्गीय पीएत-एवरएपी-टीएल संस्वीकृत खाशा के 100741007316 के संपर्ध मुंदा ताखा मिंग्रहता स्वर्ग मात्र) चकाया / देओंफ राचि 10. 17,75,000/- (रुपये संत्रह लाख मिंग्रहतार हजार मात्र) वकाया / देओंफ राचि 0. 17,75,000/- (रुपये संत्रह लाख पिंग्रहतार हजार मात्र) उपरोक्त खातो को नोएडा–18 खित शाखा से प्राय संस्वीकृति पत्र के माध्यम से रु. 17,00,000/- (रुपये संत्रह लाख मात्र) की एक ऋण सुदिधा संस्वीकृत का गई है. यह ऋण खातो काफी समय से असंतीषजनक दंग से परिपालित हो रहे हैं और इसरिये आप इस टुटि के तहन यहां इसने ऊपर वतार अनुसार ऐसे ज्रण के संबंध में आप खाते को नियमित/ समायोजित करने के लिए कदम उठाने में विरुप्त रहे 1 रुप्त हुटि के द्वीरार ता आपक खाते को काया एक नियमित अनुत्रम में अनुसितनुसार खातो का बहियों में और इस संबंध में भारतीय रिजर्व वींक क निर्देशों व दिशानिद्वारा स्व वतार अनुसार एसे ज्रावम अर्था/ अंधम/ ऋण सुधिमा के तारी को तारी का 60 दिनों की अवधि के भीतर, प्रतिमूत परिसंपतियों की प्रतिमूति पर भीषय के आप सभी से संयुक रूप मं और अलग-अलग आखाना करने स्व कि प्रतिमूति पर भीया का वुग्ताना और क्रोडिट ज्या करें, जो कि खुल मिलाकर रु. 17,75,000/- (रुपये संत्रह लाख पिडसतर इखार मात्रे) तताम वकाया है. और ऐसा न करने पर बैंक प्रतिमूति परिसंपतियों की वसूती के लिरेख यां/ तमात आदि के सारा, 10-00-2023 के अनुरास, सभी बकाया पाशियों की नसूती के तताम के संत्र प्ररात करना, जैसा कि नीचे उत्तिरिति 06-11-2013 के संवस में का क्र तताम के संत्र 2 परकार करना, जैसा कि नीचे उत्तिरित कि तम्प्रत कर्क मे सित का काकरे के भातर प्रत प्रत प्रत करना, जैसा कि नाचि उत्तरित 06-1 में की कसरा सं: तठ2 परस्व के साम के नाम पर पंजिरित है- आप
तहत बनाए गए नियमें और सेवे (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवरथकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता वितियम्') के अनुपालन में 15वीं एजीएम के नीटिस ('एजीएम नोटिस') में निर्दिष्ट व्यवसाय को संचालि करने के लिए पीसी ज्यैतर लिमिटेड ('कंपनी') के 15वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शनिवार, 30 सितंबर, 2023 को युवह 11:00 चने (भा.म.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीर्म') अन्य आडियो विजुअल साधव ('धोपटीप') के माध्यम से आयोकत को जाएगे। एमसीए परिपत्रों और सेवी परिपत्र SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनोक 5 जनवरी, 2023 के अनुसार, वार्षिक रिपिट 2022-23 के साथ एजीएम नोटिस केवल उन सदस्यों को होकट्रांनिक मेंड ह्यार भेजा गया है जिनके ई-मेल पता डिपॉजिटरी पार्टसिंग्देस ('ईम्री')/फंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट-केलिन टेकनोलंजीक लिमिटेड ('केफिन्टेक') के साथ पजीएम नीटिस केवल उन सदस्यों को होकट्रांनिक मंड ह्यार भेजा गया है जिनके ई-मेल पता डिपॉजिटरी पार्टसिंग्देस ('ईम्री')/फंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट-केलिन टेकनोलंजीक लिमिटेड ('केफिन्टेक') के साथ पजील्न है। कंपनि ने 7 सितंबर 2023 को इनका डिप्टैंच पूरा कर लिया है। वे कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं और लिंक https://corporate.pcjeweller.com/annual-report/ के साथ-साथ चीरिसेंट्र (जीपने कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 44 के साथ पटित अधिनिय्म की थार। 108 के प्रावशा सफता है। कंपनी त्प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 44 के साथ पटित अधिनिय्म की थार। 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी आप से पदस्यों को ई-चोटिंग चुविधा के माध्यम से एजीएम नोटिस में निर्दीष्ट व्यवसाय पर इलेकट्रीटियों, के सार ई-चोटिंग के प्रजीएम में ई-चोटिंग के माध्यम से सदस्यों की भागीदारी की चुविधा प्रदान करते के लिए एजेंसी के रूप में कफिनटेक को सेवार प्रटार 2013 दुश्व स्र क्र 9:00 को (भा.मा.स.) से युक्ट सीणी अं प्रिणम में केफिनटेक को सेवार प्रातर, 2023 सुकह 9:00 को (भा.मा.स.) से युक्ट सीणी और स्रिप्र सर्थ हे- कोपिन स्री दी जाएगी। केवल वे सदस्य, जिनके नाम शनियार, 23 सितंबर, 2023 ('कट-ऑफ तिथि') के सारस्य के जिक्टन को जेवापी। इनके रिजे स्र पूर्च के के क्या का आविष्य सं क्रानि से स्ट क्रेंनी के सिंपर स्ट नई के जी की रार दर्द्य के जिनके सरको क	पित कार्यालय: 600 अरुणावल विहिन्म, वाराजंभा गेह, कन्मेंट फोस, बढ़े दिल्ली–110001 वेदसाइट: www.goodluckindia.com सीआईएन : 1.74899DL1980PLC980910 उनदी वार्षिक आम बैठक की सूचना, बुक क्लोजर और (मेरोट बू–वोटिंग की जानकरी) (प्रवहाव गोटिस विया जाता है कि गुरुलक इंडिया तिमिटेड के सदस्यों की उन्यी वार्षिक जान बैठक (एजीएस)) गांचिय, 30 सितंदर 2023 द्वांडे 1100 संगे, बीडेयो कांकसिंग (प्रेसी)/ जग्व वाह्रिक विक क्रि. (एजीएस) गांचिय, 30 सितंदर 2023 द्वांडे 1100 संगे, बीडेयो कांकसिंग (प्रेसी)/ जग्व वाह्रिक क्रि. 2004, 19 गांचिय, 30 सितंदर 2023 द्वांडे 1100 संगे, बीडेयो कांकसिंग (प्रेसी)/ जग्व वाह्रिक (एजीएस) गांचिय, 30 सितंदर 2023 द्वांडे 1100 संगे, बीडेयो कांकसिंग (प्रेसी)/ जग्व वाह्रिक, वाकसिंट, 2021 की जंगर कतन्दिकर जावरखतारी/ विनिय, 2015 की प्रवस तह वगए गए पियनोंसेंसे (प्र्सीकदवा वाहिक वांगर कतन्दिकर जावरखतारी) विनियन, 2015 कांचरी, 2021, 18 स्ट्रं 2021 जी संग कांके 2021 के प्रविक वी परिपत्र दिवार 12 मई, 2020, 15 जगवरी, 2023 के सामाल वितीय वर्ग की वार्कि वियर्ट 10, 2023 के प्रवसानों के अनुपालन में, एजीएम के गोटिस में निर्धारित साधापण और विषेग व्यतसाय को निपानने के तिरित निर्द कार्यायेक विपन्नि स्टालेज पदर्थी द्वारा डाउलालोड करने के लिए कांनी ई-नेल आईडी करानी/ असटीप /डिपॉजिटरी के साथ प्रातीकरा है । रोगरासको वो गोटिस ईमत भेजने की जतिन तिरिक 2 कि सितंब, 2023 है। ये दरसालेज पदर्थी द्वारा डाउलालोड करने के लिए कांनी इंत साधार www.goodluckindiacom पर भी उपलबा है। यदि आपले कंपनी/ /दिपॉजिटरी के साथ जानी है कि वे करनी की अंग्रें एजीप्त (जॉफि जान बैठव) के लिए अपनी इंतल आईडी पावीक्त करते के लिए गोंचे दिए पर निर्देश का पाहल करो। भीतिक प्रातिक सेयरासलों से अनुरोक है के वे करनी की के येयर दालकर एजेट, परएएस सर्वसेज वालिनेट बार होट के दुरहा जोत कर्पती जावीना क के जा करना करा। भीतिक प्रातिक सेयरासलों से अनुरोक है के वे करनी की के येयर दालकर पावर करवा, वरें वे तरत पालब ही आसरी क्रान्सेज को जावेतिक में करवा सालक साम पर आरक्ट करे। के तत्क वार्कस ने वियर की कार्य गांचे क्रांस दाला साम करवा, वरें से का सर्वीक के कि प्रयत्त कर्प ते क्रान संदेत कर विरक्त करे। भीतिक प्रातिक से के कि प्रयत्तक कर कर्म कर्प करवा करवा करवा कराना करवार तानति दि के ततत	CIN No: 1748990L1987PLC026617 Reg. Office: 3 rd Floos, Surya Plaza, K-18547, Sarai Julena, New Friends Colony, New Delhi – 110025, E-mail: c:@modisteel.net; Website: www.modisteel.com Phone: 011-9872442, 19. NOTICE Is hereby given that the 37th Annual General Meeting of the Company will be held through Video Conferencing ("CV") (Jother Audio-Visual Means ("OVAM") on Saturday, 30th September, 2023 at 01.30 PM, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 read with General Circular No. dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, 8th December, 2021, 14th December, 2021, May 5, 2022 and 2th December, 2022 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business as set out in the Notice of AGM. Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM or view the live webcast at https https://www.evoitingindia.com. Members participating through the VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. In compliance with the relevant circulars, the electronic copy of Notice of the AGM alongwith Annual Report for the year 2022-23, have been sent on September 6, 2023 to all the members of the Company vinose email address are registered with the Company / Depository Participanti(s) / RIA (Skyline Financial Services PVL Ltd). The aforesaid documents are alios available on the Company's website at www.modisteel.com and on the website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.modisteel.com and on the website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.modisteel.com and on the website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.beainda.com. NDTCE is also hereby given pursuant to regulation 42 of the Securities Exchange Board of I	9. औ अरुष कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री पास्स नाथ श्रीवास्तव (नाएंटए) निवासी नकान न. 10.0. सादिक नगर. (साननी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 20101 वो/ श्रीती. प्रद. वागके ऋण खाता संख्या – 100741007316 के संदर्भ में है। इनके नाम से खाता है वरगीय चुप्रोप खुमार ऋण खाता संख्या – 100741007316 के संदर्भ में है। इनके नाम से खाता है वरगीय चुप्रोप खुमार ऋण खाता से: 100741007316 इस तिथि को (नयीए घोषित 28-07-2023 संसीकृत ऋण खुविधाये पीएल-एलएपी-टीएल संसीकृत क्राण खुविधाये एल-एलएपी-टीएल संसीकृत त्राण ए. 17.05000/- (छपये सत्रह ताख मात्र) बकाता ए. 17.05000/- (छपये सत्रह ताख पाता छाडा सात्र) बकाती को नोएडा-18 स्थित के इस्ति थे पार सुन दुटि के तत्व राग हम नार अपता काछ। उपरोत्त छाती की नो रेख-18 स्थे के प्रेर इस्तिये था प्र सुन दुटि के तत्व राग हम ना क्राज का वाता अनुसार ऐसे ऋण के संबंध में अपने खाते को नियमित/ समायोजित करने के लिए कदन उठाने में मं आरती ता रिया रिया दे हा के के निर्वेघो व दे या यहा है। वतुनुसार एम खते की बहियों में और इस संबंध में भारती के रिपा के के में वेन्दी को प्र प्र ति का अन्त को ति राज सात्र के अनुसा का सात्र को ता का ति कि आद स्था के के सात्र को ता का को ति ति के प्र स्व कि के निर्वेघा को का सा को संख ता का का के ना कर ता के सां के के ता कर ता के के ता कर ता के सा ता कर ता के के निर्वेचा व दे ता सात्र का ता कर ता कर ता कर ता के ना कर ता कर
तकत बनाए गए नियमों और सेवी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रजटीकरण आवश्यव्जाएँ) दिनियम, 2015 ('सूचीबद्धता बते संचालित करने के पिए पीसी ज्यैतर लिमिटेड ('कंपनी') की 18वीं वार्षिक आम बैठक ('एडणीएम') प्रतिवार, 30 सितंप, 2023 को पुखर 11:00 को (भा.सा.स) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') अन्य ऑडियो विजुअल साधन ('ओएबीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एसमेए परियो और सेवी परिषड SEBUHO/CFD/PoD-2/PCIR/2023/4 दिनोक 5 जनवरी, 2023 के अनुसार, वार्षिक रिमेंट 2022-23 के साथ एजोएम नोटिस ठेवल उन सदस्यों को इलिव्हनिक मोड डारा भेग गाया है जिनके इं-नेल पता डिपॉक्टिरोट पीटिसियेट्स ('वीपी') अंभर्ग पतिश्वररा ही इत्रिस्मर एवंट-केफिन टेकनोलॉजीन लिमिटेड ('केफिनटेक') के साथ पंजीकृत है। कंपनी ने 7 सितंबर 2023 को इनका डिर्पेच पूरा कर लिया है। ये कंपनी की वेक्साइट पर भी उपलक्ष हैं और लिंक https://compate.pcjeweller.com/annual-report / के साथ-साथ बीएसई लिमिटेड, के नका डिर्पेच पूरा कर लिया है। ये कंपनी की वेक्साइट पर भी उपलक्ष हैं और लिंक https://www.bseindia.com/, https://www.nseindia.com/ तथा https://www.bseindia.com/, https://www.nseindia.com/ तथा https://www.bseindia.com/, https://www.nseindia.com/ तथा https://www.bseindia.com/, https://www.nseindia.com/ तथा https://ata और प्रजासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 44 के कंपनटेक को पेवाएं लो है। सारदर्थों के मुनेपोच है के पेवुजीएम ने से सदस्यों को 'चुनिएम जुविधा के माध्यम से एजीएम नोटिस में निर्दिष्ट व्यवसाब पर इलिव्हनिक रूप से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुचिधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने वीसी/आंपरिएम, सियेट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग की प्राथमा। केवल वे सदस्थ, जिनके नाम प्रनिवार, 2023 सुवह 900 बजे (भा.मा.स.) से सुरू होगी और एजीएम में आग तेने सियाएं ली प्रायर से जिनिहेप्ट 2023 ('कट-ऑफ तिथि') को सदस्यों के राक्टदरालाभगोगी व्यामियों की युची में दर्व है, केवल को बोट देने (सिये ई-वोटिंग के आपज से और एजीएम में के तक्तर हों और उत्तर कर साद अंदी स्राय हर्य जिनकी सियेट ई-वोटिंग के साय्य से रावे बहुमी ने दें चीटिंग के साख्य से अनुपाय में होगा कोई व्यकि के क्रि से स्वर्य के जिंक्य से स्वर सुची में उनके हिस के अपया के ही फिस दर्य के राकवर हों जी आप याम तत्वर हो जी आर उनके	पित. कांयतियः ६००, अरुणास्त विहिष्टा, वासार्थमा गहे, कनोट प्लेस, नई दिल्ली–110001 वेदसाइट: www.goodluckindia.com सीआईएन : 1.7.4899D1.989P1.C849910 उनदी वार्षिक आम बैठक की सुम्दाना, बुक क्लोजर और सिमोट ई—वोटिंग की जानकारी पात्र कटोकर 2023 पूर्वड 1100 को, वीडियो कॉनफेंसिंग (पीसी)/ अन्य जीडियो वे विजुजन नायम (ओएयोएग) के माध्यन के कभी जानिविन्य. 2013 और उसके ततन लाए गए नियने भेसी (सुमिद्धता वारिक आंग फळीकरण आवयरवातारी) विनिम्य. 2013 और उसके ततन लाए गए नियने भेसी (सुमिद्धता वारिक वारे एक ठीकरण आवयरवातारी) विनिम्य. 2013 और उसके ततन लाए गए नियने भेसी (सुमिद्धता वारिक वारे फळीकरण आवयरवातारी) विनिम्य. 2015 अरि एसके ततन लाए गए नियने भेसी (सुमिद्धता वारिक वारे एक ठीकरण आवयरवातारी) विनिम्य. 2015 अरि एसके ततन लाए गए नियने भेसी (सुमिद्धता वारिक वारे का ठीकरण आवयरवातारी) विनिम्म. 2015 अरि एसके 2021 । 14 दिसंपर 2027 वे गरिक है. 2022 की परित्र और सेवी परित्र विनाम 12 नई. 2020 15 जनवरी 2021 13 नई. 2022 और उस जाये है. 2022 की प्रायतित की पार्टिंग हे पात्र को सुरवा, 11 नाई. 2023 को साला वितीय य ये बीचकि सिप्टे और दूरस्थ ई–वोटिंग विवरण पत्र स्ती खरवा है । वे प्रवरात्ती को गोदिस ईनेक भेस्ती की पार्टिंग / डियॉलटर्ंग के साल अपनी हे डो प्रवरायकों को गोदिस ईनेक भेने की जीति निवि 56 तितर, 2023 है। ये दलावेज संदर्व इंग्रे डो प्रवरायकों को गोदिस ईनेक भेसी की वित्ति वार्कि रियोटे प्रायत करने और ई-वोटिंग के लिए लॉनिग विवरण प्राय करने के लिए अपनी ईनेल आईडी प्रजीकृत करने के लिए नीवे देए पए निर्देशों का पातन करें। भारतिक सांग हे व्याय विवरण, अपनी है के खरवर्ग की के योगर हाफकर, पर्यंट. एसएस सरिक तिरि टेंड एनडी टी–34, दूसरी मजिल, ओपवालो कीरेया होफ सेवी हात निविर्यित अपनी ईनेल वार्डवी, नोबडहन नंथ, के व्याया विवरण आदन करें। कुप्ता कंपने हित्र ने दे सिंहर थाती के को ते हाफर प्रायंट. एसएस सरिक तिनिटेंड एनडी टी–34, दूसरी मजिल, ओपयालो की ते यात सारफर। नियन, आर सेवी हात निविर्य कर या प्रायतिक कर करे को सिंह निर्क कृपतरी चो के सेवर प्रायत करें। इस क्याय से वारा प्रेयति हो सार्यायरिय की वे स्वारहर प्राय, द्रायत स्वी के तहात उपलाब है। आपसे क्योति दे रायरिर्य से रायर करें तार खीता हारा लाह से गई के सांसरकर वान स्वर्यत के बारक रार्या को स्वायर्या के स्वाय	CIP No:: 1748990L1987PLC026617 Regd. Offic: 37 df Bios, Surya Plaza, K-18547, Sarai Julena, New Friends Colony, New Delhi – 110025, E-mail: c:@modisteel.net, Website: www.modisteel.com Phone: 011-9872442, 19. NOTICE Is hereby given that the 37th Annual General Meeting of the Company will be held through Video Conferencing ("CV") (Jother Audio-Visual Means ("OVAM") na Sturday, 30th. September, 2023 at 01.30 PM, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 read with General Circular No. dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, 8th December, 2021, 14th December, 2021, May 5, 2022 and 2the December, 2022 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business as set up in the Notice of AGM. Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM or view the live webcast at https https://www.workinglindia.com. Members participating through the VC / OAWM facility shall be reckoned for the purpose of guorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. In compliance with the relevant circulars, the electronic copy of Notice of the AGM alongwith Annual Report for the year 2022-23, have been sent on September 6, 2023 to all the members of the Company whose email address are registered with the Company / Depository Participanti(s) / RIA (Skyline Financial Services Pvt. Ltd). The aforesaid documents are aliso available on the Company's website at www.modisteel.com and on the website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.modisteel.com and on the website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.modisteel.com and on the website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.beainda.com. NDTICE is also hereby given pursuant to regulation 42 of the Securities Exchange Board of	 9. औं अरुण कुमार श्रीवारतंव पुत्र शी पारस नाथ श्रीवारतंव (गरंदर) निवासी मकान न. 10. सादिक नगर, सिहानी गाजियावाद उत्तर प्रदेश 20101 वी/शीनते. घढ आपके ऋग खाता संख्या – 100741007316 के संदर्भ में है। इनके नाम से खाता है स्वर्गीय सुप्रीर कुमार न्यरण खाता सारं: 100741007316 इस तिथि को (पनपीर पोषित 28-07-2023 संरतीकृत ऋग चुविवायें पीएल-एलएपी-टीएत संरतीकृत ऋग चुविवायें पीएल-एलएपी-टीएत संरतीकृत ऋग चुविवायें पीएल-एलएपी-टीएत संरतीकृत ताथि क. 1705000/- (ज्यये सन्नड लाख मात्र) बकाता / देओंक राशि फ. 1775000/- (ज्यये सन्नड लाख मात्र) उपरांक खाता को नांरडा-10 स्थित झाखा से प्राय संरवीकृति पत्र के माध्यम से र. 1700000/- (ज्यये सन्नड लाख मात्र) की एक ऋण चुविवा से प्राय संरवीकृति पत्र के माध्यम से र. 1700000/- (ज्यये सन्नड लाख मात्र) की एक ऋण चुविवा संरवीकृत की गई है. यह ऋण खातो काके मेस स अत्यांक खाता को नांरडा-10 स्थित झाखा से प्राय संरवीकृत की गई है. यह ऋण खातो काके समय से अस्तंता प्रायनक दासे पर्य सितादित हो रहे हैं और इसतिये आग इस तुदि के तहत यहा इसने ऊपप बताए अनुसार ऐते ऋण के संबंध में तारपति राखी को नियमित / रमायोजित करने के दिए व्यतम उठाने में विराल रहे हैं। उक्त नुटे के यूण्टरात, आपके खाते को क्यायार के नियमित अनुक्रम में अनुप्रितीनुत्रा खाता की बहियों ने और इस संख में नारसीय रिक्ती के कि प्राय नारीख के दिप्र व्यतम उठाने मं विराल रहे हैं। उक्तनु-विष्मादित परिसंपति के रूप मं वेगीयित करी तारी की नारिष के दिप्र राजयां / त्यानत आदि के संख म नकने पर खेक प्रतिपूत परिसंपत्ति की काय से नारिख की जार सारे की अवतान कात्रा आखान करके कि की आहत भी टीस की नारिख को विष्ठ की तारी को निर्धा का सुग्रतान और छोठिट जान करें जा कि कुत नितालक रु. 1775,000/- (र्जय सन्नह ताख विष्वहतर हजार सात्री की वासुको और अन्तुवा करेता र प्रत प्र आखाई प्रत वा विक्री के क्रायित वास का जाएगा।। प्रतिपुत परिधां/ संपति करेगा, जरने पर खेक प्रतित्रित परियों को कडा वर्त निर्दर को तत्याव को सा 10 रह अत्य स्था आ खा माडा 10, राग।।। प्रति पर सायिक के स्वर राज्य हुत हो त्राय प्रत सात्रिक है. रात सिंत के इत तत्वर उत्त प्रत प्र प्र के प्रत स्था के का सिदर को सं करा का सिर रात मक्य
तकत बनाए गए नियमें और सेवी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवरयकताएँ) विनियम, 2015 ('पूचीबद्धता वितियम') के अनुपालन में 16वीं एजीएम के नोटिस ('एजीएम नोटिस') में निर्दिष व्यवताय को संचालित करने के लिए पीसी ज्वैतर लिमिटेड ('कंपनी') की 18वीं वार्किक आम बैठक ('एजीएम') अनव आडियो विजुअल साधन ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एसतीए परियो और सेवी परिष SEBLHOCTED/PoD-2/PCIR/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के साथ प्रणीएम नोटिस केवल उन सदर्स्य को इलेक्ट्रीनेक मोंड हारा भंजा गया है जिनके ई-नेल पता दिपीजिटरी पार्टिसियेटरा ('डीपी')/कंपनी/जिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट-केकिन टेक्नोलंजीज लिमिटेड ('केफिनटेक') के साथ पंजीकृत है। कंपनी ने 7 सितंबर 2023 को इनका डिस्पैच पूरा कर लिया है। ये कंपनी की वेबसइट पर भी उपलब्ध है और एजेंट-केकिन टेक्नोलंजीज लिमिटेड ('केफिनटेक') के साथ पंजीकृत है। कंपनी ने 7 सितंबर 2023 के इनका डिस्पैच पूरा कर लिया है। ये कंपनी की वेबसइट क्रमाः https://wow.bscindia.com/, https://www.nscindia.com/ तथा https://evoting.kfintech.com/ से एकसेस किया जा सकता है। https://evoting.kfintech.com/ से एकसेस किया जा सकता है। divation की प्रवीय प्रजीएम नोटिस ने निर्क्षिट अनुपालम में कंपनी की प्रयोग्र सिया प्रवीग्र के साथ प्रवीक्त सार्णाएम में ई-वोटिंग देखा थी हो। यहरवों के आयोदार की खुविया प्रवतक्त दिलि पर्या के दंगार से प्रजीएम में क्यावर को प्रविधा प्रवाद के प्रव खुविय, 2023 ('कट-ऑफ तिथि') को सदस्यों के रेकिटट/लाभागोगी त्यामियों की युची में दर्व है कवल वही बोट देने (सिटाई ई-वोटिंग देजागी और खार्णिएम में कारने के स्वय को ता प्रवी कि राक्ष के अनुपाय में किया के क्या कर में और एजीएम में के इनक हास के अन्य यात्म के प्रवत्त किया देत (सिटाई ई-वोटिंग) के माय्यम से और एजीएम में के इनक ता के कार स्वर के के प्रव का संदर्थ कि तिथि के अनुसार संपर की प्रवा कर सा के आप क	पित कांग्रांत्य. 500, अरुणमाल विलिम, माराखंमा रोड, कनोट फोस, मई दिल्ली–110001 जेवसाइट: www.goodluckindia.com सीआईएन : 1.74899D1.0880F1.C084910 जउटवी वार्षिक आम बैठक की सुधाना, बुक क्लोजर और सिमेट कु–वोटिंग की जानकारी अराज कांग्रे के प्रायंत्र कि प्रायंत्र की उपये गातिक आम केक (एसीएन) शाविव, 2020 पूर्वा के 1100 रजे, वीडिये कांग्रेलेंसा (वीसी)/ अन्य आडियो वे कियुअल मान्यम (ओएरोपन) के मान्यन वे मग्नी अधिनिय, 2010 और उपरखे तरत नगए गए भियने.सेंसी (सुमीबदता वारिय्त और मकटेमर आवस्याकरारी) विनियन, 2010 और उपरखे तरत नगए गए भियने.सेंसी (सुमीबदता वारिय्त और सकटेमर आवस्याकरारी) विनियन, 2010 और उपरखे तरत नगए गए भियने.सेंसी (सुमीबदता वारिय्त वारे पार्ठ समान्य रे मग्नी अधिनियन, 2012 कि प्रायंत्र के 2021 कि स्थित दिनाक क औरत, 2022 के प्रायंत को मान्यन परिपत्र का 10/2022 दिनाक 28 दिस्पर, 2023 के साज परित दिर्ग रक 5 मई, 2022 की प्रायंत को परित होता 2.7 मई, 2023 की राजा विति का बीठित सिर्ग के बीठित, 2023 के प्रायंत को गएगी 1 देखक सुदारा 1.1 नई 2.2023 के साजा वात्री विरोध व्यसप्रय को निपदाने के दिर्ग (औरत 2020. 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2023 को साजा वितीय की बीठित सिर्ग (14) रे दुस्प्र बु-गोटिंग किरण ता स्था सदस्यों को इतेनदानिक ना के ने के दिए कपनी की कासिन सिरि हासिर्ग, 2023 हो 1 ये दसरायेज सदस्यों हुयार आपनातोक करने के तिए कपनी की भारति सिरि हासिर, 2023 हो 1 ये दसरायेज सदस्य आदा आपनातोक करने के तिए कपनी की असित सिरि 20 सिरार 2023 हो 1 ये दसरायेज सर क्या के इतेनदानिक को की तिरा कि प्र विद्य 22-25 के लिए वार्षिक रियोर्ट प्रायं करने के दिए गोने दिर्य अपनी कि वेयर द्रारकर एजेट, एनएएस सिर्यंत अन्य प्रायं काल के प्रेतन विद्य गोरे दे से वार्यंग किन आईती प्रातंत्र कर मान करने के तिए वार्गी होतिरेड (रायंत्र) दिन्य, द्रारां कि क्यांनी के को दिस सार्यंग से विद्य सार व्यन्त के वेयर सार्राक टेन्क द्यारां सिर वार्य के वेया वीदिय की कोंच हार करने के तिए वार्गी हेत्स वार्तिक रे के स्थान प्रायंत कर वेया की सिर वार्य्य करने के तां क्या सिर कर्य होतिरेड (एएएएसस्रिक, वार्य के के क्यांनी के क्यांन्य करांनी के तार देवक करने के तां सिर वार्य सार्याकि के स्थान्न हित्य सार्याकर सार्या की संपतर कर सार सार कर के तां की वां हार सार्य के के करना ने कि के सार	CIN No: 1748990L1987PLC026617 Reg. Office: 3 rd Floos, Surya Plaza, K-18547, Sarai Julena, New Friends Colony, New Delhi – 110025, E-mail: c:@modisteel.net; Website: www.modisteel.com Phone: 011-9872442, 19. NOTICE Is hereby given that the 37th Annual General Meeting of the Company will be held through Video Conferencing ("CV") (Jother Audio-Visual Means ("OVAM") on Saturday, 30th September, 2023 at 01.30 PM, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 read with General Circular No. dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, 8th December, 2021, 14th December, 2021, May 5, 2022 and 2th December, 2022 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business as set out in the Notice of AGM. Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM or view the live webcast at https https://www.evoitingindia.com. Members participating through the VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. In compliance with the relevant circulars, the electronic copy of Notice of the AGM alongwith Annual Report for the year 2022-23, have been sent on September 6, 2023 to all the members of the Company vinose email address are registered with the Company / Depository Participanti(s) / RIA (Skyline Financial Services PVL Ltd). The aforesaid documents are alios available on the Company's website at www.modisteel.com and on the website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.modisteel.com and on the website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.modisteel.com and on the website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.beainda.com. NDTCE is also hereby given pursuant to regulation 42 of the Securities Exchange Board of I	 9. औं अच्छ बुमार श्रीवार्षतं पुत्र औं पारस नाथ श्रीवारतंव (गारंदर) निवासी नकान ने. 10. सदिक नगर. (तिडानी गाणियावाद उत्तर प्रदेश 20101 औ/शीनों. घढ. आपके ऋग खाता संख्या – 100741007316 के संदर्भ में है। इस के तान से खाता है पियोंय चुपोर बुमार ज्या खाता सारं: 100741007316 के संदर्भ में है। इस के तान से खाता है पियोंय चुपोर बुमार ज्या खाता सारं: 100741007316 के संदर्भ में है। इस तिथि को एनयोए घोषित 28-07-2023 संत्यीकृक ऋग चुविधारें पीएल-एलएथी-टीएल संत्यीकृक ऋग चुविधारें 1075000/- (एपये सत्रड लाख मात्र) कार्या / फेऑक सात्री 1.175000/- (एपये सत्रड लाख मात्र) उपरांक खातों को नोएडा-18 स्थित शाखा से प्रांत संत्यीकृति पत्र के मारुयत रुपार स्थ हथा रुपार अत्यांक खातों को नोएडा-18 स्थित शाखा से प्रांत संवीकृति पत्र के मारुयत रुपार स्था स्था अत्यांक काल्वा मात्र) थीर एक ऋण चुविधा संत्यीकृति पत्र के मारुयत के तार एम सं के अतराध काल्य के तर्वाध संवी से या सात्री संत्यीकृत जा गई & यह तरा का तार्थ का रुपार वतार अनुयार एते ऋण के संवंध में आपते संत्यीकृत या प्राया रिवा विक ते तियगित अनुकृत्य में अनुप्रतिनानुसार खातां की वीहियों ने आंद प्र संवंध में गारतीय रिजर्व बैक के निर्दशी ता सि सा मी से संयुक वतार अनुयार एते रुपा / अधिम / ऋण चुविधाओं को वायस लेते है और आप सनी से संयुक खाते आं बहारी पर प्रतियत्त परिधानि के रुपा में वर्गाकृत करने के लिए कात्रिय वतार अत्या-अत्या आखाया करसे रिक आब दस तोटिर की गारिय की तारिय के दिन मं अवसी को तार प्र रिवाल, प्रतिप्रति परिधारियों को वायस ति दिखातिरियों को काकीस्क ख्यां / लागत आदी के साथ, 10-08-2023 के अनुसार सारे बहाया विधीयों का गुगता और केडियें जम करें, तो कि खुत सितार प्र रेग प्रति क्या विधीकि के मार्य ता विया के न्या की स्था की करवाइयी करेगा और पर्थ अपाइनमंट या विक्री के काम्या सं सारा वार्यिया की बन्सुती का अंड कोर्यूव के तिय प्रति का कि प्र या वाया वित्ति के प्रतित्य के को किय ति के प्रति के अं वितियम की घारा 13 एवं जन्य मार्य के वायम से दिल्य कि प्र तो कार्य हो करे ता कि खुत सिता ति यह के व्यायम से वा व्याय हत्त्य प्रति क्रया के अवितियम
तित बनाए एए नियमें और सेथे। (सूचीवद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('पूचीबद्धता चिनियम') के अनुपालन में 150 एजीएम के नोटिस ('फीपम नोटिस') में निर्दिष्ट व्यवसाय को संचालित करने के लिए पीसी चैंतर लिमिटेड ('फंपनी') को 18वी वार्षिक आम वैठक ('पूचीपम') चालित, 20 सिवर, 2023 को द्वाव 11:00 को (भाग.स.), चौंडी को कॉठोंस ('चीपी') अन्य ऑडियो विवृअल सापन ('ओएवीएम') के माञ्यम से आयोजित की जाएगे। एमरीए परिषर्वा और सेथी परिष SEBUHO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनोर 5 जनवरी, 2023 के अनुसार, वार्षिक सिटें 2022-23 के साथ प्रकीएम नोटिस केकल उन सरदर्था को इलेकट्रीकन एजेंट-केफिन टेक्नोलगीजेन लिमिटेड ('केफिनटेक') के साथ पंजीकत है। कंपनी ने 7 सितंस 2023 के इनका हिस्पैच पूरा कर लिया है। ये कंपनी को वेससाइट पर भी उपलब्ध है और लिक https://ownw.bscindia.com/, https://www.nseindia.com/ तथा https://ownw.bscindia.com/, https://www.nseindia.com/ तथा https://ownw.bscindia.com/, 10 स्वर्भ सिक सिज्य जा कता है। कंपने (प्रवंध और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सूचीवाद्मा विनियमों के विनियमन 44 के साथ पति अधिविषम की थारा 108 के प्राथानों के अनुपालन में कंपनी जानन सरहां को ई-नोटिंग तुवियो के माज्यम से एजीएम नेटिस में निर्दिष्ट व्यवसाय पर होवद्यीनिक रूप से येट देने के अपने व्यक्ति का प्रयोत करने की युविधा प्रतास कर रही है। कंपनी ने वीक्रे/आयोता, सिर्ग टं नेविधि? और एजीएम में इ-वोटिंग के माज्यम से एजीएम ने निर्द / 20 और सूचीवाद्या विनियमों के विनियमन 44 के साथ पति अधिविषम की थारा 108 के प्राथायों के अनुपाल में कंपनी जानन सरहां को ई-व्यटेंग के प्राय ते के सुविध प्रदार 20 सितंस 2023 ख़र 800 वर्ग (भाग.स.), सेंपह होगी और ख़ीफा में इ-वोटेंग के माज्यम से एजीएम ने विद्र योही के क्या से पर्य होगि के प्राय के ने की स्वाय प्रवाय के प्रतुशिय में इकि दे एजीएम ने से के लिए एजेंसी के क्या से पर वेक्रिटट लाभनोगो स्वामि है। सदर्यों के अनुपात में के सित्त (ने सिर्ट - वोटेंग के प्राय से कंप्रतर के सेवाए ली है। रार्या से अनुरोध है कि वे एजीएम ने सार से से कि तिथ र खुपि प्रवाय के सेवाएं ली स्वाप से कर्व रे के अन्य कर के लिक से दोशन के दोता से रे प्रकार के स्वर हु के हो सार हों। अं सरदर्यो के केला में होगा के से ही से स्वर वाय परि करी से क्या से से तर सक	पित कांग्रील 200 सुम्पाल विरिद्ध साथा साई किंग्रीले कांग्रे के साई किंग्री के साई के साई के साई किंग्री के साई के सा	 Den St. 174890L1987PLC026617 Reg. Office: 176 Floor, Sury APA2a, 7:4837, Sarai Julena, New Yriends, Colory, New Delhi – 110025, E-mail : cs@modisteel.net, Website: www.modisteel.com Phone: 111-9872A42, 130. DITICE OF STA MANUAL GENERAL MIETING, BOOK CLOSURE AND EVOTING INFORMATION Not the Companies AL, 2013 and Website of the Company will be held through Video Conferencia ("CV",") Other Audio-Visual Means ("OVAM") on Sardinga, 30th September, 2023 at 01.30 PM, in compliance with all applicable provisions of the Companies AL, 2013 and Mules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulation (2015) read with General Circular No. dated April 8, 2020, 2019, 2015 aread with General Circular No. dated April 8, 2020, 2019, 2015 aread with General Circular No. dated April 8, 2020, 2019, 2015, 2012 and 2018 publicable incidence of ASM. Members will be able to attend the AGM through V(") AVM or view the live webcast at https fittes, //www.exotingindia.com. Members participating through the VC (DAVM of acility shall be centence for the purpose of quorum under Section 103 of the Company's Mebsite at the relevant circulars, the electronic copy of Notice of the AGM along with Annual Report for the year 2022-23, have been sent on September 6, 2023 and the members of the Company's Mebsite and Members are in Section 103 of the Company's website at the Securities Exchange to Depository Participant(s) / KIX, (Skyline Financial Services PL, Lit), the Gomanies (AL, 2014). The the veste of the Stock Exchange in a BSE inited at www.beindia.com. NDTICE is also hereby given pursuant to regulation 42 of the Securities Exchange for the system of the Social Securities Finange Board of the Gomanies (Management and Aministration Rule, 2014, that the Register of Members and Sacta 10.30 of the Gomanies (Management and Aministration Rule, 2014, that the Register of Members and Sacta 10.30 of the Gomanies (Manag	 9. ती अफण बुमार सीमार्जव पुत्र सी पारस नाथ शीवसवा (गरंदर) निवासी मकान नं. 10. सादिक गगर, सिडानी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 20101 औ/शीत!. घढ. आपके प्रप्र खासा संख्या – 100741007316 के संदर्भ में है। इस ने नाम से खाता है स्पर्गीय चुप्रेर कुमार नार खाता से: 100741007316 के संदर्भ में है। इस ने नाम से खाता है स्पर्गीय चुप्रेर कुमार नार खाता से: 100741007316 के संदर्भ में है। इस निधि को प्रनगोए घोषित 28-07-2023 संस्वीकृत ब्रप्य चुविधार्थ धेरित - एतरपी-टीएत संस्वीकृत ब्रप्य चुविधार्थ धेरित - एतरपी-टीएत संस्वीकृत वाक्ष ति एक कप्य चुविधा संस्वीकृति पत्र के नाव्यम से ह. 17.00.000/- (भर्पसे सक्रह लाखा मात्र) थि एक कप्य चुविधा संस्वीकृति पत्र के नाव्यम से ह. 17.00.000/- (भर्पसे सक्रह लाखा मात्र) थि एक कप्य चुविधा खातो के यापार से है. यह कटपा खाता तेगगे समय से अस्तीपजनक टंग से परिचालित हो रहे है और इसलिये आप इस टुटि के तहत यहां इसमें ऊप वारा अनुसार ऐसे ज्या देविपरत, आराक खातो के यापार के रिपित कदन उठाम में विध्यल रहे है। उत्त ठुटि थे एक कप्य चुविधा खातो के यापार के रिपित कदन उठाम में विध्यन रहे। उत्त ठुटि थे दुविपरत, आराक खाते के यापार के नियित नातुन्य मं अनुरिवालुन्याप खाता ती वरिधा में और इस संबंध में गारतिय रिजर्य के क निदेशों व दियानिदेशों के अनुसार (उत्तराय उपलान लगी करगा , पश्चिम/ उप्त चुविधाओं को यापार के नियित जुनक्र स्वराय राज्योत्त सीप-अधिम / अप्र चुविधाओं को यापार के नियति आनुक्र (उत्तराय उपलान लगी करगा , पश्चिम/ उप्त चुविधाओं को यापार को वा वुग्तता और के किस वया अलगत आदि के संध प्र 10-00-2023 के प्रके प्रेर-पिसाय वि के प्रवर्भ संतात्ताका के अंगविव ति ता से के अनुसार (अतदेशा उपलोत लगी खर प्रवर्ग, वरिपरिय दि की आर इस नोटिस की प्रार्ग वी या त्रांत के अनुसार सं वाता के करे ति कि आव इस नोटिस की प्रार्ग से या प्रार्ग हो खर करीत सं त्रां वा त्व करों कर प्रवित्र (परिवर कि अप्र इव क्रांत) का कार्या के ति ति ति सं त्याता के करी अत्या वा ति के खुत्र मिताकर रु 17,75,000/- (रुपसे महा हाखा सं त्या गंक और तो सहा वा करे करा और पर्य अलाव करा ती के निक्र कि काताता की को खात हो ति कि कि वा कर्क के सा रह करे अन्य का का के नहत सहाता जिति कि कि प्रवत्त कर सा तर कर सा रह
तित बनाए एए नियमों और सेथी (यूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकर्णाएँ) विनियम, 2015 ('पूचीबद्धता विनियम') के अनुयालन में 18वीं एगोएम के नोटिस ('पज़ीस, नोटिस') नं निर्दिष् व्यवताय को संचालित रूटने के लिए पीसो खेलर लिमिटेड ('कंपनी') को 18वीं वार्फिक आम बैठक ('एडपोर') हनियान, 30 सिलेर, 2023 को सुबह 11:00 वने ('भाग.स.), वीडियो लॉन्फोरंग ('घीसी')अल्य आदिवी विजुअल साधन ('ओएपोएम') के माध्यम से आयोजत की जाएगे। एससेए पिएसो और सेवी परिष SEBL/HOCFD/POD-2/PCIR/2023/4 दिनोंर्ड 5 जनवरी, 2023 के अनुपार, वार्फित सिटिंट ('केफिनटेक') के साथ पंजीप्त है। कंपनी 17 सिलंस 2023 को इनका हिस्पेच पूरा कर लिया है। ये कंपनी को वेससाइट पर भी उपलब्ध है और लिंक https://corporate.pcjeweller.com/annual-report के साथ-साथ वॉप्स है लिमिटे नेपतल स्टॉक एससचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और केफिनटेक को वेससाइट क्रम्स: https://www.bseindia.com, https://www.nseindia.com/ तथा https://woring.kfmech.com/ ये एसमें किया जा सकता है। कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और यूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 44 के साथ प्रति अधिनियम की थारा 108 के प्राथानों के अनुयालन में, कंपनी अपने सरस्यों को ई-नोटिंग सुविधा करने की युविधा प्रवास कर रही है। कंपनी नो वेसी/आंएपोएस, सिगट दे-नोटिंग और एजीएस में फंननेटिंग के माध्यम के प्रशा 108 के प्राथान की अपूरीपा प्रतास होता के प्रायं प्रति क्रियों को इंग्लां ता प्रयंक करने की युविधा प्रवास कर रही है। कंपनी ने वीस/आंएपोएस, सिगट दे-नोटिंग और एजीएस में मंग लते तै सिंग है। सरस्यों को भगीवारी की सुविधा प्रवान करने के लिए एसेंगी के रूप में कंपनटेक की सोवा एसी है। सरस्यों को भगीवारी की सुविधा प्रवास ने से के लिए हिंसा' के ध्यान के प्रत्येस सुदा आहथा राह का रही है। कंपत्यों के अनुरोध है कि वे एजीएम नीटिंग के प्रवास के सी ये के अनुपति से की साथ सिंग हो। सरस्यों के अनुरोध है कि वे एजीहन नी सिंग हे खाना से से सिंग से के सुन्युति सही ये जाएगी। के स्वर्य से अपर ही नोसिंग ते तक्के मतदान का अधिकार कट-ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी की युका इबिवरी ते आएग। के सं या ति आं नोक्वो आं सावी के स्वर्च के सक स्वर केलिनटेक के वे प्रयास के सार करने के री जी रात के के कक सुवा के रक्ते कक सार के सान सहत्य केलिनटेक के वेया ना हा ता है ने वेतर सुंगी के आययम से	पित. कांग्री त्याः कांग्री देखें कांग्री राष्ट्र स्विक्ती-110001 वेषाहर: www.goodluckindia.com. केंग्रेस goodluck/@goodluckindia.com रसिवाईर: 1.748901.19807LC86912 Srafi angen existent and the set and set and the	 Den St. 174890L1987PLC026617 Red, Office: 3 af Floco, Sury Plaza, K-1857, Sarai Julena, New Friends, Calory, New Delhi – 110025, E-mail : cs@modistee1.net, Websitz: www.modistee1.com Phone: 111-49872442, 130. DICLE OF 37h ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION Not the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulation. 2015 read with General Circular No. dated April 8, 2020, April 3, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, 8th December, 2021, and the December, 2021, and the December, 2022 and other applicable icrounds in Sub Web the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars", to transact the business as set out in the Notice of AGM. Members will be able to attend the AGM through VC / DAVM or view the live webcast at https fitts.//www.exolitagindia.com. Members participating through the VC / DAVM facility shall be ecknened for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. In ompliance with the relevant circulars, the electronic copy of Notice of the AGM alongwith Annual Report for the year 2022-31, have been sent on September 6, 2023 to all the members of the Companies (KS) Kyline Financial Esrvices PV. Ltd). The Jonesal Model act, 2013. NDTCE is also hereby given pursuant to regulation 42 of the Securities Exchange to Securities Exchange to BSC in additionation. NDTCE is also herebry given pursuant to regulation 42 of the Securities Exchange to a foresaid documents are also available on the Companies (Magament and Jones) and manies Act, 2013 and Section 103 of the Companies (Magament and Jones) and Manistration Rule, 2014, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Companies (Magament and Jones) and Magament and Jones Magament and Disclosure Requirements), 2015 and Section 13 of the Companies (Magament and Jones	 9. औं अच्छ बुमार श्रीवार्षतं पुत्र औं पारस नाथ श्रीवारतंव (गारंदर) निवासी नकान ने. 10. सदिक नगर. (तिडानी गाणियावाद उत्तर प्रदेश 20101 औ/शीनों. घढ. आपके ऋग खाता संख्या – 100741007316 के संदर्भ में है। इस के तान से खाता है पियोंय चुपोर बुमार ज्या खाता सारं: 100741007316 के संदर्भ में है। इस के तान से खाता है पियोंय चुपोर बुमार ज्या खाता सारं: 100741007316 के संदर्भ में है। इस तिथि को एनयोए घोषित 28-07-2023 संत्यीकृक ऋग चुविधारें पीएल-एलएथी-टीएल संत्यीकृक ऋग चुविधारें 1075000/- (एपये सत्रड लाख मात्र) कार्या / फेऑक सात्री 1.175000/- (एपये सत्रड लाख मात्र) उपरांक खातों को नोएडा-18 स्थित शाखा से प्रांत संत्यीकृति पत्र के मारुयत रुपार स्थ हथा रुपार अत्यांक खातों को नोएडा-18 स्थित शाखा से प्रांत संवीकृति पत्र के मारुयत रुपार स्था स्था अत्यांक काल्वा मात्र) थीर एक ऋण चुविधा संत्यीकृति पत्र के मारुयत के तार एम सं के अतराध काल्य के तर्वाध संवी से या सात्री संत्यीकृत जा गई & यह तरा का तार्थ का रुपार वतार अनुयार एते ऋण के संवंध में आपते संत्यीकृत या प्राया रिवा विक ते तियगित अनुकृत्य में अनुप्रतिनानुसार खातां की वीहियों ने आंद प्र संवंध में गारतीय रिजर्व बैक के निर्दशी ता सि सा मी से संयुक वतार अनुयार एते रुपा / अधिम / ऋण चुविधाओं को वायस लेते है और आप सनी से संयुक खाते आं बहारी पर प्रतियत्त परिधानि के रुपा में वर्गाकृत करने के लिए कात्रिय वतार अत्या-अत्या आखाया करसे रिक आब दस तोटिर की गारिय की तारिय के दिन मं अवसी को तार प्र रिवाल, प्रतिप्रति परिधारियों को वायस ति दिखातिरियों को काकीस्क ख्यां / लागत आदी के साथ, 10-08-2023 के अनुसार सारे बहाया विधीयों का गुगता और केडियें जम करें, तो कि खुत सितार प्र रेग प्रति क्या विधीकि के मार्य ता विया के न्या की स्था की करवाइयी करेगा और पर्थ अपाइनमंट या विक्री के काम्या सं सारा वार्यिया की बन्सुती का अंड कोर्यूव के तिय प्रति का कि प्र या वाया वित्ति के प्रतित्य के को किय ति के प्रति के अं वितियम की घारा 13 एवं जन्य मार्य के वायम से दिल्य कि प्र तो कार्य हो करे ता कि खुत सिता ति यह के व्यायम से वा व्याय हत्त्य प्रति क्रया के अवितियम
तित बनाए एए नियमों और सेवी (यूचीवद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकर्णा) विनियम, 2015 ('पूचीवद्धता विनियम') के अनुपालन में 18वीं एगोएम के नोटिस ('प्रकार्षम, नोटिस') में निर्दिष्ठ व्यवताय को संपालित रूटने के लिए पीसों चौरत सिरिडे ('कंपनी') को 18वीं वार्षिक आम वैठक ('पूचीव') श्रान्य, 30 सिर्वय, 2023 को यूचव 1100 वर्ग ('प्राप्त म,) वींप्रें को कंठिंगां ('घीसी')अन्य ऑडिवो विवुअल साधन ('ओएगोंएम') के माध्यम से आयोत्त की जाएगे। एसमेंए पिएसों और सेवी परित्र SEBUHO(CFD/PoD-2/PCIR/2023/4 दिनोंर्ड कनवरी, 2023 के बहुमार, वार्षित सिर्टे ('केफिनटेक') के साथ पंत्रीफ़त है। कंपनी 17 सिर्वय 2023 को इनका दिस्पैय पूरा कर लिया है। ये कंपनी को वेससाइट रूपक: टेकॉफन टेकोलोंका लिमिट's ('केफिनटेक') के साथ पंत्रीकृत है। कंपनी 17 सिर्वय 2023 को इनका दिस्पैय पूरा कर लिया है। ये कंपनी को वेससाइट रूपक: https://www.bscindia.com, https://www.nscindia.com/ तथा https://www.bscindia.com/, के प्रस्ते किया का सकत है। कंपनी (प्रवंधन और प्रशासन) तियम, 2014 के तियम 20 और यूचीवद्धता विनियमों के विनियमन 44 के साथ प्रति अधिनियम की थारा 108 के प्रयाथनों के अनुपालन में, कंपनी अपने सररावी को ई-नीटिंग तथा कि अधिनियम की थारा 108 के प्रयाथनों के अनुपालन में, कंपनी अपने सररावी को ई-नीटिंग तथा प्रति अधिनियम की धारा 108 के प्रयाथनों है अपनी ने वीरीओएपिएस, सिर्गट - नीटिंग और एजीएस में ई-नीटिंग के माध्यम से परर्दयों के अनुपी को सुचिया प्रदान करने के लिए एसेंसों के रूप में के करने के सिर्वार की श्रा प्रशासन कर रही है। केपनी ने वीरीओएपिएस, सिर्गट - नीटिंग और एजीएस में मंग के हे। सररयों के अनुपी प्रयाहन कर रही है कि ये एवीएम नीटिंस में डिल्लिय '' 1988 प्रशीम के क्रिकेटक की सेवाए ली है। सररयों के अनुपीध है कि ये एवीएम नीटिंस में उल्लिएत '' 1989 का अनुपति सी दो जाएगे। के व्यवति स्र यह पुशी में क्रांक कि स्वर क्रांक कर न्रे कि कि प्र स्तंक के तीलटर लाभगोंगे क्यासियों की पूची में दर्च है, केकल वरी धोट देने रियो है नीटिंग के अनुसार कंपनी के वुकत व्यवति दे काएयो। के वर वे यह पुशी में का कि सत्तव का अधिकार कट -ऑफ तिथि के अनुयार र्व प्रशीम के प्रयत्त दे यहां हो और दनके सततता का अधिकार कर - ऑफ कि कि कर-आं की तीलटर लाने से की दा वीरोआयों के माक्य से स्ताय कर स्वर्त के का नर रा	पित कांग्रील 200 सुम्पाल विरिद्ध साराभंभ संतु कांट एसे. मुई दिल्ली–110001 से सारट: www.goolluckindia.com. मैं-गेल goodluck@.goodluckindia.com :सिंघईएन : 1.748901.198071.C89010 उन्दी वार्षिक आम बैठक की सुम्पान, बुळ क्लोजर और उन्दी वार्षिक आम बैठक की सुम्पान, बुळ क्लोजर और (भेग) के माजन से कंग कि गुक्का होग्ला कींग्लें की प्रत्ये कोंग्र के गाँक आ ने केक (एजेएन) रागर्की के प्राय का कि गुक्का होग्ला कींग्लें के प्राय गाँक का न केक (एजेएन) रागरंकी के प्राय का कि गुक्का होग्ला की कि क्ला का क्ला को प्राय गाँक का न्याए भी मिनामें की (हुनीबद्धात वार्षिक और क्रांटीकर आब स्वित के 19 वर्ष होंगे के 19 कींगे कींगे कींगे कींगे के सिंह के स्वाय (औरएलेएन) के माजन से केल 19 कींगिय , 2015 (सूचीबद्धात विनियन) के स्वाय गाँक को ने के ही, 2022 के प्राय गांते सानान्य परिपत सं10/2022 दिनाक 20 दिसर, 2022 के साथ पठित कींगर के 19 कीं 2022 के प्राय गांते के जुनाल्य 1, रजीव कार्यन के 19 कि दिस के रागरंकी के भी कि सुम्बाद को निपकाने के लिए आयोगित की जाएगी। ठेक की सुबना,191 नाई 2023 की समाप कींग करी कि क वर्षा को का कार कि की खंडा को का कार के की हित्य की कार्य का जाए सानान्य प्राय सं10/2022 दिनाक 20 दिसर, 2022 के साथ जी कि अपन के की तिन गिरि 6 तित्व र 2023 है। 2 दरसावेल वरवर्यो द्वारा डाउनलांड करने के दिप एग है जिनकी ±-नेंस इस्क्रे के तिर वार्षिक स्विध, आय करने हुन होनिक को सं भंज दिप एग है जिनकी ±-नेंस का की कार्य / आरार्टा / वियायिटरी के साथ आनी ईसे आईदी पानिक्रन नी करने की तिन गिरि 6 तित्व र 2023 है। 2 दरसावेल वरवर्यो द्वार उत्ता तानिक वियर प्राय के की तिर वर्गी के सिंह सार्विक सिये के साथ आनी ईसे आईदी पानिक्र सात करे को ति के लिए अपनी की के साह के तिर सार्विक सिये सियार करात कर काल वर्ड राग के उंगी एजीएन (शांसिक जान के दिप प्राय होत्य सिंक स्वरी प्राय कि का प्राय के ति के करा की उंगी एजीएन (शांसिक जान के कि क्या की वार्व सार्व रेख का स्वर्य के सुप्र ने दिर के कि के करने की हा सात्र ना कि का कर के के रिव सा सार्व का की ने क्य विक्र कर सुर्य से विर के करनी के उंगी सांस का का के कि के राय सात्री के त्य की कि क्य के सुंक सुर्य के के के सुर्य के ती के सा सारका के व्य त्य की कि का का सुर्य का ते ति कर कर के री की सी हार साजन की साक के	 Den S. (74899C)1987P(C205617 Reg. Offici: a folocy. Surve Plaza, K-1857, Sarai Julena, New Yriends, Colory, New Delhi – 110025, E-mail : cs@modisteel.net, Website: www.modisteel.com Phone: cill-a9872442, 19. DICLE OF STA MANUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND EVOTING INFORMATION Not the Companies AL, 2013 and Website Office Company will be held through Video Conferencia ("CC",") Other Audio-Visual Means ('OVAM'') on Sardinga, Sath September, 2023 at 01.30 PM, in compliance with all applicable provisions of the Companies AL, 2013 and Mules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulation (2015) read with General Circular No. dated April 8, 2020, April 3, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, 8th December, 2021, 14th December, 2021, 14th December, 2022, and other applicable circulars's, but prints, and the business as set out in the Notice of AGM. Members will be able to attend the AGM through V(/ OAVM or view the live webcast at https fittps://www.cotingindia.com. Members participating through the VC / OAVM facility shall be centeened of the purpose of quorum under Section 103 of the Companies AL, 2013. Nompliance with the relevant circulars, the electronic copy of Notice of the AGM alongwith Annual Report for the year 2022-23, have been sent on September 6, 2023 and the members of the Companies (Ksylvine Financial Services PL, Lid), he domains (Management and Alongwith Annual Report for the year 2022-23, have been sent on September 6, 2023 and the angle and the company's website at www.beindia.com. NDTICE is ab hereby leven pursuant to regulation 42 of the Securities Exchange to a strongy of the Company (Skylvine Financial Services PL, Lid), he domains (Management and Alongwith Annual Report for code and Manage Circular Secure Circular	9. शी अफल बुमार सीमार्कत पुत्र शी मारित माय शीवरावा उलतर प्रदेश 20101 थी / शीनो. प्रदेश प्राप्त प्राप्त प्राप्त के संदर्ग में है। का सा संख्या – 100741007316 के संदर्ग में है। का सा संख्या – 100741007316 के संदर्ग में है। का सा संख्या – 100741007316 के संदर्ग में है। का सा संख्या – 100741007316 के संदर्ग में है। का सा संख्या – 100741007316 के संदर्ग में है। का सा संख्या – 100741007316 के संदर्ग में है। का सा के का प्राप्त प्राप्त प्राप्त का सा सा का सा सा का सा सा का सा मात्र का सा सा का संतर्ग का सा सा का सा सा का सा का सा का सा का सा
तित बनाए एए नियमों और सेथी (यूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकर्णाएँ) विनियम, 2015 ('पूचीबद्धता विनियम') के अनुयालन में 18वीं एगोएम के नोटिस ('पज़ीस, नोटिस') नं निर्दिष् व्यवताय को संचालित रूटने के लिए पीसो खेलर लिमिटेड ('कंपनी') को 18वीं वार्फिक आम बैठक ('एडपोर') हनियान, 30 सिलेर, 2023 को सुबह 11:00 वने ('भाग.स.), वीडियो लॉन्फोरंग ('घीसी')अल्य आदिवी विजुअल साधन ('ओएपोएम') के माध्यम से आयोजत की जाएगे। एससेए पिएसो और सेवी परिष SEBL/HOCFD/POD-2/PCIR/2023/4 दिनोंर्ड 5 जनवरी, 2023 के अनुपार, वार्फित सिटिंट ('केफिनटेक') के साथ पंजीप्त है। कंपनी 17 सिलंस 2023 को इनका हिस्पेच पूरा कर लिया है। ये कंपनी को वेससाइट पर भी उपलब्ध है और लिंक https://corporate.pcjeweller.com/annual-report के साथ-साथ वॉप्स है लिमिटे नेपतल स्टॉक एससचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और केफिनटेक को वेससाइट क्रम्स: https://www.bseindia.com, https://www.nseindia.com/ तथा https://woring.kfmech.com/ ये एसमें किया जा सकता है। कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और यूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 44 के साथ प्रति अधिनियम की थारा 108 के प्राथानों के अनुयालन में, कंपनी अपने सरस्यों को ई-नोटिंग सुविधा करने की युविधा प्रवास कर रही है। कंपनी नो वेसी/आंएपोएस, सिगट दे-नोटिंग और एजीएस में फंननेटिंग के माध्यम के प्रशा 108 के प्राथान की अपूरीपा प्रतास होता के प्रायं प्रति क्रियों को इंग्लां ता प्रयंक करने की युविधा प्रवास कर रही है। कंपनी ने वीस/आंएपोएस, सिगट दे-नोटिंग और एजीएस में मंग लते तै सिंग है। सरस्यों को भगीवारी की सुविधा प्रवान करने के लिए एसेंगी के रूप में कंपनटेक की सोवा एसी है। सरस्यों को भगीवारी की सुविधा प्रवास ने से के लिए हिंसा' के ध्यान के प्रत्येस सुदा आहथा राह का रही है। कंपत्यों के अनुरोध है कि वे एजीएम नीटिंग के प्रवास के सी ये के अनुपति से की साथ सिंग हो। सरस्यों के अनुरोध है कि वे एजीहन नी सिंग हे खाना से से सिंग से के सुन्युति सही ये जाएगी। के स्वर्य से अपर ही नोसिंग ते तक्के मतदान का अधिकार कट-ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी की युका इबिवरी ते आएग। के सं या ति आं नोक्वो आं सावी के स्वर्च के सक स्वर केलिनटेक के वे प्रयास के सार करने के री जी रात के के कक सुवा के रक्ते कक सार के सान सहत्य केलिनटेक के वेया ना हा ता है ने वेतर सुंगी के आययम से	पित. कांग्री त्याः कांग्री देखें कांग्री राष्ट्र स्विक्ती-110001 वेषाहर: www.goodluckindia.com. केंग्रेस goodluck/@goodluckindia.com रसिवाईर: 1.748901.19807LC86912 Srafi angen existent and the set and set and the	 Den St. 174890L1987PLC026617 Red, Office: 3 af Floco, Sury Plaza, K-1857, Sarai Julena, New Friends, Calory, New Delhi – 110025, E-mail : cs@modistee1.net, Websitz: www.modistee1.com Phone: 111-49872442, 130. DICLE OF 37h ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION Not the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulation. 2015 read with General Circular No. dated April 8, 2020, April 3, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, 8th December, 2021, and the December, 2021, and the December, 2022 and other applicable icrounds in Sub Web the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars", to transact the business as set out in the Notice of AGM. Members will be able to attend the AGM through VC / DAVM or view the live webcast at https fitts.//www.exolitagindia.com. Members participating through the VC / DAVM facility shall be ecknened for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. In ompliance with the relevant circulars, the electronic copy of Notice of the AGM alongwith Annual Report for the year 2022-31, have been sent on September 6, 2023 to all the members of the Companies (KS) Kyline Financial Esrvices PV. Ltd). The Jonesal Model act, 2013. NDTCE is also hereby given pursuant to regulation 42 of the Securities Exchange to Securities Exchange to BSC in additionation. NDTCE is also herebry given pursuant to regulation 42 of the Securities Exchange to a foresaid documents are also available on the Companies (Magament and Jones) and manies Act, 2013 and Section 103 of the Companies (Magament and Jones) and Manistration Rule, 2014, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Companies (Magament and Jones) and Magament and Jones Magament and Disclosure Requirements), 2015 and Section 13 of the Companies (Magament and Jones	9. शी अफल बुमार सीमार्कत पुत्र शी मारित माय शीवरावा उलतर प्रदेश 20101 थी / शीनो. प्रदेश प्राप्त प्राप्त प्राप्त के संदर्ग में है। का सा संख्या – 100741007316 के संदर्ग में है। का सा संख्या – 100741007316 के संदर्ग में है। का सा संख्या – 100741007316 के संदर्ग में है। का सा संख्या – 100741007316 के संदर्ग में है। का सा संख्या – 100741007316 के संदर्ग में है। का सा संख्या – 100741007316 के संदर्ग में है। का सा के का प्राप्त प्राप्त प्राप्त का सा सा का सा सा का सा सा का सा मात्र का सा सा का संतर्ग का सा सा का सा सा का सा का सा का सा का सा